

॥ श्रीआदिनाथायनमः ॥

अथ

श्रीशोविजवर्जी उपाध्यायकृत अध्यात्मसार ग्रंथ
अर्घसहित प्रारंभ करियेवैये

॥ श्लोक ॥

ऐङ्श्रेणिततः श्रीमान्नंदतान्नाजिनंदनः ॥ उद्धार युगादौ
यो जगदज्ञानपंकतः ॥ १ ॥ श्रीशांतिस्तांतिनिद्रुयाद्भविनां
मृगलांढनः॥गावः कुवलयोल्लासं कुर्वते यस्य निर्मलाः॥१॥

अर्थ ॥ इङ्संबंधीजे श्रेणीतेणे नतके० नमस्कारकयोळे अने अष्टमहाप्राति
हार्यरूपलक्ष्मीयेकरीयुक्त तथा युगनेआर्दे जगतने अज्ञानरूप कादवमांधी उद्धार
नाकरनार एहवाजे श्रीरूपभदेवजगवान तेजयवतावर्तो॥१॥श्रीशातिनाथ जगवतते
जव्यप्राणीओप्रते संतापना जेवनाथाओ मृगनुं लांढनठेजेने जेमचङ्किरण निर्मज
थका कुमुदनीनेविकसितकरेठे तेमजेनीगाव.के०वाणीते पृथ्वीनेविपे उद्घासकरेठे१

श्रीशैवेयं जिनं स्तौमि नुवनं यशसेवयः॥भारुतेन मुखोत्तेन
पांचजन्यमपूपुरत् ॥ ३ ॥जीयात् फणिफणप्रांत संक्रांततनु
रेकदा ॥ उद्धर्तुमिव विश्वानि श्रीपार्श्वोवद्गुरूपचाक् ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ शिवाराणीनापुत्र श्रीनेमनाथजी तेमनेस्तबुंजे जेजगवतेपोताना यज्ञेकरीने
जेम जगतनेनखुंठे तेमजपोतानामुखथी प्रगट्योजेवायु तेणेकरीने पांचजन्य नामे शं
खनेपूरीने तेनोनादकीधो ॥३॥ फणीके० शेषनागतेनी फणनाप्रांतजेमणीतेनेविपे
संक्रस्युंजेशरीर तणेकरीने त्रणजगतनो उद्धारजजाणेकरताहोयनी एवाजे श्रीपार्श्व
नाथवद्गुरूपनाकर्त्ता तेजयवतवर्तो ॥ ४ ॥

जगदानंदनः स्वामी जयति ज्ञातनंदनः ॥ उपजीवन्ति यद्वा
च मद्यापि विबुधाः सुधाम् ॥५॥ एतानन्यानपि जिनान्नम
स्कृत्य गुरुनपि॥अध्यात्मसारमधुना प्रकटीकर्तुमुत्सहे॥६॥

अर्थ ॥ जगतनेआनंदनाकरनार वलीजेहनी अमृतसरिखीवाणीने हजीसुधी पं
फितलोको सेवेठे अंगीकारकरेठे एहवा ज्ञातनंदनजेश्रीवीरजिन तेजयवंतावर्तो ५॥
एपांचेपरमेश्वरने तथा बीजापण जिनोने तथापोतानागुरुने नमस्कारकरीने अध्या
त्मनो सारजेरहस्य तेप्रगटकरवाने हवेउहाहकरुं ॥ ६ ॥

शास्त्रात्परिचितां सम्यक् संप्रदायाच्च धीमतां ॥ इहानुन्नवयो
गाच्च प्रक्रियां कामपिब्रुवे ॥ ७ ॥ योगिनां प्रीतये पद्य मध्या
त्परसपेशलं ॥ योगिनां चामिनीगीत संगीतकमयं यथा ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ घणाशास्त्रोथीजलीरीतेपरिचिंतनकरीने वलीपंडितलोकोना संप्रदायथकी
जेअध्यात्मशास्त्रनेविषे अनुन्नवयोग्यथयुंतेथकी हुंकांइक संक्षेपमात्र प्रस्तावनाकरुं
बुं ॥ ७ ॥ जेरीतेनोगीपुरुषने स्त्रीनागोतसंगीत प्रियकारीजागेठे तेरीते योगीश्वरपुरु
षने प्रीतिनाअर्थे आ अध्यात्मरसेंकरीने मनोहरकारी एहवोपद्यबंधतायेकरुं ॥ ८ ॥

कांताधरसुधास्वादा द्यूनां यजायते सुखं ॥ विष्णुः पार्श्वे तदध्यात्म
शास्त्रस्वादसुखोदधेः ॥ ९ ॥ अध्यात्मशास्त्रसंभूत संतोपसुख
शालिनः ॥ गणयंति न राजानं न श्रीदं नापि वासवम् ॥ १० ॥

अर्थ ॥ स्त्रीनाअधररूपअमृतना स्वादथीजे जुवानपुरुषने सुखउपजेठे तेसुखनो
स्वादतो अध्यात्मशास्त्रनास्वादनो जेसमुड्ठे तेनोएकविंशुमात्र स्वादठे ॥ ९ ॥ जेप्रा
णीनेअध्यात्मशास्त्रथी मनोहर संतोपरूपसुख प्रगटथयुं तेप्राणी राजाने तथाधनदने
अनेइंइसरिखानेपण लेखामांगणतानथी ॥ १० ॥

यः किलाशिक्षिताध्यात्मशास्त्रः पांडित्यमिच्छति ॥ उद्धिपत्यंगुली
पंगुः सस्वर्द्रुफललिप्सया ॥ ११ ॥ दंनपर्वतदंजोलिः सौहार्दा
बुधिवंशमाः ॥ अध्यात्मशास्त्रमुत्तल मोहजालवनानलः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जेमकल्पवृहना फलनेलेवानी इहाये पांगलोपुरुष आंगलीउंचीकरेठे ते
जेमव्यर्थठे तेमजेप्राणीनिश्चेंअध्यात्मशास्त्र नेपाम्यानथी अने आचार्यपंडितपणुं इ
हेठे तेपणव्यर्थठे ॥ ११ ॥ कपटरूप पर्वतनेजेदवाने वज्रसमान मैत्रतानावरूपसमु
झनी वृद्धिकरवाने चंडमासमान एहबुं अध्यात्मशास्त्रते वृद्धिपामेलुंएहबुंजे मोहजा
लबुंवन तेहने बालवानेअर्थे दावानलसमानठे ॥ १२ ॥

अध्वा धर्मस्य सुरथः स्यात्पापचौरः पलायते ॥ अध्यात्मशा
स्त्रसौराज्ये न स्यात्कश्चिदुपप्लवः १३ ॥ येपामध्यात्मशास्त्रार्थतत्वं
परिणतं हृदि ॥ कपायविषयावेश क्लेशस्तेषां कर्हिचित् ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ अध्यात्मशास्त्रज्ञो जलोरारजप्रवर्ततेथके कशोएवपड्व थायनही धर्मनो
मार्गसुगमथाय अने पापरूपचोरटानासीजाए ॥ १३ ॥ जेप्राणीना हृदयनेविषे अध्यात्म
शास्त्रनाअर्थनुं तत्वत दत्थयुठे तेनेकपायरूपविषयावेगनो क्लेशतेकदीएनथाय ॥ १४ ॥

निर्दयः कामचंडालः पंथितानपि पीडयेत् ॥ यद्विनाध्यात्मशा
स्त्रार्थबोधयोधकृपा नवेत् ॥ १५ ॥ विषयं द्विसमां तृष्णां वर्धमा
नां मनोवने ॥ अध्यात्मशास्त्रदात्रेण विंदंतिपरमर्षयः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जोअध्यात्मशास्त्रना अर्थनाबोधनी कृपापंडितजेवाने पणनहोयतो निर्द
यएवोजे कामरूपचंडाल तेपंथितनेपणपीडाकखाविना रहेनही ॥ १५ ॥ जेपरमकृपी
श्वरठेते अध्यात्मशास्त्ररूप दातरडेकरीने मनरूपीवननेविषे वृद्धिपामती एहवी
तृष्णारूप जेहेरनीवेली तेनेठेदीनाखेठे ॥ १६ ॥

वने वेश्म धनं दौस्थ्यैतेजो ध्वांते जलं मरौ ॥ इरापमाप्यते धन्यै
कलावध्यात्मवाञ्छयं ॥ १७ ॥ वेदान्यशास्त्रवित् क्लेशं रसमध्या
त्मशास्त्रवित् ॥ जाग्यभृन्नोगमाप्नोति वहते चंदनं खरः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेमवननेविषेधर दरिद्रनेधन अंधारामाउद्योत तथा मरुदेशनेविषेजे
पाणीतेड खेपामवायोग्यठे तेमजेयन्यप्राणीहोयठे तेनेजअध्यात्मशास्त्र कलियुगने
विषे प्राप्तथायठे ॥ १७ ॥ वेदनाजाणतथा बीजाशास्त्रना जाणनाराते क्लेशनाचोक्ताठे अ
नेरसनाचोक्ता तेअध्यात्मशास्त्रना जाणनाराठे तेएरसनोचोगतो जेजाग्यवतहोय
तेज पामे अनेजेगधेडोहोय तेतोमात्रचंदनना नारनेउपामेएटलुज ॥ १८ ॥

नुजास्फालनहस्तास्यविकाराग्निनयाः परे ॥ अध्यात्मशास्त्रवि
ज्ञास्तु ॥ वदं त्यविकृतेक्षणा ॥ १९ ॥ अध्यात्मशास्त्रहेमाजिमथिता
दागमादधेः ॥ न्यूयांसि गुणरत्नानि प्राप्यंते विबुधैर्नकिम् ॥ २० ॥

अर्थ ॥ नुजानाअस्फोटकरवेकरीने बलीहायने तथामुखनेविकारेकरीने इत्यादि
कनाटिकना अग्निनयेकरवेकरीने जोगीपुरुषसुखकरीमानेठे अनेअध्यात्मशास्त्रना

जाणजेपुरुषठे तेतोअधिकारीनेत्रनाथणी इंडियनाविकाररहितठे ॥ १९ ॥ अध्यात्म
शास्त्ररूपजे हेमाचलपर्वत तेणोमथ्योजे आगमरूपसमुद् तेथकीनिकट्या घणागुण
रूपीयां जेरत्ततेतो विबुधजेपंडितलोकतेपामेठे ॥ २० ॥

रसोन्नोगावधिः कामे सन्नद्वये नोोजनावधिः ॥ अध्यात्मशास्त्रसे
वाया रसोनिरवधिः पुनः ॥ ११ ॥ कुतर्कग्रंथसर्वस्वगर्वज्वरवि
कारिणी ॥ एति दृङ्गिर्मलीजाव मध्यात्मग्रंथजेपजात् ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ कामनोजेरस तेनोगवतांसुधी मधुरठे नजांनोजननोजेरस तेजमवानी
वखतसुधी मधुरपणोवतेठे पणअध्यात्मशास्त्रनीसेवानोजेरस तेतोनिरवधिठे केमके
प्रारंजकालथीमांदीने सदाइवधतोजरसठे पणकिवारे विरसनथाय ॥ ११ ॥ कुतर्क
शास्त्रना सर्वरहस्यनो जेअहंकारतेरूपीताव तेहनाविकारवाली अइएहवीजे दृष्टितेअ
ध्यात्मशास्त्ररूप औपधनायोगथी निर्मलपणाने पामेठे ॥ ११ ॥

धनिनां पुत्रदारादि यथा संसारवृद्धये ॥ तथा यांश्चित्यदृष्टानां
शास्त्रमध्यात्मवर्जितं ॥ १३ ॥ अध्येतव्यं तदध्यात्मशास्त्रं जाव्यं
पुनःपुनः ॥ अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयोयोग्यस्य कस्यचित् ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ धनवंतजनने जेमपुत्रअनेखी तेसंसारनीवृद्धीना कारणठे तेम अजि
मानेनरायला पंडितलोकने अध्यात्मशास्त्रविना मात्रसंसारनी वृद्धीठे ॥ १३ ॥ तेमाटे
अध्यात्मशास्त्रनेनणवुं वलीवारंवारहृदयनेविषेजाववुं एनाअर्थनुंवारंवार चिंतनकरवुं
अनेजेपुरुषयोग्यहोय तेनेजशीखववुं पुस्तकआपवुं ॥ १४ ॥ एरीतें अध्यात्मशा
स्त्रनामहात्म्यनो पहेलोअधिकार पुरोधयो.

जगवन् किं तदध्यात्मं यदि नमुपवर्ष्यते ॥ शृणु वत्स यथाशास्त्रं
वर्णयामि पुरस्तव ॥ १ ॥ गतमोहाधिकाराणा मात्मानमधि
कृत्य या ॥ प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मं जगुर्जिनाः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेशिष्येपुठ्युंके हेजगवंतअध्यात्म तेचुंठेकेजेनुंतमे आबुंवर्णन कीधुं
त्यारेगुरुकहेठेके हेशिष्य शास्त्रमरियादायें तनेकहुंतेसांजल ॥ १ ॥ जेमुनिराजनोमो
हनो अधिकारनाशपाम्योठे अनेजेआत्माने आश्रीनेशुद्धक्रियायें अंतरआत्मानेविषे
प्रवर्ते तेनुंनाम परमेश्वर अध्यात्मकहेठे ॥ १ ॥

सामाधिक्यं यथा सर्वं चारित्र्येष्वनुवृत्तम् ॥ अध्यात्मं सर्वं
योगेषु तथानुगतमिष्यते ॥३॥ अपुनर्वधकाद्याव ह्युणस्थानं
चतुर्दशं ॥ क्रमशुद्धिमती तावत् क्रियाध्यात्ममयी मता ॥४॥

अर्थ ॥ सामासिकचारित्र्यजेम सर्वचारित्र्यनेविषे अनुगतकारणपणे वनेते तेमस
र्वजोगनेविषे अध्यात्मपण सहचारीपणोवनेते ॥३॥ अपुनर्वधी जेचोथोगुणगणो त्यां
थीमानीने चउदमां गुणगणालगे अनुक्रमेजेआत्मांनी विद्युद्धता प्रगटथाय ते
सर्व अध्यात्मक्रियाजाणवी ॥ ४ ॥

आहारोपधिपूजर्हि गौरवप्रतिबंधतः ॥ नवान्निनंदी यां कुर्यात्
क्रियां साध्यात्मवैरिणी ॥५॥ ह्युजोलोचरतिर्दीनो मत्सरी नयवा
न् शठ ॥ अज्ञो नवान्निनंदीस्या त्रिष्फलारंजसंगतः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ अनेजेआहारोपधीनेअर्थं तथा पूजापामवानीरुद्धि तेनीगौरवतायें वं
धाणाथका नवान्निनंदीजे क्रियाकरेतेसर्व अध्यात्मक्रियानीवैरीणीजाणवी ॥ ५ ॥
१ रुद्धता २ लोच ३ रति ४ दीनता ५ मत्सरीपणुं ६ नय ७ शठता ८ अज्ञानता
एनवान्निनंदिपणाना संगथकीजेक्रियाकरे तेक्रियानोअरंज नि फलयायते ॥ ६ ॥

शांतोदांतः सदागुप्तो मोहार्थी विश्ववत्सलः ॥ निर्दंभां यां क्रियां
कुर्यात् साध्यात्मगुणवृद्धये ॥७॥ अतएव जनः पृच्छोत्पन्नसंज्ञः
पिपृच्छिपुः ॥ साधुपार्थ्वे जिगमिपु धर्मं पृच्छन् क्रियास्थितः ॥८॥

अर्थ ॥ १ शांतगुण २ दातगुण ३ सदागुप्तींजियपणुं ४ मोहार्थिपणुं ५ वि
श्वनुंवात्सल्यतापणुं इत्यादिकनिरदनीपणोजेक्रियाकरे तेक्रिया अध्यात्मगुणानी वृद्धि
कर्त्ताथाय ॥७॥ तेमटेजेनेतत्वपुठवानीसंज्ञा उपनीते तथापिपृच्छिपुके० तत्वप्रतेहवे
पुठवाने सन्मुखथयोठे साधुनेपासे तत्वसानलवानेअर्थं जवानुंशीलठेएम क्रियायोग
नेविषे रह्योथको धर्मनातत्वने पुठेते ॥ ८ ॥

प्रतिपित्सुः सृजन् पूर्वं प्रतिपन्नश्च दर्शनं ॥ श्राद्धोयतिश्च त्रि
विधोऽनंतांशकूपकस्तथा ॥९॥ दृडमोहकूपकोमोहशमकः
शांतमोहकः ॥ कूपकः क्षीणमोहश्च जिनोऽयोगीच केवली ॥२०॥

अर्थ ॥ एमतत्वनेअंगीकार करतोथकोजेने पूर्वेप्रतिपन्नथयोठे सम्यक्तदर्शन एवा

श्रावकतथा यतितेत्रणप्रकारना १ उपशमसमकेति २ कृयोपशमसमकेति ३ क्वाय
कसमकेति तेअनंतानुबंधीनो अंशखपाव्युंठेजेणे ॥ ९ ॥ वलीजेणेदर्शनमोहनीय
खपावीठे अथवा मोहनीयने उपशमावीठे एहवाजे उपशांतमोही तथा कृपक
श्रेणीने विषेवर्त्तेठे तथा जेणेमोहनोक्त्य कखोठेते संयोगीकेवली तथाअयोगी के
वलीनगवंतजाएवा ॥ १० ॥

यथाक्रमममी प्रोक्ता असंख्यगुणनिर्जराः ॥ यतितव्यमतौध्या
त्मवृद्धये कलयापि हि ॥ ११ ॥ ज्ञानं शुद्धं क्रिया शुद्धेत्यंशौघावि
ह संगतौ ॥ चक्रे महारथस्येव पद्माविव पतत्रिणः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ एअनुक्रमेजेकह्या तेसघला एकएकथकी असंख्यातगुणीनिर्जराना कर
ताठे एक कलायेकरीनेपण अथ्यात्मनीवृद्धिने अर्थ उद्यमकरवो एहिजहेतुठे ॥ ११ ॥
जेम रथनाबेचक्रते रथनीसाथे संलग्नजठे तथा पद्मीनीबेपांखोते पद्मीनीसाथे संलग्नज
ठे तेमएक शुद्धज्ञान अनेबीजीशुद्धक्रिया एबेअंशते अथ्यात्मनीसाथे संलग्नजठे १२

तत्पंचमगुणस्थाना दारज्यैवैतदिहति ॥ निश्चयोव्यवहार
स्तु पूर्वमप्युपचारतः ॥ १३ ॥ चतुर्थेपि गुणस्थाने शुश्रूषा
द्या क्रियोचिता ॥ अप्राप्तस्वर्णचूषाणां रजतान्नरणं यथा ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ पूर्वतो निश्चयनय अने व्यवहारनयनो आरोपणमात्र उपचार
थीठे पण पांचमांगुणठाणाथी मांमीनेएनयइठेठे ॥ १३ ॥ अने चोथेगुणठाणेपण
शुश्रूषादिक क्रियाते उचितठे जेमकोइनेसोनाना घरेणानमजताहोय तेनेरूपाना
मजेतेपण रूढांमनाय ॥ १४ ॥

अपुनर्बन्धकस्यापि या क्रिया शमसंयुता ॥ चित्रा दर्शननेदेन ध
र्मविघ्नहृयाय सा ॥ १५ ॥ अशुद्धापि हि शुद्धायाः क्रियाहेतुःस
दाशयात् ॥ ताम्रं रसानुबन्धेन स्वर्णत्वमधिगच्छति ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ शमजावेकरीनेसहित विचित्रप्रकारना दर्शननेदेकरीने अपुनर्बन्धीजेचो
थोगुणठाणुंतेहनी जे क्रियातेजोपण धर्मनाविघ्नने करनारीठे ॥ १५ ॥ तोपण न
जाआशयथकी अशुद्धक्रियाकरे तेपण शुद्धकेवाय जेम त्रांबुंजेठे तेनेगालीतेमां रसा
नुबन्धकखाथी रसायनमेलववाथी सोनुंथइजायठे ॥ १६ ॥

अतोमार्गप्रवेशाय व्रतं मिथ्यादृशामपि॥ इव्यसम्यक्त्वमारो
प्य ददते धीरबुद्धयः॥१७॥ योबुद्ध्या नवनैर्गुण्यं धीरः स्याद्ब्रत
पालने ॥ सयोग्योऽजावनेदस्तु दुर्लभ्योनोपयुज्यते ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ एहिजकारणमाटे धीरबुद्धिनाधणी रत्नत्रयनामार्गनेविषे पेसवाने मिथ्या
दृष्टीवालानेपण इव्यसमकितनो आरोपकरीने चारित्र्यापेठे॥१७॥जेप्राणी संसारतुं
निर्गुणपणुं जाणीने व्रतपालवानेविषे धीरथाय तेप्राणी धर्मनेजोगजाणवो अनेअंत
रगजावना जेदतोडुःखेकरीने समजायठे माटेतेउपयोगमानकरवो ॥ १८ ॥

नोचेजावापरिज्ञाना त्सिद्धसिद्धी पराहते॥ दीक्षाऽदानेन नव्या
नां मार्गोऽदः प्रसज्यते ॥१९॥ अशुद्धानादरेन्यासा द्योगान्नो
दर्शनाद्यपि॥ सिद्धिनैसर्गिकी मुक्ता तदप्यन्यासिकं यतः ॥२०॥

अर्थ ॥ कदापिकोऽक एमकहेसेजे जावजाण्याविना चारित्रदेवाथी सिद्धिअसिद्धि
सर्वहृणाऽजाय तेवारे नव्यनेपणदीक्षानयापवी केमके तेनेअंतरगनी खबरनथी अने
एरीते दीक्षानयापवाथी तो सम्यक्मार्गनो उठेदथाय ॥ १९ ॥ एमअशुद्धनोअना
दरकरे अने शुद्धजोगनोअन्यासनकरे ल्यारेदर्शनजेसमकित तेपणशुद्धनथाय केमके
एकनिसर्ग समकितटालीनेशुद्धकरतु तेपणअन्यासथीज थऽशके ॥ २० ॥

शुद्धमार्गानुरागेणा शठानां यया तु शुद्धता॥गुणवत्परतंत्राणां
सा न कापि विहन्यते ॥ २१ ॥ विषयात्मानुबंधैर्हि त्रिधा शु
द्धं यथोत्तरं॥ब्रुवतेकर्म तत्राद्य मुक्त्यर्थं पतनाद्यपि ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ शुद्धमार्गने अनुरागेकरीने अशठताजावेजे आत्मानी शुद्धताके० निर्म
लताये गुणवंतप्राणीने आधीनयऽने वरतेतो तेप्रवृत्ति कोऽठेकाणे हृणायनही॥२१॥
विषयैकरीने आत्मायेकरीने अनेअनुबंधेकरीने एत्रणप्रकारनी विशुद्धिठे ते एकेकथी
निर्मलठे एत्रणैकर्मठे तेमां जेडखथी पोताना आत्माने मुकाववाने जंपापातप्रमुख
करे तेहनेविषयशुद्धिकहिये ॥ २२ ॥

अज्ञानिनां द्वितीयं तु लोकदृष्ट्या यमादिकं॥तृतीयं शातवृत्या त
त्त्वसंवेदनानुगं ॥२३॥ आद्या नाज्ञानबाहुल्या न्मोक्षबाधक
वाधनं ॥ सजावाशयलेशेनो चितं जन्म परे जगु ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ अज्ञानीने आत्मशुद्धिनामे बीजीशुद्धिश्चाय तेजोऽकृष्टिये पांचयम त्रण नियमप्रमुखपालेते एबीजोनेद त्रीजोआत्मानुबंध तेकहिये जेशांतवृत्तीयेतत्वनु संवेदनकरेचिंतनकरे ॥ २३ ॥ पेहेलीशुद्धिमां अज्ञाननीबहुलता घणीते तेणेकरीने मोहना साधननेबाधकरे अनेतेनासद्भावथकी शुजाशयनोलेशमात्रहोय तोतेथी ज न्ममरणनी परंपराकांश्चुटेनही एहवोजोगान्यासीपुरुषकहेते ॥ २४ ॥

द्वितीया दोषहानिः स्या त्कचिन्मंद्कचूर्णवत्॥आत्यंतिकी तृती या तु गुरुलाघवचिंतया॥२५॥ अपि स्वरूपतः शुद्धा क्रिया त स्मादिशुद्धिकृत्॥ मौनींश्चव्यवहारेण मार्गबीजं दृढादरात्॥२६॥

अर्थ ॥ आत्मशुद्धिनामे बीजाजोगथकी कांश्कलवलेशमात्र दोषनीहानितो थाय पणपरंपराये घणादोषथयेजाते डेफकानाचूर्णनीपेते एकडेडकानो नाशथायप ण तेथीबीजाघणा डेडकाउत्पन्नथाय त्रीजीशुद्धि आत्यंतिकते तेथीकर्मनीहानिथा य केमकेतेगुरुताजाव अनेलघुताजावनी विचारणाकरवाथीप्रगटे एवीते॥२५॥स्वरू पथकीजेक्रियाशुद्धते तेजनिश्चयपणे आत्मानेविशुद्धतानी करनारीते तेमाटेशुद्धक्रि याकरवी मुनींश्चजेपरमेश्वर तेणेबताव्योजे व्यवहारतेनुं सेवनकरवेकरीने घणाआदर सहित क्रियाकरेतो मार्गजेरत्नत्रयी तेनुंबीजप्रगटथायते ॥ २६ ॥

गुर्वाङ्गापारतंत्र्येण इव्यदीक्षाग्रहादपि॥वीर्योद्ध्वासक्रमात्प्राप्ता बहवः परमं पदं॥२७॥ अध्यात्मान्यासकालेपि क्रिया काप्ये वमस्ति हि॥शुचौघसंज्ञानुगतं ज्ञानमप्यस्ति किंचन ॥ २८ ॥

अर्थ ॥ गुरुनीआज्ञाने आधीनरेहेवाथी इव्यदीक्षालीधीहोय तोपण वीर्योद्ध्वासनी अनुक्रमेवृद्धिकरीने घणाजीव परमपदने पाम्याते ॥२७॥ एरीतेंअध्यात्मनाअन्यास कालनेविषेपण क्रियाकांश्क लेशमात्रनिश्चेंवर्तेजते अनेशुनकारी उघसंज्ञाने सहचा रीपणे तिहांज्ञानपणकांश्कवर्तेते ॥ २८ ॥

अतोज्ञानक्रियारूप मध्यात्मं व्यवतिष्ठते ॥

एतत्प्रवर्द्धमानंस्यान्निर्देनाचारशालिनां ॥ २९ ॥

अर्थ ॥ एजकारणमाटे ज्ञाननेक्रियारूप ते अध्यात्मपणुं वरतेते जे ज्ञानक्रिया रूपतेअध्यात्मते एजज्ञानक्रियानिर्देनाचारेंकरीने मनोहरएहवोजे प्राणीतेनेविषे उ चरोत्तरवृद्धिनेपामेते ॥ २९ ॥ एबीजो अध्यात्मनास्वरूपनो अधिकार संपूर्णथयो॥

दञ्जोमुक्तिलतावन्दिर्दञ्जोराहुःक्रियाविधौ ॥ दौर्जाग्यका
रणं दञ्जो दञ्जोध्यात्मसुखार्गला ॥ १ ॥ दञ्जोज्ञानाङ्घ्रिद
ञ्जोलिर्दञ्जः कामानले हविः ॥ व्यसनानां सुहृदञ्जो
दञ्जश्चोरोव्रतश्रियः ॥ २ ॥ दञ्जेन व्रतमास्थाय योवांगति
परं पदं ॥ लोहनावं समारुह्य सोऽब्धेः पारं यियासति ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ मुक्तिरूपवेलीने दहनकरवामां कपटतेअग्निसमानठे नेक्रियारूप चङ्नेया
सकरवाने कपटतेराहुते अनेकपटजङ्गुर्जाग्यनुंकारणठे अथ्यात्मसुखनेगलीजनार जुंग
लीपणकपटजठे ॥ १ ॥ ज्ञानरूपपर्वतने तोमवानेकपटते वज्रसमानठे कामरूपी
अग्नीनीवृद्धिकरवाने घृतजोऽयेतेपणकपटठे व्यसननोमित्र तेकपटठे अने व्रतरूप
लक्ष्मीनो चोरपण दञ्जजठे ॥ २ ॥ कपटराखीव्रतनेविपेरही जेप्राणी परमपदजेमोहू ते
नीवठनाकरेठे तेप्राणीलोढानीनावमा बेसीसमुद्धतरवानी उगाराखेठेतेवोजाणवो ॥ ३

किं व्रतेन तपोर्निर्वा दञ्जश्चेन्न निराकृत ॥ किमादर्शनं किं दीपै
र्यद्यांध्यं न दृशोर्गतं ॥ ४ ॥ केशलोचधराशय्या जिह्वा ब्रह्मव्र
तादिकं ॥ दञ्जेन दुष्यते सर्वं त्रासेनैव महामणिः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ तेतपेपणञ्जु तेव्रतपेपणञ्जु जोकपटदिशाने तजीनही तोतेसर्वनिष्फलठे
ते थारसीएपणञ्जु अनेदीवेपणञ्जु जोदृष्टीएअथठेतोतेहनेसर्वतेकाणोअंधकारजरेहसे
॥ ४ ॥ केशलोचकरवो जुमीउपरसयनकरवुं जिह्वामागवी शीलव्रतादिकपालवा ए
सर्व धर्मकरणीमात्र कपटेकरीने डुखाइजायठे जेमसुदरमणीहोय नेतेउपरएकदाग
लागवाथी तेनीकातिमदथायठे तेहनीपरेंजाणवुं ॥ ५ ॥

सुत्यजं रसलांपटय सुत्यजं देहचूपणं ॥ सुत्यजाः काम
नोगाद्या डुरस्यजं दञ्जसेवनं ॥ ६ ॥ स्वढोपनिन्हवोलोक पूजा
स्याजौरवं तथा ॥ इयतैव कदर्थ्यते दञ्जेन वत बालिश ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ रसनुंजोलपीपणुं तेसुखेंतजीशकाय देहनीशोनापणसुखें तजीशकाय का
मनोगादीनेपण सुखेंतजाय पणकपटनो त्यागकरवोघणुज विकटठे ॥ ६ ॥ पोता
नादोपने ढांकीराखेतेथी लोकमापूजनाथाय तथामोटाइथाय एहिजपूजाप्रसुखनी
लाजचमाटे पोतानाआत्माने सूखंप्राणीरुद्धर्षना उपजावेठे ॥ ७ ॥

असतीनां यथा शीलमशीलस्यैव वृद्धये ॥ दंष्ट्रेनाव्रतवृद्धयर्थं
व्रतं वेपन्नतां तथा ॥ ८ ॥ जानाना अपि दंष्ट्रस्य स्फुरितं वा
लिशा जनाः ॥ तत्रैव धृतविश्वासाः प्रस्खलन्ति पदेपदे ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ जेमकुलटानारीनुंशील जेआचारते कुशीलनी वृद्धिनेअर्थेज होय ते
मकपटेंवेपधरनार व्रतवंताने चवनीवृद्धिथाय तेअव्रतनी वृद्धिनेअर्थेजथाय ॥ ८ ॥
कपटना विपाकनेजाणताथकापण मूर्ख आज्ञानीप्राणीतेज कपटनेविपे विश्वास
करताथका पगलेपगले खलनापामेठे ॥ ९ ॥

अहो मोहस्य साहात्म्यं दीक्षां जागवतीमपि ॥ दंष्ट्रेण यद्विलुपंति
कज्जलेनेव रूपकं ॥ १० ॥ अब्जे हिमं तनौ रोगो वने वन्हिर्दिने नि
शा ॥ ग्रंथे मौर्ख्यं कलिः सौख्ये धर्मे दंष्ट्र उपप्लवः ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ अहोइतिखेदेजुठ मोहराजानोमहिमा जेनगवंतसंबंधीदीक्षातेपणजेम
काजलेकरीने चित्रामणुं लोपथायठे तेहनीपरे कपटेकरीने लोपीनाखेठे जेमकम
लनेविपे हिम शरीरनेविपेरोग वननेविपेअग्नि दिवसनेविपेरात्री ग्रंथनेविपे मूर्ख
ता सुखनेविपे कलेश तेउपड्वनाकरताठे तेमधर्मनेविपेकपट तेडुःखकर्ताठे ॥ ११ ॥

अतएव न योधर्तुं मूलोत्तरगुणानलं ॥ युक्ता सुश्राद्धता तस्य
नतु दंष्ट्रेण जीवनं ॥ १२ ॥ परिहर्तुं न योऽलिग मप्यलं दृढरा
गवान् ॥ संविज्ञपादिकः सस्या त्रिर्दंष्ट्रः साधुसेवकः ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ एहिजहेतुमाटे मूलगुणपंचमहाव्रत अनेउत्तरगुण करणसित्तरीप्रमुख
धरवाने जेप्राणी समर्थनहोय तेणेआवकनाव्रतपालवा तेयुक्तजठे पणकपटचारित्रें
जीववुं तेरुहुंनथी ॥ १२ ॥ हवेजेप्राणी व्रतनेमूकवाने समर्थनथी केमके जेनेव्रतउपर
दृढरागलाग्यो होय तेमूकीशकेनही तोतेनेसंविज्ञपद् अंगीकारकरवो श्रेष्ठे केमके
निरदंष्ट्रीसाधुनी सेवनाकरवाथी घणोगुणथायठे ॥ १३ ॥

निर्दंष्ट्रस्यावसन्नस्या प्यस्यशुद्धार्थजापिणः ॥ निर्जरां यतना दत्ते
स्वल्पापि गुणरागिणः ॥ १४ ॥ व्रतचारासहस्रं ये विदंतोप्यात्मनः
स्फुटं ॥ दंष्ट्राद्यतित्वमाख्यांति तेषां नामापि पाप्मने ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ निष्कपटीहोय शुद्धसिद्धांतना अर्थेनाजापकहोय तेगुणेकरीने तेउ

सन्नाप्रमुखसाधुजो थोडीपणजतना करेळे तोपण तेगुणनारागीपणाथी वर्तताथका तेनेनिर्झाराथायठे ॥ १४ ॥ व्रतनोचारनथी उपमतो पोताथीएबुजाएष्याठता पणजेपोतानाआत्माने प्रगटरीते कपटेकरीने यतीपणुवरावेठे संयमीपणुं स्थापेठे तेलिंगीनुंना मजेतापण पापथाय तोतेनीसेवनातो पापकारीथायज तेमाछुकेहेबु ॥ १५ ॥

कुर्वते ये न यतनां सम्यगालोचितामपि॥तेरहो यतिनाम्नैव
दांनिकैर्वच्यते जगत् ॥ १६ ॥ धर्मातिख्यातिलाजेन प्रवृ
दितनिजाश्रव॥तृणायमन्यते विश्वं हीनोपि धृतकैतव ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ जेलिंगीनजीरीतें इव्यक्त्रकालनावजोइने यत्ननथीकरता तेलिंगीयतिएवेनामेकरीनेकपटीथऽ लोकनेवगताफरेठे ॥ १६ ॥ जेहीनाचारीथको कपटनोधरनारो लिंगीहोय अनेतेयतिधर्मांठे एवीप्रसिद्धिइहोय तेनालोजेकरीने तेणेपोताना आश्रवनेढाक्याहोय एह्वाजे यतिते समग्रजगतते तृणतुव्यजाणेठे ॥ १७ ॥

आत्मोत्कर्षां ततोदंजा त्परेपां चापवादतः ॥ वध्नाति कठिनं
कर्म बाधकं योगजन्मनः ॥ १८ ॥ आत्मार्थिना ततस्त्याज्योदं
जोऽनर्थनिबंधनां॥शुद्धिः स्यादजुचूतस्येत्यागमे प्रतिपादितं॥ १९ ॥

अर्थ ॥ पोतानाआत्माना वडाऽकरे घणुंकपटधरे अनेपारकाअवरणवादबोले तेणे करीने कठिणकर्मबांधेठे तेवापुरुपोतेयोगीनाजन्मने बाधककरनाराठे तेष्टु इचारित्रने पामीशकेनही ॥ १८ ॥ माटेअनर्थनुंकारणजेकपट तेनेधर्मार्थिप्राणीये तजबु केमके आत्माना शुद्धीतो सरलतानावेथायठे एवुंआगमनेविपेकसुठे ॥ १९ ॥

जैनैर्नानुमतं किंचि त्रिपिद्धं वा न सर्वथा ॥ कार्ये चाव्यमदंजेने
त्येपाज्ञा पारमेश्वरी ॥ २० ॥ अध्यात्मरतचित्तानां दंभः स्वल्पो
पि नोचितः ॥ त्रिऽलेशोपि पोतस्य सिधुं लंघयतामिव ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ तीर्थकरेएकांतने आज्ञापणनथीकरी तेमसर्वथा निपेधपणनथीकीयो तो पणजेकार्यकरबुं तेकपटरहितकरबु एहिजपरमेश्वरनी आज्ञाठे ॥ २० ॥ जेम वाहाणमा त्रिऽनो लेशहोयतेपण समुद् तरवामायोग्यनही तेम अध्यात्मनेविपे जेतुंमनरगायुठे तेनेजरापण कपटकरबु तेयोग्यनथी ॥ २१ ॥

दंजलेशोपि मह्ययादेः स्त्रीत्वानर्थनिबंधनं ॥

अतस्तत्परिहाराय यतितव्यं महात्मना ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ जेम मल्लीनाथजीने कपटनोलेशपण स्त्रीवेदनोकारणीकथयो माटे महा नपुरुषे कपटतजवाने घणोयत्न करवो ॥ ११ ॥ इति श्रीअध्यात्मसार ग्रंथनेविषे दंजत्यागनामा त्रीजोअधिकार समाप्तथयो ॥

तदेवं निर्दंजाचरणपटुता चेतसि नवस्वरूपं संचिंत्य क्लृप्त
मपि समाधाय सुधिया ॥ इयं चिंताऽध्यात्मप्रसरसरसी
तीरलहरी सतां वैराग्यादिप्रियपवनपीना सुखकृते ॥ १ ॥

अर्थ ॥ एटलामाटे निरदंजआचरणकरवाने हेचेतन तुं सावधानथा आत्मस्वरूपतुं चिंतनकर केमके क्लृप्तमात्रपण सद्बुद्धिकृदयमांधरीने आत्मस्वरूपनीचिंता करवी तेहिज आत्मदिशारूप सरोवरनीलहरीठे तेशीतलताकरेएवीठे एहिजसज्जन लोकने वैराग्यदिशारूप पवनपूर्णपुष्टताकारीठे माटेते आत्मिकसुखनेअर्थेसाधवी ?

इतः कामौर्वाग्निर्ज्वलति परितोऽसह इतः पतंति ग्रावा
णो विषयगिरिकूटाघटिताः ॥ इतः क्रोधावर्तो विकृतितटिनी
संगमकृतः समुद्धे संसारे तदिह न ज्ञयं कस्य नवति ॥ १ ॥

अर्थ ॥ एकतरफकामरूप वडवानलनो अग्निवलीरह्योठे तेडुःखेसहनथाय ए वोठे अने एकतरफ पंचप्रकारनाविषयरूप पर्वत तेहथीपरुघाजे उन्मादरूपपथरा तेणोकरीनयंकर एकतरफ विकारदिशारूपनदीना संगमथकी क्रोधनाआवर्तपडघाठे एवोजेआसंसारसमुद्धतेनेविषे कहो कयाठेकाणे प्राणीनेनयनथी सर्वत्रनयजवर्ते.

प्रिया ज्वाला यत्रोद्यमति रतिसंतापतरला कटाहान् धूमौ
घान् कुवलयदलश्यामलरुचीन् ॥ अयांगान्यंगारा कृतबहुविका
राश्च विषया दहंत्यस्मिन्बन्धौ नववपुषि शर्म क सुलनं ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ जेसंसारनेविषे रतिनासंतापेकरीने तरलाके० चपलएवीजे प्रियाके० नार्थाते कटुकज्वालावर्तेठे वली नीलकमलदलना सरखी जेनीकांतिठे एहवानेत्र नात्रिकोणमांथीजेजोडुं तेनुंनामकटाह तेरूपधूमना समूहवालेठे तथास्त्रीनाअंगते

अंगारासमाने जेअंगवदेवणाप्रकारना विकारप्रगटथायते तेमाटेसंसाररूप अग्नीमां बलीरह्याजे प्राणीतेने नवमापणसुखनथी तेमजशरीरमा पणकश्जसुखनथी ॥३॥

गले दत्ता पाशं तनयवनितास्नेहवटितं निपीड्यते यत्र प्र
कृतिरूपणा प्राणिपशवः ॥ नितांतं उ स्वार्त्ता विपमविपयै
र्घातिकजटैर्जवः सूनास्थानं तदद्दह महासाध्वसकरं ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेनागलानेविपेपुत्रतथा स्त्रीरूपस्नेहनोफांसो नखायोठे तेनास्नेहपाशमां पड्यातुठस्वनावनाधणी तेअतिशयपणे पीडापामेठे आकराविपयरूपजे घातकी सु
नट तेणेकरीनेसंसारते खाटकीनुंस्थानकठे माटेहाहासंसारतेकेवलडु खनुंमूलजे॥

अविद्यायां रात्रौ चरति बहूतो मूर्ध्नि विपमं कपायव्यालौघं
क्षिपति विपयास्थीनि च गलेमहादोषान् दंतान् प्रकटयति
वक्रस्मरमुखो न विश्वासाहोयं भवति भवनक्तं चर इति ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ अज्ञानद्विशारूप रात्रिनोचालनार जेनामाथाउपर विपमकपायरूप सर्प
नोसमूहरह्योठे जेनागलानेविपे विपयरूपहाडकावांध्याठे जेमहोटादोषरूप दांतप्रग
टकरेठे जेनुंसुख कामनीचेष्टाकरेठे एवोसंसाररूपीराहुस तेविश्वासकरवानेयोग्यनथी.

जना लब्ध्या धर्मजविणलवज्जिह्वां कथमपि प्रयांतोवामा
क्षीस्तनविपमज्जुर्गस्थितिकृताः ॥ विलुप्यते यस्यां कुसुमशर
जिह्वेन बलिना नवाटव्यां नास्यामुचितमसहायस्य गमनं ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणीधर्मरूपधनना लववेशनेपाम्योठे तेणेजिह्वामागवाने एकला
विचरवुंनही केमके नवाटवीनेविपे बलवचरनीज एवोजेकाम तेस्त्रीनास्तनरूप वि
पयीकोटमारहीने तेप्राणीमात्रना धर्मरूपधनने लुटीलीयेठे माटे सहायविना तेप्रा
णीयेएकजुं विचरवुं (चालवु) योग्यनथी ॥ ६ ॥

धन मे गेह मे मम सुतकलत्रादिकमतो विपर्यासादासादि
तविततडु खा अपि मुहुः ॥ जना यस्मिन् मिथ्यासुखमद
भृतः कूटघटनामयोय संसार स्तदिह न विवेकी प्रसजति ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ धन घर पुत्रने स्त्रीआदी सर्ववस्तुमारीठे एवाविपर्यासपणाथी विज्ञेष्टप्र

सिद्धः खज्जे माटे जे प्राणीवारंवार सुखनेमदेनखाथका सुखमानेते ते फोकटते ए संसारतो केवल कपटरचनायें नखोते तेने विषे विवेकी प्राणीयें प्रीती करवीनही ॥ ७ ॥

प्रियास्नेहोयस्मिन्निगमसदृशो यामिकजटोपमः स्वीयो
वर्गोधनमन्निनवं बंधनमिव ॥ महामेध्यापूर्णं व्यसनबिल
संसर्गविषमं चवः कारागेहं तदिह न रतिः कापि विडुपां ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ स्त्रिनोस्नेहते वेडीसमानते बीजासगासंबंधीलोकते पोरियातसमानते धनसंपत्तीते नवाबंधनसरखीते अनेमहा अमेध्येंकरीसहितते सातप्रकारना व्यसनरूप बिलेंसहितते दुंकामांकहियेंतो आसंसारते बंदिरखानाजेवोते माटे पंडितलोकने एवस्तु माहेली एकेवस्तुउपर रतिके ० मरजीथतीनथी ॥ ७ ॥

महाक्रोधो गृध्रोऽनुपरतिशृगाली च चपला ॥ स्मरोलूको यत्र
प्रकटकटुशब्दः प्रचरति ॥ प्रदीप्तः शोकाग्निस्ततमपयशोन्न
स्मपरितः श्मशानं संसारस्तदतिरमणीयत्वमिह किं ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जे पंडितलोकते आसंसारने श्मशानसरखोकहेते केमके श्मशानमांरेहेना रीचीजो सर्वसंसारमांते तेकहीबतावेते जेमश्मशानमां गिधपद्हीते तेमसंसारमां महाक्रोधते गीधपद्हीते अतिरूपयणीचपल शियालणीते घुवडपद्हीरूप कामतेतेप्रगटपणे कडवाशब्दथी रुदनकरेते देदीप्यमान शोकरूपी अग्निप्रज्वलेते निरंतर अपयशरूप-राखते माटे संसारते श्मशानते एमांरमणीक चीजकोइनथी ॥ ८ ॥

धनाशा यन्नायाप्यति विषममूर्धा प्रणयिनी विलासो नारीणां
गुरुविकृतये यत्सुमरसः ॥ फलास्वादो यस्य प्रसरनरकव्या
धिनिवहस्तदास्थानो युक्ता चव विपतरावत्र सुधिया ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ धननीजेइहा ते अतिशयविषयरूप विषममूर्धानी विस्तारनारीते स्त्रीयो नो विलासते महाविकारकारी कुसमनोरसते जेनाफलनोस्वाद विस्तारपांमतोनर्कनीपिमा ना समूहतुल्यथाय एवुंसंसाररूप विषयवृद्धते एनीहेतल विश्रामकरवोयुक्तनथी ०

क्वचित् प्राज्यं राज्यं कचन धनलेशोप्यसुलभः क्वचि ज्ञातिरुफा
तिः क्वचिदपि च नीचत्वकुयशः ॥ क्वचिन्नावण्यश्रीरतिशयवती
क्वापि न वपुः स्वरूपं वैषम्यं रतिकरमिदं कस्य नुचवे ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ कोइनेतोविस्तारवाजुंराज्यते कोइनेधननोलेशपण दोहेलोते कोइनीउ
 त्तमजातीते कोइनीनीचजातीते कोइनेअपयशते कोइनेलावण्णलीजानी लक्ष्मीघणीते
 कोइनुंशरीरपण रुहुंनथी एवंसंसारनुंसरूपविषमते तेकोनेरतिकारीथाय ? ॥ ११ ॥

इहादामः कामः खनति परिपंथी गुणमही मविश्राम पार्श्व
 स्थितकुपरिणामस्य कलह ॥ विलात्यंतः कामन्मदफणनृ
 तां पामरमतं वदामः किनाम प्रकटचवधाम स्थितिसुखं ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ इहांउदामकामदिशाते तेजपरिपंथीके ० शत्रुतेतेगुणरूपजे महीके ० पृथ्वीते
 नेखणेते अनेपात्तेरह्योजे कुपरिणामते विश्रामलीयाविना निरतर क्लेशकरेते एक्केश
 वने खरडाया एवाजेप्राणी तेअष्टमदरूपसर्प तेणेकरीपुक्कते एवंपामरलोकने मानवा
 योग्य आसंसाररूपजेधर तेनुंसुखकहियें ॥ १२ ॥

तृपार्ताः खिद्यंते विषयविवशा यत्र ज्विनः करालक्रोधाका
 षमसरसि शोपं गतवति ॥ स्मरस्वेदक्लेदग्लपितगुण
 मेदस्यनुदिनं ज्वग्रीष्मे जीष्मे किमिह शरणं तापहरण ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ संसारनेविषे प्राणीमात्र पुज्जलनी तृष्णारूपतरसेकरीने पीडाणाते अने
 विषयनीआशायेंकरी परवशययाते एहवाप्राणीयो बिहामणाक्रोधेंकरीपीडायते केम
 केतेमनेमाटे शमतारूपसरोवरतो सुकाङ्गयुते अनेकामदिशारूपजे परस्वेद तेनीजे
 ग्लानता तेणेकरीनिरतर गुणमेदाखरडायते ज्या एहवोबिहामणो आसंसाररूपउष
 काल तेनातापनेहरे एवोकोइनथी ॥ १३ ॥

पिता माता भ्राता प्यञ्जिलपितसिद्धावज्जिमतो गुणग्रामज्ञाता
 न खलु धनदाता च धनवान् ॥ जना स्वार्थस्फातावनिशमवदा
 नाशयन्तः प्रमाता क ख्याताविह ज्वसुखस्याशु रसिक ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ आसंसारनेविषे पितामातानेभ्राताके ० नाइआदी तेसर्वचितितअर्थनी अ
 निलायापुरे त्यांजगीअजिमतके ० समतकरीमाने तथागुणनासमूहनोजाण एहवो
 धनवतप्राणीहोयतेपण रुपणपणेकरीने गुणीजनने धनदेइशकेनही एम सर्वप्राणी
 पोताना स्वार्थसाधनकरवाने सावधानपणेवर्तेते पणपरमार्थथी वेगलावसेते एवाच
 वसुखना रसियाजेजीवतेहना स्वरूपनेकेहेवाने कोणसमर्थथइशके ॥ १४ ॥

पणेः पाणिंगृह्णात्यहह महति स्वार्थ इह यान् त्यजत्युच्चैर्लोक-
स्तृणवदघृणस्तानपरथा॥ विपं स्वांते वक्त्रेऽमृतमिति च विश्वा
सहतिकृद्वादित्युधेगोयदि न गदितैः किं तदधिकैः ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ एमस्वार्थने वशश्चनेप्राणी चंडालनो हाथपकमी चालेठे अहोऽतिथ्या
श्र्यं जेस्वार्थपणुंतेएहवुंठे वलीजेउत्तमकुलथी उपजेलातेहनेतजेठे अने तरणा
जेवोनिरलज्जश्चने हैयामांतो जेरनर्युहोय पणमोडे अमृतजेवुंमीतुंबोलेठे एवाअनेक
प्रपंच स्वार्थमाटेप्राणीकरेठे नेविश्वासघातीथायठे एवाप्राणीआसंसारमांवसेठे ते
जोऽनेपण आसंसारथी जेनुंमनउधेगपामतुंनथी तेनेयणुंशुकहियें ॥ १५ ॥

दृशां प्रांतैः कांतैः कलयति मुदं कोपकलितैरमीभिः खिन्नः
स्यादघनधननिधीनामपि गुणी ॥ उपायैस्तुत्याद्यैरपनय
ति रोषं कथमपीत्यहो मोहस्येयं नवनवनवैषम्यघटना॥ १६ ॥

अर्थ ॥ स्त्रीनीदृष्टीना प्रांतके० खुणातेमनोहरठे माटेतेनाजोवाथी हर्षउपजेठे
अने स्त्रीनीकोपयुक्तदृष्टीखराबठे माटेतेदेखीनेखेदउपजेठे तथाघणाधनवालापुरुष
ने गुणीजनोस्तुतीआदीकरीरीजवेठे ने कष्टसहीनेतेमनोरोषउतारेठे एसघलुंमोहथ
कीथायठे माटे जुओमोहरूपीराजानुं केवुंविपमतापणुंठे केजेतजवायोग्यठे तेनो
आदरकरावेठे अने जेनोआदरकरवोजोऽये तेनोत्यागकरावेठे ॥ १६ ॥

प्रिया प्रेक्षा पुत्रोविनय इह पुत्री गुणरति विवेकारव्यस्तातः
परिणतिरनिंद्या च जननी ॥ विशुद्धस्य स्वस्य स्फुरतिहि कु
टुंबं स्फुटमिदं नवे तन्नोदृष्टं तदपि बत संयोगसुखधीः॥ १७ ॥

अर्थ ॥ जीवनेतत्वविचारणाकरवीतेस्त्रीठे विनयकरवुंतेपुत्रठे गुणनेविपेजेरतिक
रवीतेपुत्रीठे स्या द्वादपणोस्वपरविवेचनकरवुंतेपिताठे अनिंद्याजेपारकीनिंदातजवीते
आत्मानी माताठे एवुंजेअंतरंगकुटुंबठे तेतोजेवारें आत्माशुं द्वाय तेवारेंप्रगटरीतेंपे
दाथाय पणतेनेजेपुरुषसंयोगीसुखमां मग्नश्चरह्योठे तेतोक्पारेपणदेखतो नथी ॥ १७ ॥

पुरा प्रेमरंजे तदनु तदविभेदघटने तडुंठेदे दुःखान्यथ क
ठिनचेता विषहते ॥ विपाकादापाकाहितकलशवत्तापबहु
लात् जनोयस्मिन्नस्मिन्कचिदपि सुखं हंत न नवे ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ प्रथमप्रेमकरताडुःखठे तेपठीतेनेनिश्चलपणेराखवाने पणघण्टुःखठे व
लीतेप्रेमपात्रनो विडेदथायतो मरणथाय अथवाप्रेमत्रुटे ल्यारेसउथीवधारे डुःखउप
जेनेते सहनकरवाने ठातीघणीरुठणराखवीपडे निमामानापाकनेविपे आरोपितकखो
एवोजेघट तेनासरखीतापनी बहुलताठेज्यां तोएवोजे आससाररूप नीमाडोतिहांसु
खतो काइजनथी समग्रडुःखमयजठे ॥ १८ ॥

मृगाह्नी दृग्वाणै रिहहि निहतंधर्मकटकं विलिप्ताहदेशा
इह च बहुलैरागरुधिरैः ॥ चमंत्यूर्ध्वं क्रूरा व्यसनशतगृ-
ध्राश्च तदियं महामोहक्षोणीरमणरणचूमि खलु चवः॥१९॥

अर्थ ॥ आसंसारनेविपे धर्मराजाना कटकनेतोमृगनयनीना दृष्टीरूपीवाणेहणी
नाख्युंते रागदिसारूपरुधीरवने लोपाइगयाठे रुदयप्रदेशजेनाते उपर अनेकप्रकारना
मन तनसंबंधीरुठरूपीगीवपह्नीयो जमीरह्याठे एवोमहामोहरूप क्षोणीरमणजे
राजा तेनीरणचूमिसमान आससारठे ॥ १९ ॥

हसंति क्रीडंति क्लृणमथच खिद्यति बहुधा रुदति क्रंदति क्लृ-
णमपि विवाटविदधते ॥ पलायंते मोदं दधति परिन्त्यंति
विवशा भवे मोहोन्माद कमपि तनुजाज परिगताः ॥२०॥

अर्थ ॥ क्लृणमाहते क्लृणमांकीडाकरे (रमे) क्लृणमांखेदकरे क्लृणमांवहुप्रकारें
रडे क्लृणमांविलापकरे क्लृणमांअनेकप्रकारनो विवादकरे क्लृणमांनासीजाए क्लृणमां
हर्षितथइ नाचवामांडे इत्यादीउन्मादसंसारनेविपे देहधारीप्राणीयोकरेठे तेसर्व
मोहराजानेआधीनथकाकरेठे ॥ २० ॥

अपूर्णा विद्येव प्रकटखलमेत्रीव कुनयः प्रणालीवा स्था
ने विधववनितायौवनमिव ॥ अनिष्णाते पत्यो मृगदृशाइव
स्नेहलहरी भवक्रीडात्रीडा दहति हृदय तालिकदृशां॥२१॥

अर्थ ॥ असंपूर्णविद्याजेमपंडितने तेमज खलमाणसनीमित्राइ वलीराजसनामां
अन्यायनी प्रणालिका एटलेअन्यायनोमार्ग तथा विधवास्त्रीलुंर्यावन वलीमूर्खनरतार
नेआगलस्त्रीनास्नेहनीजहरी तेजेमखेदुनोपात्रथायठे तेमजसंसारनीक्रीडा जेलज्जा
मणीठे तेथी तत्वदर्शांप्राणीडु खपामेठे ॥ २१ ॥

प्रजाते संजाते जवति वितया स्वापकलना द्विचंज्ज्ञानं वा
तिमिरविरहे निर्मलदृशां ॥ तथा मिथ्यारूपं स्फुरति विदि
ते तत्वविषये जवोयं साधूनामुपरतविकल्पः स्थिरधियां ॥२१॥

अर्थ ॥ जेम प्रजातसमयस्वप्नरचना निष्फलथज्ञायते जेमकोऽनात्राखमां
जाकलत्रावीहोय तेहनेआकाशमां वेचंज्माजासे पणनिर्मलदृष्टीयतां वेचंज्माजुं
त्रांतिज्ञानमटीजायते तेमसंसारथीन्यारारह्या एहवाजेस्थीरबुद्धिवाला तत्वज्ञानसम
जेजासाधु तेनेआसंसारते मिथ्यारूपजासेते ॥ २१ ॥

प्रियावाणीवीणाशयनतनुसंवाधनसुखैर्जवोयं पीयूषैर्ध
टितइति पूर्वं मतिरञ्जत ॥ अकस्मादस्माकं परिकलितत
लोपनिपदामिदानीमेतस्मिन्न रतिरपितु स्वात्मनि रतिः ॥२३॥

अर्थ ॥ स्त्रीनीवाणीयेंकरीने तथा विणानादेकरीने शय्यायेंकरीने वलीशरीरनेचोजुं
चापवुंतेएकरीने जे सुखउपजेते ते अमृतेकरीनेघुटेजुंहोयतेवुंते एवुंपूर्वेबालकाले
वर्त्तयिंहतुं पण ह्वेसहसात्कारेंअमने तत्वदिशानारहस्यनी परिकलनाथइ जाणपणुं
थयुं तेथीसंसारनेविषेतल्वरुचिवर्त्ततिनथी पणआत्मतत्वमांरुचिथइते ॥ २३ ॥

दधानाः काठिन्यं निरवधिकमाविद्यकजवप्रपंचाः पांचाली
कुचकलशवन्नातिरतिदाः ॥ गलत्यज्ञानाभ्रे प्रसृमररुचावा
त्मनि विधौ चिदानंदस्यंदः सहजइति तेन्योस्तु विरतिः ॥२४॥

अर्थ ॥ संसारनासमस्तप्रपंच तेअतिशयकठिणताने धरताथकाठे माटे मुजने
काष्ठअनेपाषाणनी पुतलीनास्तननीपेरे रतिकारीनथीजागता केमके अज्ञानवुंवाड
लगलीगयुंते अनेआत्मिकज्ञानरूप चंज्दयथयो तेथीसहजचिदानंदरसनी शीतलता
प्रगटीतेएकरी विषयतापनीअरतिमटीगइ ॥ २४ ॥

जवे या राज्यश्रीर्गजतुरगगोसंग्रहकृता न सा ज्ञानध्यानप्र
शमजनिता किं स्वमनसि ॥ बहिर्याः प्रेयस्यः किमु मनसि ता ना
त्परतय स्ततः स्वाधीनं कस्त्यजति सुखमिच्छत्यथ परं ॥२५॥

अर्थ ॥ संसारनेविषे हाथी घोडा बलद प्रसुखजेराजलक्ष्मीते तेगुंअंतरंगया
त्मानेनथी ? अर्थात् ते ज्ञानहाथी ध्यानघोडा समतातेबलद एलक्ष्मीआत्मानीते

अनेतुजो मनबडेवाह्यसार्थं प्रेमकरेठे तोपोतानाआत्मासार्थं रतीकेमकरतोन्धी
आत्मिकसुखतजीने पुजलिकसुखने कोणइठे एवोमूर्खकोणहोय॥१५॥

पराधीनं शर्मं ह्यपि विपयकांक्षौघमलिनं नवे नीतिः स्थानं त
दपिकुमतिस्तत्र रमते ॥ बुधास्तु स्वाधीने ह्यपिण करणौत्सुक्यं
रहिते निलीनास्तिष्ठंति प्रगलितजयाध्यात्मिकसुखे ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ पौजलिकसुखकेबुठे एकतोपराधीनठे स्वजावेह्यथवालायकठे विपयनी
वठनावडेमलीनठे एमसंसारनेविपेनयनास्थानघणाठे तेठताकुमतिनाधणी संसारमां
रमेठे अनेपंडितलोकजेठे तेस्वाधीनसुखमांरमेठे तेसुखकेबुठे केजेकोइकालेंह्यपामे
नही इडियोनीउत्सुकतायेरहितठे जेप्राणीआत्मज्ञानमा लयपाम्याथकाठेतेप्राणी स
कलनयदिशा रहितथका परमानंदनेविपे मग्नपणेरहेठे ॥ १६ ॥

तदेतन्नापते जगदन्नयदानं खलु नवस्वरूपानुध्यानं शमसु
खनिधानं कृतधियः ॥ स्थिरीनूते ह्यस्मिन्विधुकिरणकर्पूरवि
मला यशःश्री प्रौढा स्याज्जिनसमयतत्त्वस्थितिविदा ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ आजगतप्रत्येपंडितलोक एमकहेठे जेपोतानाआत्मजावना स्वरूपनुंवि
तनतेजशमताना सुखनुंकारणठे अनेजगतनेअन्नयदाननुं देवावालोठे जेपोकारकता
जावेबुद्धिकरीठे तेनेआत्मस्वरूपज्ञान स्थिरथयेथके चड्किरणकर्पूरसरीखी उज्वल
यशालक्ष्मीतेप्रौढपणे विस्तारपामे एवातत्वज्ञानी तेजिनेश्वरप्रणित सिद्धांतनातत्वनी
मर्यादायेवर्ते ॥ १७ ॥ इतिनवस्वरूपचिंताधिकार चतुर्थ समाप्त ॥

इतिश्रीनयविजयगणेशिष्य श्रीयशोविजयेनविरचिते अध्यात्मसा
रप्रकरणे प्रथम प्रबंध ॥१॥ सर्वेश्लोक १०१ तेमा पेहलाना
१४ बीजाना १९ त्रीजाना २२ तथा चोथाअधिकारना २७

नवस्वरूपविज्ञाना द्वैपान्नैर्गुण्यदृष्टिजात् ॥ तद्विद्योत्तेदरू
पं जाग्वैराग्यमुपजायते ॥१॥ सिद्ध्या विपयसौरख्यस्य वैराग्यं
वर्णयंति ये ॥ मतं न युज्यते तेषां यावदर्थोप्रसिद्धित ॥ १ ॥

अर्थ ॥ नवनुंस्वरूपजाण्याथकी संसारउपरद्वेषयथाथकी संसारनेनिर्गुणपणेदेख
वाथकी शिघ्रपणे संसारना विवेदनोवैराग्य आत्मानेविषे प्रगटथाय ॥ १ ॥ विष
यसुखनीसिद्धि निष्पत्तिप्राप्तितेवडे जेवैराग्यनुंवरणनकरेठे तेनुंमंतघटमाननथी जि
हांसुधी अर्थके० इव्यठेतिहांसुधीविषयठे एवीप्रसिद्धिठे अर्थसत्वेविषयसत्वंइति.

अप्राप्तत्वत्रमाहुञ्चै रवाप्तेष्वप्यनंतशः॥ कामजोगेषु मूढानां
समीहा नोपशाम्यति ॥३॥ विषयैः क्लीयते कामो नैधनैरिव
पावकः ॥ प्रत्युत प्रोद्धसत्कृतिर्नय एवोपवर्द्धते ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेएमजाणेठे जेहुंकोइकाले संसारनेविषेआव्योजनथी जोअनंतिवारवि
षयसेव्याठे तेठतांआविषयनवापाम्यो एवोत्रमजेनेउपजेठे एवाजेकामजोगने विषे
मुंजाइरहाठे तेनीअनिलापानोनाशयतोजनथी ॥ ३ ॥ जेमइंधनेअग्निघटेनही
पणउलटीवृद्धिजपामे तेमविषयसेवतां कामजोगपण कदापिक्रयपामेनही उलटी
शक्तिउद्धासपामतीजाये वारंवारवधतीजजाए ॥ ४ ॥

सौम्यत्व मिव सिंहानां पन्नगानामिव क्लृप्ता॥ विषयेषु प्रवृत्ता
नां वैराग्यं खलु दुर्वचं ॥५॥ अकृत्वा विषयत्यागं योवैराग्यं
दिधीर्षति ॥ अपथ्यमपरित्यज्य स रोगोत्तेदमिच्छति ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेमसिंहनेसोमपणुंनथी सर्पनेजेमशमतानथी तेमविषयमां जेप्रवर्त्या
तेमने वैराग्यदोहिलोठे पणसुगमनथी ॥ ५ ॥ जेविषयनोत्यागकस्याविना चित्तमां
वैराग्यनी धारणाकरेठे तेकुपथ्यतज्याविना रोगटालवानी इठाकरेएवुंठे ॥ ६ ॥

न चित्ते विषयासक्ते वैराग्यं स्यातुमप्यलं॥ अयोधन इवोत्तप्ते
निपतन्विंदुरंजसः ॥७॥ यदींद्रुः स्यात् कुहूरात्रौ फलं यद्यव
केशिनी ॥ तदा विषयसंसर्गिचित्ते वैराग्यसंक्रमः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जेम लोढानो घण तयोहोय तेपाणीनाविंडुने शोपीजायठे तेमजेनुंघि
तविषयासक्तठे तेनारुदयमां वैराग्यरहीशकतुं नथी ॥ ७ ॥ जो अमासनीरात्रीये चं
इउगे अने जोवांजीआवृद्धने फलआवे तोविषयीजीवना रुदयमां वैराग्यसंक्रमे॥८॥

नवहेतुषु तद्वेषा द्विषये ष्वप्रवृत्तितः॥ वैराग्यं स्यान्निराबाधं
नवनैर्गुण्यदर्शनात् ॥९॥ चतुर्थेपि गुणस्थाने नन्वेवं तत्
प्रसज्यते ॥ युक्तं खलु प्रमातृणां नवनैर्गुण्यदर्शनं ॥ १० ॥

अर्थ ॥ नवनी वृद्धिनाहेतु उपरजेने देयहोय विषयने विषे जेनी प्रवृत्तिनहोय ते प्राणीने संसारनी निर्गुणताना चितनयकी निरावाधपणे वैराग्य उपजे ॥ ९ ॥ चोथा गुणगणाने विषेपण समकेतवत ज्ञाता पुरुषनिश्चयपणे संसारनी निर्गुणताज छुएते तो तेने वैराग्यनी प्राप्तिथायठे ते युक्तजठे ॥ १० ॥

सत्यचारित्रमोहस्य महिमा कोप्ययं खलु ॥ यदन्यहेतुयोगे
पि फलायोगोत्र दृश्यते ॥ १ ॥ दशाविशेषे तत्रापि न चेद ना
स्ति सर्वथा ॥ स्वव्यापारहतासंग तथा च स्तवनापितं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ चारित्र मोहनीनो महिमा साचोजठे केमके निश्चयकी अन्यजोगहेतुयेंपण फलनुं अयोग्यपणुं तेथकी जोवामा आवेठे ॥ ११ ॥ समकेतनी दिशाविशेषेकरीने तेचोथे गुणगणोपण सर्वथा वैराग्यनजहोय एमनजाणनुं तिहांपणपोताना आत्मिक स्वभावनी रमणतायें कुसंगपणुहणायठे अर्थ वीतरागस्तोत्रने विषे श्रीहेमाचार्य जीयें करेलोठेमाटे चोथे गुणगणो वैराग्यपणुहोय ॥ १२ ॥

यदा मरुन्नरेंद्रश्री स्वया नाथोपचुज्यते ॥ यत्र तत्र रतिर्नाम
विरक्तं तदापि ते ॥ ३ ॥ नवेत्ता यस्य विचित्रा प्रवृत्तिः कर्म
जावजा ॥ रतिस्तस्य विरक्तस्य सर्वत्र शुभवेद्यत ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेकालें देवतानाराजानी जेव्ही हेनाथतमेजोगवी तिहांपणजिहाजिहां रतिमोहिनी उपजेते तमेकरीनथी त्यांपणतमे विरक्तपणुजकथुंठे पणरगायानथी ॥ ३ ॥ माटे नवनी इहाजेहने विव्हेदथायठे तेने जे अवश्यवेदवायोग्य जावकर्मनी प्रवृत्तीप्रमुख जे विरक्तआत्मानेरतिपणुठे ते सर्वत्र शुभवेदनी जवचेंठे ॥ ४ ॥

अतश्चाक्षेपकज्ञानात् कांतायाजोगसनिधौ ॥ न शुद्धिप्रकृत्यो
यस्माद्धारिज्जमिदं वचः ॥ १५ ॥ मायाजस्तत्ततः पश्यन्ननु
द्विस्ततोद्भूता ॥ तन्मध्ये न प्रयात्येव यथा व्याघातवर्जितः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ एहिजकारणमाटे स्वरूपज्ञाननाअन्यातेंकरी अथवा अन्यवस्तुयेंकरी अन्य वस्तुनुं पुरनुं तेक्षेपककेवाय तेक्षेपकपणुजेनेनथी तेनुं नाम अक्षेपककहिये एहवो अक्षेपकज्ञानवत निश्चे जावनुं ग्रहणकरनारो ते पुरुषजोकाता जेव्हीतेनाजोगनेसन्मुख प्रवर्ततोहोय तोपणतेहनी शुद्धिनोप्रकर्षरीतें ह्यनयाय एटले ज्ञानशुद्धिते कर्मह्यनुं कारणठे एबुं हरिजसूरीनुं वचनठे ॥ १५ ॥ परमार्थदिशाथकी सर्वसंसारने इंद्रजा

जसमान देखतोथकोअनुद्वेगदिशामांवेत्ते जेहनेकामजोगमां उद्वेगनथी नेरागपण
नथी ते तेणेकरतेमां तन्मयपणुंनकरे तेनिरविघ्नपणे यथायोग्येमोहेंजजायठे ॥ १६ ॥

जोगान् स्वरूपतः पश्यंस्तथा मायादिकोपमान् ॥ जुंजानोपि
ह्यसंगः सन् प्रयात्येव परं पदं ॥ १७ ॥ जोगतत्वस्य तु पुनर्न ज
वोदधिलंघनं ॥ मायोदकट्टावेशेन यातीह कः पथा ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणी शब्दादिकजोगने परमार्थदिशार्थें जोतोथको इंद्रजालसमानजाणोते
विषयादिकने जोगवतोपण तेमांजोपातो नथी तेनिश्चयपरमपदजे मोहूतेनेपामेठे
॥ १७ ॥ अनेजेजवाजिनंदीप्राणी तेसंसारना जोगनेजतत्वकरीमानेठे तेप्राणीसंसारसष्ट
इने उलंघीनशके केमके मायारूपउदकनाआवेशें तेप्राणीकुपंथनेविषेजायठे ॥ १८ ॥

स तत्रैव जवोद्विग्ने यथा तिष्ठत्यसंशयं ॥ मोहमार्गेषु हि तथा
जोगजंवालमोहितः ॥ १९ ॥ धर्मशक्तिं न हंत्यत्र जोगयो
गवलीयसीं ॥ हंति दीपापहोवायुर्ज्वलंतं न दवानलं ॥ २० ॥

अर्थ ॥ तेप्राणीजोगनो जंवालके० कलिमलतेणेमोहितथयोथको मोहमार्गना
साधननेविषेपण जवोद्विग्रतापणेनिश्चयथकीरहेठे ॥ १९ ॥ धर्मनीसामर्थताने का
मजोगनोसंयोग हणीशकतो नथी केमके धर्मनीसामर्थता घणीबलवत्तरठे दीपकस
मानअल्प धर्मानेतोकदापि वायुसमानविषयओलवीनाखे पणजाजुलमान दावान
जसमानजे महाधर्मनीवासना तेनेवायुनडीशकतो नथी ॥ २० ॥

बध्यते बाढमासक्तौ यथा श्लेष्मणि मद्धिका ॥ शुष्कगोलवद
श्लिष्टो विषयेऽन्योन बध्यते ॥ २१ ॥ बहुदोषनिरोधार्थं मनिवृत्तिर
पि क्वचित् ॥ निवृत्तिरिव नो दुष्टा योगानुभवशालिनां ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ जेम श्लेष्मनेविषे माखीजेपाइ फसाइजायठे तेम विषयनेविषे गाढपणे
आसक्तथतां प्राणीबंधाइजायठे सुकीमृत्तिकानागोलामांजेम माखीफसाती नथी तेम
आसक्तीरहितउदासीन एवाजेजीव तेविषयनेविषे बंधातानथी ॥ २१ ॥ जेम रोग
नेकाढवाने औषधीनीजरूठे तेमघणादूषणनो रोधकरवानेअर्थें क्वचित्अनिवृत्तिप
णोपण दुष्टनथी जेमकामजोगनी त्यागबुद्धिदुष्टनथी तेमअनुभवजोगेकरीने सहित
जेवर्ते तेनेक्वचितमात्र अनिवृत्तिठे तेपण निवृत्तिनीपरेंज दुष्टनथी ॥ २२ ॥

यस्मिन्निपेच्यमाणेपि यस्याशुद्धिः कदाचिना॥ तेनैव तस्य शुद्धिः
स्यात् कदाचिदिति हि श्रुतिः ॥ १३ ॥ विषयाणां ततोबंध जनने
नियमोस्ति ना॥ अज्ञानिनां ततोबंधो ज्ञानिनां तु न कर्हिचित् ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जेमशत्रुनी सेवनाकरनारोपुरुष इ खीयोथइने कालांतरेसुखीथाय तेम
कदापि विषयनेसेवनारो कर्मकरीने तेहिजविषयादिकथीशुद्धथाय एवीपण कोइकनी
श्रुतीठे ॥ १३ ॥ जेविषयतेएकांतेकर्मबंधतुंजकारणते एवोएकातनियमनथी पण जेअ
ज्ञानीठे तेनेजकर्मबंधतु कारणते पणजेतत्वज्ञानी समतारसमां मग्नते तेनेनथी ॥ १४ ॥

सेवते सेवमानोपि सेवमानो न सवते॥कोपि पारजनो न स्या
द्यत्नं परजनानपि ॥ १५ ॥ अतएव महापुण्यं विपाकोपहि
तश्रिया ॥ गर्जा दारण्य वैराग्यं नोत्तमाना विहन्यते ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ केटलाकप्राणी विषयनेइव्यथी अणसेवताथका पणजावथी विषयनेसेवते
केटलाकप्राणी इव्यथीसेवते पणजावथीनथीसेवता पारकीसेवनाकरतोथको पण
तेहनो परमार्थपरप्रतेनदेतोथको एह्वोजेज्ञानीते कर्ममयीजनथीथतो ॥ १५ ॥
एमाटेउत्तमपुरुषे महापुण्यविपाकनायोगे प्राप्तकरी एह्वीजे तीर्थकरादिकनीलक्ष्मी
तेनेगर्जथकीमांझीनेपण वैराग्यधारात्रुटतीनथी ॥ १६ ॥

विषयेभ्य प्रज्ञांताना मश्रांतं विमुखैः कृते॥करणैश्चारुवैरा
ग्य मेपराजप थ किल ॥ १७ ॥ स्वयं निवर्तमानैस्ते रनुदीर्णै
र्यत्रितैः॥ तृप्तै ज्ञानवतां तस्मात्स्या दमावेकपदी मता॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेहनेविषयथकी प्रज्ञातचित्तथयोठे अनेविश्रामरहित इंडियोनाविषयने
विमुखकरवो तेणोकरीने मनोहरवैराग्यमार्गसेववानुंवने अनेविषयनोपणव्यागथायते
तोनिश्चयथकी वैराग्यदिशानो राजमार्गते ॥ १७ ॥ अनेजेइहाविना सहेजेकोइकार
णयोगे पोतेइंडियविकारथकीनिवर्तते पण प्रज्ञातनेअणउदीरवेकरीने अनिधंत्रणा
येकरी एटलेइंडियनोनिरोध हजीकखोनथी पणसहेजचारित्रप्रमुखना योगेइंडियनि
रोधथयोठे एह्वात्तुसिवत ज्ञानीपुरुषपतेनुंवैराग्यते पूर्वांकराजमार्गनावैराग्यनी एक
पदीठे एटलेएकदडीठे जेमगाडाचालवानामार्गने तोमहोदोमार्गकहिये पणमाण
सोनेपगेचालवानुंरस्तो न्हानोथायठे तेबुतेवैराग्यपण न्हानोकहिये ॥ १८ ॥

बलेन प्रेर्यमाणानि करणा नि वनेनवत्॥न जातु वशतां यां
ति प्रव्युतानर्थवृद्धये ॥ ३९ ॥ पश्यन्ति लङ्कया नीचै दुर्ध्यानं
च प्रयुंजते॥ आत्मानं धार्मिकात्तासाः क्षिपन्ति नरकावटे॥ ३० ॥

अर्थ ॥ बलात्कारेप्रेत्याथकापण वननाहाथीनीपेतेइंडियो कदापिवशयतीनथी
उलटीअनर्थनी वृद्धिकरनारीथायठे ॥ ३९ ॥ लाजेकरीनीचुंजुएठे अनेमनमांडुष्ट्या
नधरेठे एवाधर्मधुताराप्राणीते पोतानाआत्माने नरकनाकूपमां नाखेठे ॥ ३० ॥

वंचनं करणानां त धिरक्तः कर्तुमर्हति॥स ज्ञावविनियोगेन स
दास्वान्यविजागवित् ॥ ३१ ॥ प्रवृत्तेर्वानिवृत्तेर्वा न संकल्पो
न च श्रमः॥विकारोहियते द्वाणा मिति वैराग्यमद्भुतं ॥ ३१ ॥

अर्थ ॥ चुननावनेअर्पणकरीने सदास्वपरविवेचन ज्ञानयुक्त नावनावालाज्ञाता वि
रक्तप्राणी इंडियोनेतगवानेसमर्थथायठे पणबीजानथीथाता ॥ ३१ ॥ प्रवृत्तिनेविषे
अथवा निवृत्तिनेविषे जेनेसंकल्पनथी अनेथाकपणनथी एवासमजावेवर्तनारना सर्व
विकारदूरथायठे अनेएतुंजनामअद्भुतवैराग्यपणठे ॥ ३१ ॥

दारुयंत्रस्थपांचाली नृत्यतुल्याः प्रवृत्तयः॥योगिनो नैव बाधा
यै ज्ञानिनो लोकवर्तिनः॥ ३३ ॥ इयं च योगमायेति प्रकटं गीयते
परैः ॥ लोकानुग्रहहेतुत्वान्ना स्यामपि च दूषणं ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ जेमकाष्टनीपुतलीने डोरीनासंचारेकरी नाचनारीनामाफकनाचती जोइ
येठइयें पणतेनेकर्मबंधननथी तेमलौकिकव्यवहारनेविषे वर्तताज्ञानी जेयोगीश्वरपुरु
षतेहनेसंसारनी प्रवृत्तिपीडाकरतीनथी ॥ ३३ ॥ एवैराग्यदिशाने परदर्शनीजोगमाया
नेनामेप्रगटपणे बोलावेठे एणलोकनेउपकारकरताठे एनेविषेदूषणनथी ॥ ३४ ॥

सिद्धांते श्रूयते चेय मपवादपदेष्वपि ॥ मृगपर्षत्परित्रास नि
रासफलसंगता ॥ ३५ ॥ औदसीन्यफले ज्ञाने परिपाकमु
पेयुषि ॥ चतुर्थेपि गुणस्थाने तद्वैराग्यं व्यवस्थितं ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ सिद्धांतमांपणसांजलीयेठइयेंके अपवादनेविषे मृगलासरखीपरखदाने प
ण निरासकरवी एजवृषनतुल्यगीतार्थनी शुद्धज्ञानदिशाजाणवी. ॥ ३५ ॥ परिपक्व
अइयकी एवीजेज्ञानदिशाअने जेतुंफलउदासीनताठे तेथकीचोयेगुणस्थानके पणवै
राग्यदिशा प्राप्तथायठे इतिवैराग्यसंनवाधिकारपंचम समाप्तः ॥ ३६ ॥

तेवैराग्यं रमृतं दुःख मोहज्ञानान्वया त्रिधा ॥ तत्राद्य विषयाप्रा
प्तौ संसारोद्देगलक्षण ॥ १ ॥ अत्रांगमनसोः खेदो ज्ञानमाप्याय
कं न यत् ॥ निजात्नीप्सितलाभे च विनिपातोपि जायते ॥ २ ॥

अर्थ ॥ तेवैराग्यत्रणप्रकारनोठे दु खगर्जित मोहगर्जित अने ज्ञानगर्जित तेमां
प्रथमकह्योतेविषयादिकने नपामवाथकी संसारथीउद्देगपामवालुं लक्षणठे माटेतेह
नेदु खगर्जितवैराग्यकहिये ॥ १ ॥ देहसंबंधी मनसंबंधी जेखेदतेथीउपज्युं जेज्ञा
नतेअव्यापकके० वृद्धिकारीनथाय आत्मानिपुष्टिकर्त्तानथाय केमके तेप्राणीपोता
ने अनिलापकरवायोग्य धनादिकवस्तुनेपामीने तापसादिपणुंठोमीने पाळुंग्रहस्थप
णुंअंगीकारकरे ॥ २ ॥

दु खान्निष्ठा प्रागेवे चंतिप्रत्यागतेः पदं ॥ अधीराइव संग्रा
मे प्रविशंतो वनादिकं ॥ ३ ॥ शुष्कतर्कादिकं किंचि दैद्यका
दिक मप्यहो ॥ पठंति ते शमनदीं नतु सिद्धांतपद्मति ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ दु खथकीजेवैराग्यपामेठे तेतोप्रथमथीज पाठाग्रहस्थावास्तनी इठाकरेठे
जे दु खटलेतो घरेजइये जेमअधीरपुरुष जेकापरते संग्रामनेविपे जतोथको वननी
गलीमांनराइ वेसवानीइठाकरेठे तेहनीपरे ॥ ३ ॥ प्राणीपोवाढविवाढ करवाने
शुष्कतर्क अंथनणेठे आजीविकानेअर्थे वैद्यकप्रमुखना अंथनणेठेपण शमतारसनी
नदी एवी सिद्धांतनी जेपद्मति तेजणतानथी ॥ ४ ॥

अंधपल्लववोधेन गर्वोष्माणं च विभ्रति ॥ तत्त्वांतं नैव गच्छति
प्रशमामृतनिर्जरं ॥ ५ ॥ वेपमात्रचतुोप्येते गृहस्थान्नाति
शेस्ते ॥ नपूर्वोवायिनोयस्मा न्नापि पश्चान्निपातिनः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेशमताअमृतना फरणनेपाम्यानथी तेअंथनापल्लवमात्रके० खंमखंम
मात्रं करीने गर्वनीगरमीनेधरीनेज वचंठेपणतत्वना रहस्यने पामताजनथी ॥ ५ ॥
जेसाधुनावेपमात्रं करीने पोतालुं जीवितव्यपणुराखेठे तेपणग्रहस्थतुल्यजठे पण
ग्रहस्थथी न्यारानथी जेणेआगलउवाह धखोनथी जेगुणपामिने पडवाइ पण
अयानथी केमकेजे गुणपामीने तजेतेतोपडवाइकेवाय पणएतोकोइवारं पडवाइ
पणथयानथी एहवाजे ठे तेतोगुणनेपाम्याजनथी ॥ ६ ॥

गृह्णन्मात्रदौर्लभ्यं लज्यन्ते मोदका व्रते ॥ वैराग्यस्यायम
 र्थोहि दुःखगर्भस्य लक्षणं ॥ ७ ॥ कुशास्त्रान्याससंज्ञत च
 नैर्गुण्यदर्शनात् ॥ मोहगर्भं तु वैराग्यं मतं बालतपस्विनां ॥ ८ ॥

अर्थ अहोघरमांतो पुरुअन्नपणनथीमजतुं नेदीह्वालीधाथकी तोलामवामलेठे
 तेमाटेदीह्वालेवामां शुंडःखठेएवुंजाणीने जेदीह्वालियेठेतेनुंनाम दुःखगर्भित वैराग्य
 जाणवुं ॥ ७ ॥ एरीतेंप्रथम दुःखगर्भितवैरागपणुंदेखामथुं हवेमोहगर्भित वैराग्य
 कहेठे कुशास्त्रनाअन्यासथी प्रगटथुंजेसंसारनुं निरगुणीपणुं तेथीमोहगर्भित वैराग्य
 थायठे तेबालतपस्वी प्रमुखजाणवा ॥ ८ ॥

सिद्धांत मुपजीव्यापि ये विरुद्धान्नापिणः ॥ तेषामप्येतदेवे
 ष्टं कुर्वता मपि दुष्करं ॥ ९ ॥ संसारमोचकादीना मिवैतेषां न
 तात्विका ॥ शुनोपि परिणामोय ज्ञातानज्ञान रुचिस्थितिः १०

अर्थ ॥ जेसिद्धांतनुंउपजीवन करीनेपण सूत्रविरोधि अर्थकेहेठे तेप्राणीजो दुष्कर
 करणीकरेठे तोपणतेनेएवोजजाणवो ॥ ९ ॥ संसारना दुःखथीमूकाववाना हेतुथीजे
 मुंसलमानते घोडाप्रमुखने दुःखीदेखी तेनेदुःखथी ठोमववाने दयानावेकरीमारीना
 खेठे तेपणशुनपरिणामनी बुद्धिराखेठे तेठतांपरमार्थेपापजठे तेममोहगर्भितने पर
 मार्थजमेनही जोएनो परिणामशुनहोय तोपणपरमार्थे ज्ञाननीरुचिथायनही ॥ १० ॥

अमीषां प्रशमोप्युच्चैर्दोषपोषाय केवलं ॥ अंतर्निर्लीनविषम
 ज्वरानुजवसन्निजः ॥ ११ ॥ कुशास्त्रार्थेषु दृढत्वं शास्त्रा
 र्थेषु विपर्ययः ॥ स्वच्छंदता कुतर्कश्च गुणवत्संस्तवोन्नतं ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जेअंतरंगमां लीनअश्रह्यो एहवोहामवेदीज्वर दुःखदाश्यायठे तेमएने
 पणजेप्रशमादिकगुण थायतेपण घणुकरीने केवलदूपणनणीजथाय पणगुणनणी न
 हीजथाय केमकेअंतरंग मिथ्यात्वगयाविना वैराग्यतेदुःखदाइठे ॥ ११ ॥ कुशास्त्र
 नाअर्थने विषे डाह्याथाय नेशास्त्रनाविपरीत अर्थकरे स्वच्छंदपणेवरते कोइसाथेह
 माराखेनही अनेगुणीनी प्रशंसानकरे ॥ १२ ॥

आत्मोर्षः परजोहः कलहो दंजजीवनं ॥ आश्रवात्तादनं श
 त्तयुद्धंघने न क्रियादरः ॥ १३ ॥ गुणानुरागवैधुर्य मुपकारस्य
 विस्मृतिः ॥ अनुबंधाद्यचिंता च प्रणिधानस्य विच्युतिः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जेपोतानीमोटाइकरे पारकोडोहकरे कलेगकजीआकरे कपटराखे पोता
नापापढाके पोतानोसामर्थ्य उजंधीने क्रियानोउद्यमकरे तेआर्चध्यानीकेवाय ॥ १३ ॥
वलीजेगुणीपुरुषोनो रागीनहोय बीजानाकरेलाउपकारने विसरीजाय तीव्रकर्मबंधनी
चितासहितवर्ते अनेछुजअध्यात्मना अध्यवसाय रहितपणेवर्ते ॥ १४ ॥

श्रद्धा मृडुत्वमौद्गल्य माधुर्य्यमविवेकिता ॥ वैराग्यस्य द्वितीयस्य
स्मृतेयं लक्षणावली ॥१५॥ ज्ञानगर्जं तु वैराग्य सम्यक् तत्र
परिच्छिद ॥स्याद्यादिनः शिवोपायस्पर्शिन स्तत्रदर्शिनः ॥१६॥

अर्थ ॥ श्रद्धा मृडुता उद्धतता मधुरता अविवेकतापणु एमोहगर्जित वैराग्यनी
परपराजाणवी ॥ १५ ॥ एरीतेमोहगर्जितवैराग्यनुं स्वरूपकक्षु ह्वेज्ञानगर्जितवैराग्यनुंस्व
रूपरुहेठे जेतस्यकरोतेतत्त्वनीओलखाणकरे स्या द्वादष्टट्टियेवर्ते मोहनुंचितनकरे मो
हनाउपायनेफरसे अनेतत्त्वदिशा देखवानुंअर्थीथाय तेज्ञानगर्जितवैराग्यजाणवुं ? ६ ॥

मीमांसा मांसला यस्य स्वपरागमगोचरा ॥ बुद्धिः स्यात्तस्य वैरा
ग्यं ज्ञानगर्जं मुदचति ॥१७॥ न स्वान्यशास्त्रव्यापारे प्राधान्य य
स्य कर्मणि ॥ नासौ निश्चयसंशुद्ध सारं प्राप्नोति कर्मणः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेहनोविचार पुष्टकारीहोय अनेस्वसिद्धांत तथापरसिद्धांतसंबंधी बुद्धि
होय तेने वैराग्यनीवातकहिये अनेएवानेज ज्ञानगर्जित वैराग्यप्रगटथाय ॥ १७ ॥
जेनेस्वशास्त्र परशास्त्रना व्यापारनुं प्राधान्यपणुनथी तेमज क्रियानेविपेपण प्राधान्य
तानथी तेनिश्चयकीक्रियानो निरमलसारचूतजेफल तेनेक्यारेपणपामेनही ॥ १८ ॥

सम्यक्त्वमौनयो सूत्रे गतप्रत्यागते यतः ॥ नियमोदर्शित स्तस्मा
त् सारं सम्यक्त्वमेव हि ॥ १९ ॥ अनाश्रवफलं ज्ञान मव्युत्थानम
नाश्रव ॥ सम्यक्त्वं तदन्निव्यक्ति रत्येकत्वविनिश्चयः ॥ २० ॥

अर्थ ॥ जेसमकिततेमौनचारित्रकहिये अनेचारित्रते मौनसमकितकहिये एवुंथी
आचारांगमध्ये गतप्रत्यागतेकरीने कक्षुठे जसम्मतिपासहा तमोणतिपासहाजम्मो
तेमाटे नियामकतापणुंजाणवु सिद्धांतचरणरहिया दसणरहियानसिद्धांतितिवच
नात् तेमाटेसमकितते सारचूतजाणवु ॥ १९ ॥ आश्रवनोत्याग तेज्ञाननुंफलठे
अनेअनाश्रवनुफल तेअव्युत्थान एटलेविपयमा उजमालनथाय विपयनोत्यागीहोय

एतन्नाम निश्चयसमकितकहिये कारकसमकेतीनी एवीदृष्टिहोय एटलामाटे निश्चय नयनीरतिके० प्रीतितेशु-इचारित्रवंतनेजहोय ॥ ३० ॥

बहिर्निवृत्तिमात्रं स्या च्चारित्र्या द्यावहारिकात् ॥ अंतःप्रवृत्ति सारं तु सम्यक् प्रज्ञानमेव हि ॥११॥ एकांते नहि षट्काय श्रद्धा नेपि न शुद्धता॥संपूर्णपर्ययालाजाद् यन्न याथात्म्यनिश्चयः ॥११॥

अर्थ ॥ बाह्यधीधन कण कंचन कामिनीप्रमुख बाह्यवस्तुनोज त्यागीथाय एव्यव हारचारित्रना पालवाथी तेप्राणीव्यवहार दृष्टियेंजचालेठे अनेजेने समकितसहित ज्ञाननी प्रवृत्तिहोय तेहनेजअंतरंग प्रवृत्तिनुं सारकहियें ॥ ३१ ॥ समस्तनयनी वासनारहितथका एकांतेबकायनारिहानी श्रद्धांकरताथकां समकितनीशुद्धता नके वाय-पणसंपूर्णनयनीअपेहायें इव्याधिकपर्यायाधिकनयना लाजविना यथार्थपणा नो लाजनहीजथाय माटेशुद्धनयनी अपेहायेंवर्तवुं ॥ ३२ ॥

यावंतः पर्यया वाचां यावंतश्चार्थपर्ययाः ॥ सांप्रता नागताती तास्तावद्भव्यं किलैककं ॥ १३ ॥ स्यात्सर्वमयमित्येव युक्तं स्व परपर्ययैः ॥ अनुवृत्तिकृतं सत्त्वं परत्वं व्यतिरेकजं ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जेमजगतमांवर्तमान अनागत तथाअतिकालना जेटलाशब्दपर्याय वचन नाठे तथापदार्थनाजेटला अर्थपर्यायठे तेसर्वपर्यायनिश्चैथी एकजइव्यठे ॥ ३३ ॥ जेसत्वके० पदार्थते सर्वस्वपरपर्यायमयीहोय तेआवीरीतेंजे अनुवृत्तिसहचारी गु णपणोसत्वके० स्वपणुजाणवुं अने परपणुते व्यतिरेकपणोकरीजाणवुं ॥ ३४ ॥

ये नाम परपर्यायाः स्वास्तित्वायोगतोमताः ॥ स्वकीया अप्यमी त्या ग स्वपर्यायविशेषणात् ॥ १५ ॥ अतादात्म्येपि संबधो व्यवहा रोपयोगतः ॥ तेषां सत्त्वं धनस्येव व्यज्यते सूद्धमया धिया ॥ १६ ॥

अर्थ॥जेटलापरपर्यायठे तेसर्वपोतानीआस्तिक्यताना अजोगथीजाणवा तेयद्यपि पोतानाठे तोपणगतजावेंठे अनेपोतानापर्यायतो सामान्यतापणोठे ॥१५॥ परपर्याय जोपणतादात्म्यजावेंनथी तोपण व्यवहारनयना जोगथीतेहनो संबंधठे जेमधननोध णी अनेधनते जूदाजूदाठे तोपणसूद्ध बुद्धियेंविचारतां तेमनोसंबंधजणायठे ॥१६॥

पर्यायाः स्युर्मुनेर्ज्ञानं दृष्टिचारित्रगोचराः ॥ यथा निम्ना अपि
तथो पयोगाद्स्तुनोह्यमी ॥ १७ ॥ नोचेदभावसंबंधा न्वेपणो
का गतिर्नवेत् ॥ आधारप्रतियोगित्वे द्विष्टे न हि पृथग् द्वयोः ॥ १८ ॥

अर्थः ॥ तेमञ्चनिम्नपणो ज्ञाननातथा चारित्रसंबंधीपर्याय सुनीनेपण होय जोपण
तेञ्चनिम्नते तोपणउपयोगपणोविचारतां निश्चयनयपोतपोतानाजठे पणव्यवहारैरेक
आत्मानाठे एमकेवाय ॥ १७ ॥ एमजोनकहिये अने अभावनासंबंधधी गवेपणाक
रियेतो केवीगतीथाय आधारान्तरनिरूपकतानेचावे विचारता द्विष्टेविनष्टेदयात् ए
दलेपृथक्भावताना द्वेषकरवाथी विणसेअने तेवेदुथीआत्मानिम्ननथी ॥ १८ ॥

स्वान्यपर्यायसंश्लेषात् सूत्रेष्येवं निदर्शितं ॥ सर्वमेकं विदन्वेद
सर्वं ज्ञानं तथैककं ॥ १९ ॥ आसक्तिपाटवान्यास स्वकार्यादिनि
राश्रयन् ॥ पर्यायमेकमप्यर्थं वेत्ति ज्ञावाद् बुधोऽखिलं ॥ २० ॥

अर्थः ॥ स्वपर्यायअने परपर्यायना संबंधधी सूत्रनेविपे पणएमदेखाड्युंठे के सध
लुंएकताजावें जाणता एगेआया इत्यादिक सधलुंज्ञानते संग्रहनयकरीएकजठे ॥ १९ ॥
माटेचिन्तनीआसक्तिये अने बुद्धिनीपाटवताये अन्यासकरवाथी पोताना कार्यपणादि
कनेथाश्रयतोथको पर्यायना एकअर्थनेजाणीनेपण बुधजेपंडित तेसर्वजावनेजाणे
जेएगंजाणइ सेसंबंजाणइ इतिवचनात् ॥ २० ॥

अंतरा केवलज्ञानं प्रतिव्यक्ति न यद्यपि ॥ कापि ग्रहणमेकांश
घारं चाति प्रसक्तिमत् ॥ २१ ॥ अनेकांतागमश्रद्धा तथाप्यस्व
लिता सदा ॥ सम्यग्दृशस्तयैव स्यात् संपूर्णार्थविवेचनं ॥ २२ ॥

अर्थः ॥ यद्यपिकेवलज्ञाननेविपे तोकांइपणप्रतिव्यक्तिनथी तोपणकोइतेकाणे एक
अशनुंज ग्रहणकचुंठे नेकोइस्थानके सर्वांशग्रहणकीधोठे ॥ २१ ॥ तोपणअनेकांत आ
गमनी श्रद्धातेअस्वजितपणो सदाप्रवर्चंठे माटेअनेकांततापणोअंगीकारकरताज स
मकितपणुंठे तथाउत्तरीअपचाद निश्चयव्यवहारतेनासंपूर्णअर्थनोनिश्चयथायठे २२

आगमार्थोपनयनाद् ज्ञानं प्राज्ञस्य सर्वगं ॥ कार्यादेर्व्यवहा
रस्तु नियतोद्धेखशेखर ॥ २३ ॥ तदेकांतेन यः कश्चिद्विरक्तस्या
पि कुग्रहः ॥ शास्त्रार्थवाधनात्सोयं जैनाज्ञासस्य पापकृत् ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ आगमनाअर्थनुं उपनयनजेषापवुं तेषकीप्राज्ञजे बुद्धिवंत तेनुंज्ञान स
र्वव्यापकपणोप्रवर्त्ते कार्यादिकजेव्यवहारठे तेतोनिश्चयपणें चित्रामणनीरेखासरिखोठे
श्रेष्ठरूपकरवाने जेमआलेखकरे तेसरिखोव्यवहारठे अनेसमग्ररूपकरवा समानतेनि
श्चयनयठे ॥३३॥ तेमाटेएकांतनय अंगीकारकरीनेप्रवर्त्तनारा वैराग्यवंतनेपण कुग्रही
कहिये तोबीजामात्र नामधरावनारहोय तेनीतोसीवार्ता एकनयवालोशाखना अर्थ
नोबाधककरता जाणवुंतेजोपण जैनाज्ञासठे तोपण पापकारी जाणवो ॥ ३४ ॥

उत्सर्गे चापवादेपि व्यवहारेथ निश्चये ॥ ज्ञाने कर्मणि वा
यं चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ॥३५॥ स्वागमेत्यागमार्थानां शत
स्येव परार्थके ॥ तावताप्यबुधत्वं चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ॥३६॥

अर्थ ॥ उत्सर्गमार्गमां अपवादमार्गमां व्यवहारमार्गमां निश्चयमार्गमां ज्ञानन
यनेविषे अनेक्रियानयनेविषे जोकदाग्रहनथी तोतेनेज्ञानगर्भितपणुठे अनेतेज्ञानी
पणठे ॥३५॥ स्वसिद्धांतनाजाणवाथी अन्यशाखनुं जाणवुंते तेमांजसमायीजायठे
जेमपरार्थनामे उत्कृष्टगणितठे तेमांसोनुगणितपण समाज्ञायठे अनेतेटलो ज्ञा
नपामिनेपण जोअज्ञानपणुरहेतो तेनेज्ञानगर्भिताबिलकुलनथी एमजाणवुं ॥३६॥

नयेषु सार्थसत्येषु मोघेषु परचालने ॥ माध्यस्थ्यं यदि नायातं
न तदा ज्ञानगर्भता ॥ ३७ ॥ आज्ञयागमिकार्थानां यौक्तिकानां
च युक्तितः ॥ न स्थाने योजकत्वं चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ पोतपोताना स्वार्थनेविषे सघलानयसत्यठे नेपरमार्थनी चालनानेविषे
निष्फलठे अनेतेनयना विवादमांजो मध्यस्तानआवी तोतेनेज्ञानगर्भताठेजनही
॥३७॥ जेआज्ञायाह्यअर्थने आज्ञायें ग्रहेनही आगमप्रमाणेग्रहवायोग्यने आगमें ग्रहे
नही अनेयुक्तिग्राह्यनेयुक्तीवडेग्रहेनही एमसहुने पोतपोतानेठेकाणे जोडीजाणेंनही
तोतेने ज्ञानगर्भिता मूलथीजनथी एमजाणवुं ॥ ३८ ॥

गीतार्थस्यैव वैराग्यं ज्ञानगर्भं ततः स्थितं ॥ उपचारादगीतस्या
प्यन्नीष्टं तस्य निष्ठया ॥ ३९ ॥ सूक्ष्मैहिका च माध्यस्थ्यं सर्वत्र
हितचिंतनं ॥ क्रियायामादरोन्नूयान् धर्मे लोकस्य योजनं ॥४०॥

अर्थ ॥ उपरकह्या मुजबतो गीतार्थनेज ज्ञानगर्भितवैराग्यठे पणअज्ञानीनेन
थी एमठखुं तोपणतेनाउपचारथकी अगीतार्थने पणगीतार्थनीनिष्ठायें ज्ञानगर्भितवै

राग्यते ॥ ३९ ॥ तेमाटेसूक्ष्मदृष्टिं मध्यस्तपणुं अंगीकारकरीने अनेपरदूपण तजी
नेवत्तुं सर्वजगतनाजीवतुं हितचित्तवतु मैत्रीभावधरवो क्रियानेविपेक्षणा आदरक
रवो उपयोगधरवो अनेधर्ममार्गमा लोकनेजोडवा एहिजश्रेष्ठे ॥ ४० ॥

चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांधवधिरोपमा ॥ उत्साहः स्वगुणान्यासे
दुःस्थस्येव धनार्जने ॥ ४१ ॥ मदनोन्मादवमनं मदसंमर्द
मर्दनं ॥ असूयातंतुविचेद समतामृतमज्जनं ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ मुगाने तथाअधलाने अनेवेहराने बोलवामा देखवामां अनेसांजलवामां
इत्यादिकपारकावृत्तांतनेविपे जेणेचेष्टातजीते अनेपोताना गुणनाअन्यास करवामां
जे उत्साहवंतठे जेमदरिडोयनकमाववानो उद्यमीहोयतेनीपरे उजमालथकोवत्ते
॥ ४१ ॥ कामनाउन्मादतुं वमनकरनारा मटनासमूहने टाजनारा-ईर्ष्यारूपतंतुनातो
डनारा अनेसमतारूपअमृत कुंडमामज्जनकरनारा ॥ ४२ ॥

स्वभावात्त्रैव चलनं चिदानंदनयात्सदा ॥ वैराग्यस्य तृतीयस्य
स्मृतेयं लक्षणावली ॥ ४३ ॥ ज्ञानगर्भमिहादेयं ह्योस्तुस्वो
पमर्दतः ॥ उद्योगः कदाचित् स्या त्रिजाध्यात्मप्रसादतः ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ तथाचिदानंदमयपणाना स्वभावशी सर्वदा चलायमाननही एहवावर्त
लुकवत जेहोय एत्रीजा ज्ञानगर्भित वैराग्यनागुणनी लक्षणावलीकही ॥ ४३ ॥
इहा ज्ञानगर्भितवैराग्यतेग्रहेवायोग्यते अने मोहगर्भितवैराग्य तथा दुःखगर्भितवै
राग्यतुं उपमर्दनकरीने पोतानाअध्यात्मभावनाप्रसादथकी कदाचित् ज्ञानगर्भित
वैराग्यनो उपयोगथाय ॥ ४४ ॥ इतिश्रीवैराग्यनेदाधिकारः पष्टःसमाप्तः

विषयेषु-गुणेषु-च-विधा-भ्रुवि-वैराग्यमिदं-प्रवर्तते ॥

अपरं प्रथमं प्रकीर्तितं परमध्यात्मबुधैर्द्वितीयकं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ पृथ्वीनेविपे विषयमाअने गुणमाएवेहुप्रकारे वैराग्यप्रवर्तते तेमाविषयवै
राग्यतो अमुख्यपणोकह्युठे वीजुअध्यात्मभावयुक्तगुणवैराग्यतेमुख्यपणेजाणवु ॥ १ ॥

विषयानुपलंनगोचरा अपि चानुश्रविकाविकारिणः ॥

न भवंति विरक्तचेसां विपधारेव सुधासु मज्जतां ॥ २ ॥

अर्थ ॥ जेविषयवैराग्यतेते प्राप्तिगोचरपणे वत्तते पणश्रद्धेयी ज्ञातापुरुषतेरूपस्ता

दिकनेविपे आसक्तिकरेनही जेविरक्तचित्तवालाते अविकारीथकाजहोय केमकेजेअ
व्यात्मरूप अमृतधारानेविपे मङ्गलकरताहोय तेहनेविषनीधारासुंकरनारठे अर्थात्
तेहनेकांशविषनीधारापीमाकरीशक्तिनथी ॥ ५ ॥

सुविशालरसालमंजरी विचरत्कोकिलकाकलीजरैः ॥

किमु माद्यति योगिनां मनो निनृतानाहृतनादसादरं ॥३॥

अर्थ ॥ जेयोगीश्वर अनहदनादेसहितठे तेनेयोगमारगेंकरीने सर्व देहरंधपुरी
ने अर्हपद अथवा सोहंपद अथवाउँकारध्वनि मनमांधरेठे तेनोब्रह्म धारेजेनाद
उठेठे तेनुंनाम अनहदनाद कहियें तेणेकरीजेयुक्तठे तोतेवायोगीश्वरनुंमन नलीवि
स्तारवंती आंबानीमंजरीनेविपे विचरतीजे कोकिला तेना मनोहर शब्दसांजलीने
शुंमग्रथसे अर्थात्नहीजथसे ॥ ३ ॥

रमणीमृडुपाणिकंकण कणनाकर्णनपूर्णघूर्णनाः ॥ अ

नुनूतनटीस्फुटीकृत प्रियसंगीतरता न योगिनः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ स्त्रीनासुकोमल हाथमारह्यांजेकंकण तेनोशब्दसांजलीने पूर्णपणे घुम्याठे
जोचन तेनीअनुनवनदिशारूप नाटककरनारीस्त्रीयें प्रियकारीसंगीतबंध कीधांतो
तेमां योगीश्वरनुंमन रंगायनही एटलेलोजायनही ॥ ४ ॥

स्खलनाय न शुद्धचेतसां ललनापंचमचारुघोलना ॥

यदियं समतापदावली मधुरालापरते न रोचते ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ स्त्रीनीपंचमरागनी घोलनाते समतापदनीश्रेणीना मधुरआलापनी रती
वालाशुद्धचेतनावंत जोगीनेरुचेनही एटलेशुद्धचेतनावंतने खलनाकारीनथाय ॥ ५ ॥

सततं क्लयि शुक्रशोणित प्रज्ञवं रूपमपि प्रियं नहि ॥

अविनाशिनिसर्गनिर्मल प्रथमानस्वक रूपदर्शिनः ॥६॥

अर्थ ॥ अविनाशी सहजनिर्मल अनेविस्तारपामतुं एहवोजे पोतानुंस्वरूप तेह
नाजोनार योगीश्वरतेनेतोजेनुं निरंतर शीलक्यथायठे अनेवीर्यरुधिरथी उपनुंएबुंजे
स्त्रीआदिकनुं रूपते प्रियकारीलागतुंनथी ॥ ६ ॥

परदृश्यमपायसंकुलं विषयो यत्स्वलुचर्मचक्षुपः ॥

न हि रूपमिदं मुदे यथा निरपायानुन्नवैकगोचर ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेवोनिरपायके० जेहनोनाशनथी एहवोअनुनवनदिशाने जोवानोरसठे

तेवो रूपते परपदार्थके ० वीजानेजोवायोग्यठे तथानाशवतठे अनेचर्मचक्रुनोविषयठे
एहवो जेरूप तेजोवाथकीतेनोजेरसते निश्चयनयथकी हर्षकारीनथाय ॥ ७ ॥

रतिविभ्रमहास्यचेष्टिते ललनानामिह मोदते ऽबुध. ॥

सुकृताज्जिपविष्वमीपु नो विरतानां प्रसरंति दृष्टयः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ रतिसुखनेदेखीने तथास्त्रीनानेत्रविभ्रमनी चेष्टायेकरीने अबुधजेअज्ञानी
प्राणी तेघणोहर्षपामेठे पणए विभ्रमविलासादिकतो सुकृतरूप पर्वतनेवज्जथइ चेदेए
वांठे माटेयोगीश्वरनी दृष्टितेमांरमतीनथी ॥ ८ ॥

न मुदे मृगनाजिमल्लिका लवलीचंदनचंडसौरचं ॥ वि

डपां निरुपाधिवाधित स्मरशीलेन सुगंधिवर्षणां ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ कस्तुरी मालतीनापुष्प लवलीके ० एलचीचदनतथाचडके ० कपुरनीसुगंधीते
पंडितलोकोने मग्नकरतीनथी तेमनेतो निरुपाधिक अनुभवगोचर स्वरूपचिदानंदने
विपेज मग्नपणुवचेंठे पणरूपादिकनेविपेमग्नतापणु नथी ॥ ९ ॥

उपयोगमुपेति यच्चिर हरते यत्नविज्ञावमारुतः ॥ न ततः

खलु शीलसौरजा दपरस्मिन्निह युज्यते रति. ॥ १० ॥

अर्थ ॥ जे घणाकालसुधी उपयोगमाआवे जेनीसुगंधीने विज्ञावदिशारूपवापु ह
री शकतो नथी एवीजेशीलसुगंधीतेनेमूकी योगीश्वरनुं चित्तअन्यसुगंधीमां लोचातुनथी
मधुरैर्न रसैरधीरता क्वच नाध्यात्मसुधाजिहां सता ॥ अ

रसैः कुसुमैरिवालिनानां प्रसरत्पद्मपरागमोदिनां ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ जेम विकस्वरथता जे कमलतेना स्वाद सुगंधयुक्त रसेमग्नथया एवाजे
त्रमर ते निरस कुसुमउपररतीपामेनही तेम अध्यात्मरूप अमृतरसनाजोगी जेप्रा
णी तेने बीजाशर्करादिक मधुररसनी अधीरजताउपजतीनथी गृधतापणुं करेनही

विपमायतिजिर्नु कि रसैः स्फुटमापातसुखैर्विकारिणि. ॥

नवमे नवमे रसे मनो यद्वि मग्नं सतताविकारिणि ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जे आगल कडवा विपाकआपे एवामधुररसेशुंसारुं वलीप्रगटपणो राज्य
कृद्दि स्त्रीविषयादिक सुखपास्याअनेतेपाठाजतारहे तेथीविक्रियाप्रगटे तोतेवासुखथी
शुंसारुं जोसदायअविकारी एवोपूर्णनवमोजेशातरस तेनेविपे मनमग्नठे तो पूर्वकह्यां
एवारसेशुंफायदोथाय अर्थात्कांइजनही ॥ १२ ॥

मधुरं रसमाप्य निःपते जसनातोरसलोहिनां जलं ॥ परि
चाव्य विपाकसाध्यसं विरतानां तु ततोदृशोर्जलं ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ एकअचरत जुवोके रसना लालचीजेप्राणी तेमधुररसने जोइने अथवा
खाधानीवात सांजलीने केहेठेके मारामुखमांपाणीनरायठे एटलेजीनथीपाणीपडेठे
अनेसर्वविरतिजे मुनिराजते मांसादिकमधुररसखाधे आगलमाठाविपाकआवशे ते
नाजयनेविचारी वेउआंखेपाणीआणोठे एटलेआंखमांथी आंसुपाडेठे ॥ १३ ॥

इह ये गुणपुष्पपूरिते धृतिपत्नीमुपगुह्य शरते ॥ विमले सु
विकल्पतल्पके क बहिःस्पर्शरता नवंतु ते ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ इहांचरणकरणादिकजे गुणतेरूपफुलेंपुरीएवी निर्मलजे सुविकल्पके म
नकुशलतारूपशय्या तेहनेविषे संतोपरूपस्त्रीने आलिंगन देइनेसुएठे तेवामुनिराज
ते बाह्यस्त्रीना स्पर्शविपेरतकेमथाय ॥ १४ ॥

हृदिनिवृत्तिमेव विभ्रतां न मुदे चंदनलेपनाविधिः ॥

विमलत्वमुपेयुपां सदा सलिलस्नानकलापि निःफला ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ रुदयनेविषे निवृत्ति सुखनेधरनारा जेप्राणी तेनेवावनाचंदनना लेपनी
विधि तेहर्षआपतीनथी तथासदैवनिर्मलजावने धरताजेप्राणी तेनेजलस्नानविधि
तेनिष्फलजाणवी ॥ १५ ॥

गणयंति जनुः स्वमर्थवत्सुरतोद्ध्वाससुखेन जोगिनः ॥

मदनाहिविषोयमूर्ठना मयतुल्यं तु तदेव योगिनः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जोगीप्राणीस्त्रीसाथे विलाससंजोगना सुखेकरी जन्मारोसफलमानेठे अ
ने योगीश्वरपुरुपतोमदनजेकाम तेनीचेष्टानेसर्पनाविपनी आकरीमूर्ठतुल्यमानेठे १६
तदिमे विषयाः किलैहिका न मुदे केपि विरक्तचेतसां ॥ पर

लोकसुखेपि निःस्पृहाः परमानंदरसालसा अमी ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ बेरागोजीवने आजवमांहुणोकसुखआपे एवाजेविषय तेनिश्चयथकीकांश्य
एहर्षकारीनथी केमकेल्यागीप्राणीतोपरलोक जेस्वर्गादिकनासुख तेनेविषेपण निस्पृ
हीठे तेतोमात्रमोहसुखनाजअजिलाषीठे ॥ १७ ॥

मदमाहविपादमत्सर ज्वरबाधाविधुराः सुरा अपि ॥ विप
मिश्रितपायंसान्नवत् सुखमेतेष्वपि नैति रम्यतां ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ गर्वञ्जानविपादञ्चने मत्सरतेरूपजावनी पीडायेरहितएवाजे देवतातेहना जेविषयादिकसुख तेपणविपमिश्रितसुखपाकनानोजननीपरे मनोहरकारीनथी ॥ १७ ॥

रमणीविरहेण वन्दिना बहुवाष्पानिलदीपितेन यत् ॥ त्रिद
शौर्दिवि ड्रु खमाप्यते घटते तत्र कथं सुखस्थितिः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ केमके स्त्रीनावियोगरूपअग्नी तेआंसुरूप चायरेकरी वेदीप्यमानयचो एह्वोजे शोकरूपअग्नी प्रगटयोतेथी स्वर्गनादेवतानेपण पीडाथायठे तेवारेस्वर्गमां देवतानेपणसुखनीस्थितिठे एह्वुं केमकहेवाय ॥ १८ ॥

प्रथमानविमानसंपदां च्यवनस्यापि दिवोविचितनात् ॥
हृदयं न हि यद्विदीयते द्युसदां तत्कुलिशाणुनिर्मितं ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेनेविमान संपदामोटीठे एवादेवतानेपण चवनवेजायेंजे ड्रुखप्रगटेठे तेड्रु खथीदेवतानुं रुदयमात्रफाटतुंनथी तेनुंकारणजे तेमनोरुदयतेवजानापरमाणु येकरी उप्तन्नकरेनुंठे तेथीघणोकणठे माटेजफाटतुंनथी ॥ १९ ॥

विषयेपुरतिः शिवार्थिनो न गतिष्वस्ति किलाखिलास्वपि ॥
घननंदनचदनार्थिनो गिरिन्मिष्वपरद्रुमेष्विव ॥ २० ॥

अर्थ ॥ जेमनिव्विड नंदनवनना चदननाविलेपनवाजाने परवतनीचूमिये अथवा वीजाकोइपणवृद्धेरतिथातीनथी तेममोहार्थिने विषयउपर प्रीतियतीनथी तेमजम नुष्य तथा स्वर्गप्रमुख समग्रगतिनेविषे पण प्रीतियतीनथी ॥ २० ॥

इति शुद्धमतिः स्थिरीकृता ऽपरवैराग्यरसस्ययोगिनः ॥
स्वगुणेषु वितृष्णतावद् परवैराग्यमपि प्रवर्तते ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ एमविचारी शुजबुद्धिस्थिरकरीने जेनेबीजावैराग्यनो गुणप्रगटयोठे तेवा योगीने आत्मगुणनेवधारे एवीतृष्णानुं आगमरूप परमवैराग्यप्रगटथाय ॥ २१ ॥

विपुलार्द्धिपुलाकचारण प्रवलाशीविपमुख्यलब्धयः ॥
न मदाय विरक्तचेतसा मनुषंगोपनताः पलालवत् ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ विपुललब्धि पुलाकलब्धि चारणलब्धि महोटीआशीविपलब्धि प्रमुख अनेक लब्धिआजोपणउपजे तोपण तेवैरागीमुनीने अहकारजणीथायनही मात्र ए कमुक्तिसुखविना पलालना पुजरूपतेमानेठे ॥ २२ ॥

कलितातिशयोपि कोपि नो विबुधानां मदकृच्छुणत्रजः॥ अ
धिकं न विदंत्यमी यतानिजन्नावे समुदंचति स्वतः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ पंडितते कोऽ मोटाअतिशयादिगुणना समूहेंसहितहोय तोपणमदकरे
नही अनेतेथीकांश् अधिकतापणनगणे मात्रपोताना शुद्धस्वभावमांज आनंदपामे
हृदये न शिवेपि लुब्धता सद्नुष्ठानमसंगमंगति ॥

पुरुषस्यदशेयमिष्यते सहजानंदतरंगसंगता ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ पोतानाकृदयनेविपे मुक्तिसुखउपरपण लुब्धतानथी एकसद्अनुष्ठानरू
प सहेजानंदना कक्षोजने मलतीअसंगानुष्ठानरूपपुरुषनी जेदशातेने वंठेठे पामेठे

इति यस्य महामतिर्भवे दिह वैराग्यविलासचृन्मनः ॥ ३

पयंति वरीतुमुच्चकै स्तमुदारप्रकृतिं यशःश्रियः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ वैराग्यविलासीपुरुषने एवीबुद्धिउपजेठे नेतेवाउदारप्रकृतिवाजाने य
शरूपजेजन्मी तेहर्षधरीने वरवानेइठेठे इतिश्रीवैराग्य विषयाधिकारःसप्तमः ॥ १६ ॥

इतिमहोपाध्यायश्रीयशोविजयेनविरचिते अध्यात्मसारप्र
करणेद्वितीयप्रबंधः संपूर्णः पांचमांशधिकारमांश ६ तथा
ठछामांश ४ अनेसातमांसांश ६ कुजमजिनेश्लोक ॥ १ ० ६ ॥

निर्ममस्यैव वैराग्यं स्थिरत्वमवगाहते ॥ परित्यजेत्ततः प्राज्ञो
ममतामत्यनर्थदां ॥ १ ॥ विषयैः किं परित्यक्तैर्जागर्ति ममता
यदि ॥ त्यागात्कंचुकमात्रस्य चुजंगोनहि निर्विषः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ ममतारहितप्राणीनेज वैराग्यस्थीरपणोरहेठे तेमाटे बुद्धिवंतप्राणीयें अ
नर्थदायकजे ममतातेनेतजवी ॥ १ ॥ जेमसर्पकांचली काठवाथी विपरहितथतोन
थी तेमजेनेममता जागेठे तेविषयने त्यागकरे तोपण त्यागीथतोनथी ॥ १ ॥

कष्टेन हि गुणग्रामं प्रगुणीकुरुते मुनिः ॥ ममता राक्षसी सर्व
चक्षयत्येकहेलया ॥ ३ ॥ जंतुकांतं पशुकृत्य जागविद्यौ
पधीवलात् ॥ उपायैर्वहुभिः पत्नी ममता क्रीडयत्यहो ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेगुणसमूहनेमुनिराज घणीकृष्टेकरीप्रगटकरेते तेने ममतारूपराकृती
एककोलीयेंखाऽजायते ॥ ३ ॥ केवुंआश्रयतेके स्त्रियाराज्यनीपरे ममतारूपस्त्रीते जी
वरूपजन्तारने पशुजेमकंट तरूपेकरीने शीप्रपणोद्यज्ञानरूप जडीबुटीनावलथकी घ
एंप्रकारेनचावीने रमाहेते ॥ ४ ॥

एक. परजवे याति जायते चैकएव हि ॥ ममतोऽकेतः सर्वं सं
बंध कल्पयत्यथ ॥ ५ ॥ व्याप्नोति महतीं चूमि वटवीजाद्य
था वटः ॥ तथैकममतावीजा त्प्रपंचस्यापि कल्पना ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ एकलुंचेतन परजवेजायते अनेएकलुंज आनवेंआवेते पणममताने वश
अने रत्नावेयीनीपरें मिथ्यासगण न्यातजातवगेरेनी कल्पनाकरेते ॥ ५ ॥ जेमएक
वचना वीजयकी घणीवरतीये वडव्यापीनेविस्तारपामेते तेमएकममताना वीजयकी
घणाप्रपंचनी कल्पनाउठेते ॥ ६ ॥

माता पिता मे त्राता मे जगिनी वल्लजा च मे ॥ पुत्रा सुता मे मि
त्राणि ज्ञातय संस्तुता श्र मे ॥ ७ ॥ इत्येवं ममताव्याधि वर्द्धमा
नं प्रतिक्षणं ॥ जनः शक्रोति नोऽहेतुं विना ज्ञानमहोपधं ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ मातापिता जाऽ वेन स्त्री एसर्वमाहराते पुत्र पुत्री मित्र एपणमाहराते
न्याति परिचित एमाहराते ॥ ७ ॥ एप्रकारेममतारूपरोग दिवसेदिवसे बधतोजायते
तेनेमटाफवाने कोऽपणज्ञानरूप श्रापधविना समर्थथातो नथी ॥ ८ ॥

ममत्वेनैव निःशंक मारंजादौ प्रवर्तते ॥ कालाकालसमुत्थायी
धनलोभेन धावति ॥ ९ ॥ स्वयं येषां च पोषाय खिद्यते ममता
वशः ॥ इहामुत्र च ते न रयु स्त्राणाय शरणाय वा ॥ १० ॥

अर्थ ॥ जेमवेलाकवेलाउठीने विप्रवेमासासोतुं छेवानेगयो तेनीपरेएक ममता
येंकरीनेनि शकपणे आरजमांप्रवर्तते ममणसेठपरें धननेजोनेकरीदोहेते ॥ ९ ॥ परजव
मांइहाकुंडुं शरणआधारनथी तोपणकुंडुवनेपोषवानी ममतामा खेदपामेते ॥ १० ॥

ममत्वेन बहून् लोकान् पुष्पात्येकोर्जितेर्धने ॥ मोढा नरक
इ स्वानां तीव्राणामेक एव तु ॥ ११ ॥ ममतां यो हि यन्नास्ति तत्प
श्यति न पश्यति ॥ जाल्यंधस्तु यदस्त्व्येत जेद इत्यनयोर्महान् ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ पोतेएकलो धनमेलवीने ममत्वेकरिने घणालोकने पुष्टिकरेठे पणपरज
वमां आकरांनारकीनांडुःखआवसे तेचारेणकलोजनोगवसे ॥ ११ ॥ जीवतोअंधलोनथी
पणममतायेकरि नास्तिकपदार्थने खरुंकरिमानेठे तेहनेमिथ्यादृष्टि अंधकहिये के
मके तेनीचर्मचहुठे तोपणतेचहुयेकरि आत्मिकअर्थने नथीदेखतो माटेएनेदेख
तो पणअंधलोजजाणवो अनेजेजातिअंधतोठे पणज्ञानीनेसंयोगे आत्मार्थने जुए
ठे माटेएवेप्रकारना अंधमांधणोअंतरठे ॥ १२ ॥

प्राणाननित्यताध्यानात् प्रेमभ्रूम्ना ततोधिकां॥ प्राणापहां त्रि
यां मत्वा मोदते ममतावशः॥ १३ ॥ कुंदान्यस्थीनि दशनान् मुखं
श्लेष्मगृहं विधुं॥ मांसग्रंथी कुचौ कुंचौ हेस्नोवेति ममत्ववान्॥ १४ ॥

अर्थ ॥ रागदिशयेकरिने प्राणनेअनित्यमाने पणप्राणनी लेनारीजेस्त्री तेनेमम
ताने वशयइ वद्वनजाणीने हर्षपामेठे ॥ १३ ॥ तेस्त्रीनादांतयद्यपि हाडकानाठे
तोपणतेने कुंदफुलनी कलीनेजेवाजाणे अनेश्लेष्मजेलाज तेणेकरिनेरुं मुखहोय
तेनेचंडतुव्यवखाणेठे अनेस्तनमांसनागंठाठे तेनेसोनाना कलशसमान लेखेठे एवा
तो सर्वममत्वनेलीधे आयठे ॥ १४ ॥

मनस्यन्यध्वस्यन्यत् क्रियायामन्यदेव चायस्यास्तामपि लो
लाह्नीं सार्ध्यां वेत्ति ममत्ववान्॥ १५ ॥ या रोपयत्यकार्येपि रागि
णां प्राणसंशये॥ उर्वृत्तां स्त्रीं ममत्वांध स्तां मुग्धामेव मन्यते ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ वलीतेस्त्रीकेवीठे जेनामनमांकोइकहोय अनेवचनमां वलीबीजो कोइक
होय अनेनोगतोवली कोइत्रीजानी साथेजकरे एवीठे तेनेवैरागीपुरुषकहेठे जेएस्त्री
यकी सर्वसखुं एटलेस्त्री सर्वथीचुडीगणेठे पणजेप्राणीममतावंतठे तेतोएवीचंचल
नेत्रवालीस्त्रीने सतीमानेठे ॥ १५ ॥ स्त्रीपोतानारागी धणीनेमरणथाय एवांकाम
नलावे अनेतेपण ममत्वेअंधलोपुरुष तेकार्यकुटाइ पीटाइनेकरे वली स्त्रीव्यजिचा
रणीहोय तोपणतेनेनोलीकरिमाने तेउपरएक दृष्टांतठे लालीकेतीबापडी अवजा
खेलमखेल ज्यांथीलाव्योलाकडी त्यांनीत्यांजइमेल ॥ १६ ॥

चर्माढादितमांसास्थि विष्मूत्रपिठरीष्वपि ॥ वनितासु ममत्वं
य तन्ममत्वं विजृंभितं ॥ १७ ॥ लालयन्वालकं ताते त्यवं व्रूते
ममत्ववान् ॥ वेत्ति च श्लेष्मणा पूर्णा मंगुलीममृतांचितां॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेममत्वनी चेष्टाते धूलजीजा सरखीठे तेनेवशयइरह्यो एवोजेपुरुषते
 ह्याममांसविष्टामूत्रतथा चर्मथीमढेली ह्यामजीजेवीखीउपरप्रेमकरेठे ममत्वधरेठे ॥ १७
 वलीममत्वेंकरिने पोतानापुत्रनेरमाडे तेवखतेतेनेवापवापकरीकहे अने तेवालकना
 हाथनीआगलीयो श्लेष्मथीनरीहोय तेनेअमृतसमानजाणे ॥ १८ ॥

पंकाडंमपि नि.शंका सुतमंकात्र मुंचति ॥ तदमध्येपि मेध्यत्वं जा
 नात्यंवा ममत्वतः ॥ १९ ॥ मातापित्रादिसंबंधो नियतोपि म
 मत्वतः ॥ दृढभूमि र्भ्रमवतां नैयत्येनावजासते ॥ २० ॥

अर्थ ॥ मोहथकी बालकनीमाता पोतानाबालकने कादवेंनखोहोय तोपणनि-
 शंकपणे खोजामाथी मुकतीनथी वलीविष्टायेअच्छुचिहोय तोपणतेवालकने तेनीमा
 ता मोहनावशयकी तेहनेपवित्रगणेठे ॥ १९ ॥ जेमधरती शाश्वतदृढे पणधतुरा
 नाफलनक्रकरनार प्राणीनेफेरआवेठे त्यारेतेनेधरतीफरतीजणायठे तेममातापि
 तादिकनो संबंधसंसारमां अनादिनो शाश्वतठे पणमोहवडेमुजाणोप्राणी एमकहेठे
 जे मातामरीगइ हवेकेमथगे शीरीतेचालते ॥ २० ॥

जिज्ञाः प्रत्येकमात्मानो विजिज्ञा. पुज्जला अपि॥ शून्यससर्ग इ
 त्येवं य. पश्यति स पश्यति॥२१॥ अहंताममते स्वत्व स्वीयत्वत्र
 महेतुके ॥ जेदज्ञानात्पलायेते रज्जुज्ञानादिवाहिनि ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ तेमप्रत्येकेजीवपण जुदाजुदाठे अनेतेकइगतीथीआव्या अनेकइगतियें
 जसे तेमजपुज्जपणजुदाठे तथाशरीरनो संगपणशून्यठे एरीतेजेदेखेठे तेनेदेखतो
 जाणवो ॥ २१ ॥ जेमदोरडातुं ज्ञानथये सर्पनीनीति नाशपामेठे तेमहुंअनेखीआदि
 क माहरीठेएवो ममत्वथायठे तेत्रमहेतुठे तेत्रमजेद ज्ञाननजरेंजोवाथी नाशपामे

किमेतदिति जिज्ञासा तत्वाजिज्ञानसंमुखी॥ व्यासंगमेव नोवातु
 दैत्ते क ममतास्थिति ॥ २३ ॥ प्रियाथिन. प्रियाप्राप्ति विना का
 पि यथा रतिः॥ न तथा तत्वजिज्ञासो स्तत्वप्राप्ति विना क्वचित्॥२४॥

अर्थ ॥ एतसारनोसंबंधगुठे एमआत्मतत्वने सन्मुख श्रोलखवानी इहाथइ ए
 टलेममता तरतनाशपामे आत्मज्ञानीआगल ममताकिहाठेकाणेरहे ॥ २३ ॥ जेमका
 मीपुरुष स्त्रीनोअर्थीययो तेन्नीपाम्यागिना कोइपणठेकाणे रतिनपामे तेमतत्वनो
 जाण पुरुषपण तत्वपाम्याविना क्यापेंरतिनपामे ॥ २४ ॥

अत एव हि जिज्ञासा विष्टंभति ममत्वधीः ॥ विचित्रान्नि
नयाक्रांतः संभ्रांत इव लह्यते ॥१५॥ धृतो योगो न ममता
हृता न समताऽऽहृता ॥ न च जिज्ञासितं तत्त्वं गतं जन्म निर
र्थकम् ॥ १६ ॥ जिज्ञासा च विवेकश्च ममतानाशकावुचौ ॥
अतस्ताभ्यां निगृह्णीया देनामध्यात्मवैरिणीं ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ एकारणमाटे तत्वजाणवानी इहार्थेकरी ममतानीबुद्धिजेणेदवावीठे ते
प्राणी विचित्रप्रकारनी नय गम जंग रचनाये व्याप्योथको संसारना सर्वपदार्थ
ने संभ्रांतजाणे एटलेइंजालवतुजाणे ॥ १५ ॥ जेणेजोगपणधर्येनही अनेममता
पण हणीनही तथा समतापणआदरीनही वलीशास्त्रजाणवानी इहापणनकरी ते
नोनरजन्मनिष्फलगयो एमजाणवुं ॥ १६ ॥ एकजाणवानीइहा एनेबीजोविवेक ए
वेममताने नाशकरनाराठे तेमाटेएवेहुथकी ममतानो नियहकरवो कारणके ममता
ते अध्यात्मनी इश्मनठे ॥ १७ ॥ इतिममता त्यागाधिकार अष्टमसमाप्तः

त्यक्तायां ममतायां च समता प्रथते स्वतः ॥ स्फटिके गलितो
पाधौ यथा निर्मलतागुणः ॥१॥ प्रियाप्रियत्वयोर्यार्थे व्यवहार
स्य कल्पना ॥ निश्चयात्तद्बुदासेन स्तैमित्ये समतोच्यते ॥१॥

अर्थ ॥ हवेसमता आववानो अधिकारकहेठे जेमफटकनेविषे उपाधिपणुंठले
तेवारें निर्मलतापणुंवधेठे तेमजेवारें ममतानोत्यागथाय तेवारेंपोतानीमेलेज सम
ताविस्तरे ॥ १ ॥ संसारनेविषेपोताने अर्थेकोइकामपडे तेवारें एमजाणेजेआमाह
रो वहालोठे अनेआइश्मनठे पणएसर्व व्यवहारकल्पनाठे निश्चयथकीतो तेव्यवहा
रनाशेकरी मध्यस्थपणुंपामे तेवारेंज तेसमतावंत केहेवाय ॥ १ ॥

तेष्वेव विषतः पुंस स्तेष्वेवार्थेषु रज्यतः ॥ निश्चयात्किंचिदि
ष्टं वाऽनिष्टं वा नैव विद्यते ॥३॥ एकस्य विषयो यः स्यात्स्वान्निप्रा
येण पुष्टितः ॥ अन्यस्य द्वेष्यतामेति स एव मतिचेदतः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ व्यवहारकल्पनावालोतो जेनेविषेदेषलावे तेनेजविषे पोतानाअर्थेसाध
नेकरी राजीथाय पणजोनिश्चयथकीविचारे तोएमांकांइ इष्टनथी तेमअनिष्टपणनथी

॥ ३ ॥ एकविषयजे एककार्यतेतेएकजणने पोतानीस्वीयेषुष्टकारीते अनेवीजाने
तेथीज देपउपजेते एमतिकल्पनानानेदते एमजाणतु ॥ ४ ॥

विकल्पकल्पितं तस्मा द्वयमेतन्न तात्त्विकं ॥ विकल्पोपरमे
तस्य द्विवादिवृत्तपक्षयः ॥५॥ स्वप्रयोजनसंसिद्धिः स्वायत्ता
जासते यदा ॥ बहिरर्थेषु संकल्प समुत्थान तदा हतं ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ इष्टअनिष्टए विकल्पनीकल्पनायकीते एवेनेजरागदेषजाणवा पणएमां
कांइ तखनथी जोमनथीविकल्पजाय तोरागदेष एवेहुदूरथाय॥५॥पोताना प्रयोजन
नीसिद्धि जेवारेंपोताने स्वाधीनथाय तेवारेबाह्यारना अर्थसंकल्पनी उठावनाशपामे

लब्धे स्वभावे कंठस्थ स्वर्णन्यायाद्भ्रमक्षये ॥ रागद्वेषानुप
स्थाने समता स्यादनाहता॥७॥ जगज्जीविषु नो जाति द्वैविध्यं
कर्मनिर्मितायदा शुद्धनयस्थित्या तदा साम्यमनाहतं ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जेमकंठउपररहेजुं सुवर्ण साक्षातदेखापठे तेमस्वभाविकगुण पामेथके
विजाविकत्रमणादूरजाय तेवारे रागद्वेषउठीदूरथाय अनेसमताविशेषेवधे ॥ ७ ॥ ज
गतनाजीवनेविषे कर्मनुंविचित्रपणुंते माटेतेविजावपणुं सारुंनरतुकेवानीरीतें जेवारेन
जाते तेवारेंशुद्धनयमां रह्योथको प्रबलसमतानेपामे ॥ ८ ॥

स्वगुणेभ्योपि कौटस्था देकत्वाध्यवसायतः ॥ आत्मारामं म
नो यस्य तस्य साम्यमनुत्तरं ॥९॥ समतापरिपाके स्या द्विषय
ग्रहशून्यता॥यया विशदयोगानां वासीचंदनतुल्यता ॥ १० ॥

अर्थ ॥ पोतानागुणथकी पोतानोआत्मासाक्षीकरिने पोतानाएकगुणद्वयध्यवसा
यथकी आत्मानेविषे जेनुंमनरमेते तेनीसमताअनुत्तरकहिये ॥ ९ ॥ एमजेनेपाकीस
मताथइ तेनोविषयरूपपरसुनुंथयु एमजेमुनिनेनिर्मल समतायोगप्रगटयो तेमुनीने
वासलेंकरी कोइतेदे अथवा चदनेकरीकोइपूजेते वेहुतुल्यते ॥ १० ॥

किं स्तुम. समतां साधौ या स्वार्थप्रगुणीकृता ॥ वैराणि नित्य
वैराणा मपि हंत्युपतस्थुपां ॥ १ ॥ किं दंजेन तपोनिर्वा यमैश्च
नियमैश्च किं ॥ एकेव समता सेव्या तरि. ससारवारिधौ ॥ १ ॥

अर्थ ॥ एवा साधुनीसमतानी शीवखाणकरिये जेपोतानाआत्माने सिद्धि

करवाने समताआइरी एहवासुनीते समतारूपधरमांरहेताथका आजवनातथा आ
गलाकइकनवतेसर्व नवनावैरजावने टालीनाखेठे जेमनित्यपासेवसतांथका कुतरा
अने मांजरीके० बलामीतेमनावैरपण शमीजायठे तेहनीपरेंजाणवुं ॥ ११ ॥ कपटी
वेशधारणकरवाथीशुंथाय तथाघणीतपस्यायेपण शुंथाय वलीमौनधारी अतीतनीपेरें
इंद्रियदमनकीधेशुंथाय अने व्रतधारणकरेपणशुंथाय मात्रएकसमताजे संसाररू
पसमुइतरवामां नौकाजेवीठे तेजुंजसेवनकरवुंतेहिजश्रेष्ठे ॥ १२ ॥

दूरे स्वर्गसुखं मुक्ति पदवी सा दवीयसी ॥ मनःसंनिहितं दृष्टं
स्पष्टं तु समतासुखं ॥ १३ ॥ दृशोः स्मरविषं शुष्येत् क्रोधतापः
क्षयं व्रजेत् ॥ औद्भत्यमलनाशः स्यात् शमतामृतमज्जनात् ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ देवलोकनासुखतोदूरठे वलीमोहूपदवीतेतोमोटीठे अनेनवस्थितीनेहा
थठे तेवारे मननीपासे प्रगटपणेदेखीये एवीसमतानुंसुखते सुखोदुंठे ॥ १३ ॥
समतारूपअमृतकुंममां स्नानकरवानाप्रजावथी आंखथकी कंदर्परूपदर्पनुं विपसोपाइ
जायठे क्रोधरूपतापते नाशपामेठे उद्धताइरूपीओमेल तेपणदूरकरे ॥ १४ ॥

जरामरणदावाग्नि ज्वालिते नवकानने ॥ सुखाय समतैकै
व पीयूषघनवृष्टिवत् ॥ १५ ॥ आश्रित्य समतामेकां निर्वृता
जरतादयः ॥ नहि कष्ट मनुष्ठानमनूत्तेषां तु किंचन ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जन्मजरामरणरूप दावानलेंकरीबलतुंएवुं संसाररूपवनखंम तेमांसमतानुं
जेसुखठे तेअमृतनावरसादसरखुंजाणवुं ॥ १५ ॥ चित्रशालीमध्ये एकजसमताने अ
वलंबता जरतराजाआदि आठपाटकेवलपामिने सिद्धथया पण तेमने कष्टक्रियाकां
इपण करवीपडीनही एहवीएसमताठे ॥ १६ ॥

अर्गला नरकघारे मोहमार्गस्य दीपिका ॥ समता गुणरत्ना
नां संग्रहे रोहणावनिः ॥ १७ ॥ मोहाह्लादितनेत्राणा मात्मरूपम
पश्यतां ॥ दिव्यांजनशलाकेव समता दोषनाशकृत् ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ वलीसमता तेनरकनेवारणे जोगलजेवीठे अनेमोहमार्गनीदीविठे वलीगु
णरूपरत्नानो संग्रहकरवाने रोहणाचलपर्वतनी नूमिकासरिखीठे ॥ १७ ॥ जेनानेत्र
मोहवडेढंकायाठे अनेजेपोतानास्वरूपने जोइशकतानथी तेनेदिव्यअंजनआंजवाने
समताते शलाकारूपठे अनेअज्ञाननापमलने ठेदनारीठे ॥ १८ ॥

कृणं चेतः समाकृष्य समता यदि सेव्यते ॥ स्यात्तदा सुखम
प्यस्य यद्वक्तुं नैव पार्यते ॥ १९ ॥ कुमारी न यथा वेत्ति सुखं दयित
जोगजं ॥ न जानाति तथा लोको योगिनां समतासुखं ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणी एककृणमात्र मननेखेचीने समतानेसेवे तोतेप्राणीने एहवुंसु
खप्रगटे जेहनुंमुखेकहेताथका पारआवेनही ॥ १९ ॥ जेमकुमारिका नरतारनासुखने
जाणतीनथी तेम लोकोपणमुनिराजनी समतानासुखने जाणतानथी ॥ १९ ॥

नतिस्तुत्यादिकाशंका शरस्तीव्रः स्वमर्ममृत् ॥ समतावर्मगुप्ता
नां नार्त्तिकृत्सोपि जायते ॥ १९ ॥ प्रचितान्यपि कर्माणि जन्मनां
कोटिकोटिभिः ॥ तमांसीव प्रजा जानो द्विषोति समता कृणात् ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेपोसमतानुं वरुतरपेखुंते तेनेनमस्कार स्तुति पूजा लाज परइव्यनी
इहादिरूप जेपोतानाज मर्मनेलागनारा एहवाजेतीकृणवाणो तेपीडाकरीशकतान
थी ॥ १९ ॥ जेमसूर्यकिरणप्रकाशथी अंधकारनाशपामेठे तेमकोटीकोटी नयना प्राणी
ना निवमसंचितजे पापकर्मठेते समतावडे एककृणमांनानाशपामेठे ॥ १९ ॥

अन्यलिंगादिसिद्धाना माधारः समतैवहि ॥ रत्नत्रयफलप्राप्ते
यथा स्यान्नवजैनता ॥ १९ ॥ ज्ञानसाफल्यमेपैव नयस्थानाव
तारिणः ॥ चंदनं बन्दिनेव स्यात् कुग्रहेणतु नस्म तत् ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेअन्यलिगीसिद्धयथा तेपण इव्यथी मोहफलसाधताथका रत्नत्रयना
फलनीप्राप्तिवडे जाचथीजिनपणुपाम्या माटेतेअन्यलिगीअ्रोनेपण समताते एकआधा
रनूतहति ॥ १९ ॥ जोनयस्थानके उतारीजोइयेंतो एसमताजज्ञानतुंफलठे नेजेमज्ञा
नवडेनवतापशमेठे तेमसमतारूपचंदनेकरी नवतापशमोजायठे पण कुग्रहके ० क
दाग्रहअज्ञानरूप अग्रवीवमेतो समतारूपचंदनवली नस्मथायठे ॥ १९ ॥

चारित्रपुरुषप्राणाः समतारख्या गता यदि ॥ जनानुधावनवेश
स्तदा तन्मरणोत्सवः ॥ १९ ॥ संत्यज्य समतामेकां स्याद्यत्कष्ट
मनुष्ठितं ॥ तदीप्सितकरं नैव बीजमुत्तमिवोपरं ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ आसंसारूपगामनेधिपे सर्वलोक ऋयविक्रयकरता दोडादोडकरेठे तेसुंठे
तेकहेठे केजेवारेंचारित्ररूपीपुरुष मरणपाम्यो तेवारें समतारूपीप्राणपण जतारह्या

पढी तेनामृतकार्यनोउत्सव पाथरणास्नानसूतक वगेरे करवानेजाणियेंएलोको दो
मादोडकरेठे एमसमजवुं ॥ १५ ॥ जेमउखरकेत्रमां बीजवाव्युं तेकष्टेफलेनही ते
मएकसमतानेठोमी जेप्राणीकष्टक्रियाकरेठे तेनेरुहुंफल आगलमलतुंनथी ॥ १६ ॥

उपायः समतैवेका मुक्तेरन्यः क्रियाजरः॥ तत्तत्पुरुषजेदेन तस्या
एव प्रसिद्धये ॥ १७ ॥ दिङ्मात्रदर्शने शास्त्रव्यापारः स्यान्न
दूरगः ॥ अस्याः स्वानुभवः पारं सामर्थ्याख्योवगाहते ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ मुक्तिनोउपायतो एकसमताठे बाकीक्रियाकष्ट सर्वआमंवरठे तेपुरुषने
जेदेकरी एटलेतपजप सर्वसमतानी प्रसिद्धिठे पुरुषजेदते गृहस्थ अने मुनीने शीलेठे
एटले क्रियाकरवामां गृहस्थ तथामुनीनो व्यवहारजुदोठे पणतेवेउनीक्रिया समतायें
वखाएवी एवीशास्त्रनीआज्ञाठे ॥ १७ ॥ शास्त्रनाउपदेशतो जेमकोइआंगलीवडे मार्ग
बतावे पणपोतेकांइसार्थेआवेनही तेमदिशिमात्रने बतावेएवाठे पण जेशास्त्रसांजलीने
पोतानाअनुनवमांलावी पोतानेसामर्थ्येकरी पंथअवगाहेतोजनवाटवीनोपारपामे १८

परस्मात् परमेषा य त्रिगूढं तत्त्वमात्मनः ॥

तदध्यात्मप्रसादेन कार्योस्यामेव निर्जरः॥१९॥

अर्थ ॥ परपुत्रलादिक वस्तुतेआत्मानानथी अने देखवाथी आआत्मापरमपवि
त्रठे आत्मानेविषेआत्मतत्व गुप्तठे माटेअध्यात्मने प्रसादेकरी समतानेविषे हर्षउ
ह्वासकरवो ॥ १९ ॥ इतिसमताधिकार नवमसमाप्तः ॥

परिशुद्धमनुष्ठानं जायते समतान्वयात् ॥ कतकहोदसंक्रां
तेः कलुषं सलिलं यथा ॥ १ ॥ विषं गरोऽननुष्ठानं तद्धेतुर
मृतं परं ॥ गुरुसेवाद्यनुष्ठान मिति पंचविधं जगुः ॥ २ ॥

अर्थ ॥ जेम कतकफलना चूर्णनेयोगें मोहलुंपाणिनिर्मलथायतेम समतानायो
गथी शुद्धअनुष्ठानप्रगटथायठे ॥ १ ॥ विषयानुष्ठान गरलानुष्ठान अन्योनानुष्ठान
तद्धेतुअनुष्ठानने अमृतानुष्ठान एपांचअनुष्ठान गुरुसेवादिक करणीमांकह्यांठे ॥ २ ॥

आहारोपधिपूजार्द्धि प्रचृत्याशंसया कृतं ॥ शीघ्रं सच्चित्तदं
तृत्वा विषानुष्ठानमुच्यते ॥ ३ ॥ स्थावरं जंगमं चापि तत्क्षणां
नद्धितं विषं ॥ यथा हंति तथेदं सच्चित्तमैहिकजोगतः ॥४॥

अर्थ ॥ मिष्टान्नचोदननी लालचें वस्त्रनीलालचे पूजानीलालचें दौलतनीइष्टायें
जेतप जप कष्टक्रियाकरे तेक्रियापोताना शुचचित्तनीहृणनारीठे एनुनाम विपञ्चनु
घानजाणवु ॥३॥ इथावरविपते सोमलजाणवु अनेजगमविपसर्पादिकतुंजाणवुं एवेठ
मांथी एकविपरवाथाथी तरतमरेठे तेमजोगानिलापेंक्रियाकरवी तेशुचचित्तनेहृणेठे४

दिव्यजोगानिलापेण कालांतरपरिह्वयात् ॥ स्वादिष्टफल
संपूर्ते गैरानुष्ठानमुच्यते ॥५॥ यथा कुड्व्यसंयोगजनितं ग
रसंज्ञितं ॥ विपं कालांतरे हति तेथेदमपि तलतः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेदेवेंडादिकना सुखपरजवें पामवानीइष्टाकरी नेतपस्याकरेतेप्राणीकालां
तरें नरकगतिपामे कष्टकरीने अणदीगफलनीवाठाकरे तेनेगरलानुष्ठानकेवु ॥ ५ ॥
जेमवंगडीचूर्णप्रमुखनिर्वलइच्यने संयोगेंप्रगटथतुविप तेगरलनामाविपकहियेंते घणा
दिवस कष्टपमाडीमारेठे तेमएपणतत्वथी नर्कफलनीप्राप्तिकरेठे ॥ ६ ॥

निपेधायानयोरेव विचित्रानर्थदायिनोः ॥ सर्वत्रैवानिदान
त्वं जिनेजै प्रतिपादितं ॥ ७ ॥ प्रणिधानाद्यज्ञावेन कर्म्मार्
नध्यवसायिनः ॥ संमूर्ध्विप्रवृत्त्याञ्च मननुष्ठानमुच्यते ॥८॥

अर्थ ॥ अनेकप्रकारें महाअनर्थउपजावे एवाएपूर्वोक्तचेअनुष्ठाननी निपेधकरवाने
समस्ततीर्थकरें नियाणुंवर्जवानुंकद्युठे ॥ ७॥ प्रणिधानादिकनेअज्ञावें कर्मजेक्रियाते
मां अथवसायरहितके० शून्यपणेसमूर्ध्वमनीपरें शून्यमननी प्रवृत्तियें अथवा दे
खादेखीयेंजे क्रियाकरे तेअन्योन्यानुष्ठानकहिये ॥ ८ ॥

उधसंज्ञात्र सामान्यं ज्ञानरूपानिवंधनं॥लोकसंज्ञा च नि
र्दोपसूत्रमार्गानपेक्षाणी॥९॥ न लोकं नापि सूत्रंनो गुरु
वाचमपेक्षते॥अनध्यवसितं किंचि त्कुरुते चोघसंज्ञया॥१०॥

अर्थ ॥ इहांसामान्यप्रकारें ज्ञानरूपनुंकारणनगवेपे तेउधसंज्ञा प्रवाहरूपकहियें
तेथी निर्दोपिसूत्रनामार्गनीअपेक्षाविना लोकदेखादेखीयें क्रियाकरे अथवा उपयोग
शून्यथकाजेक्रियाकरे तेअन्योन्यानुष्ठानठे॥९॥एटलेलोकनीरीतविना अने सूत्रनी तथा
गुरूनावचननीअपेक्षाविना उपयोगशून्यपणे जेकांइकरवु तेतुंनाम उधसंज्ञाठे ॥१०॥

शुद्धस्यान्वेषणे तीर्थोच्छेदः स्यादिति वादिनां ॥ लोकाचारादर
श्रद्धा लोकसंज्ञेति गीयते ॥ ११ ॥ शिक्षितादिपदोपेत मध्या
वश्यकमुच्यते ॥ इव्यतो जावनिर्मुक्त मशुद्धस्यतु का कथा ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जो अत्यंत शुद्ध मार्ग खोलवा जइयें तो तीर्थनो उच्छेदथाय माटे लोकनां आ
चार उपर आदर श्रद्धा करवी जेमचा जे तेम चालवा दीजे एहवावचनबोलता जेलौकि
कथाचारें प्रवर्त्तें तेनुं नाम लोकसंज्ञा ठे ॥ ११ ॥ अने शिक्षाग्रहण आसेवन तथापद
संपदायें सहित जाव शून्यपणेजे आवश्यककरे तेपण इव्य आवश्यक कथुं ठे तोजे
अशुद्ध ज करेतेनी तोशीवात कहियें ॥ १२ ॥

तीर्थोच्छेदत्रिया हंता विशुद्धस्यैव चादरे ॥ सूत्रक्रियाविलोपः
स्या जतानुगतिकत्वतः ॥ १३ ॥ धर्मोद्यतेन कर्तव्यं कृतं बहुत्रि
रेव चेत् ॥ तदा मिथ्यादृशां धर्मो न त्याज्यः स्यात्कदाचन ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जे तीर्थनो उच्छेदथाय तेना जयथी अशुद्धक्रियाने विषे गाडरीया प्रवाहनी पे
रें गतानुगतिकपणें आदरकरतां कांइपरमार्थ जाणे नही अने ज्ञानक्रियानो नाशकरे ॥
१३ ॥ जे धर्मना अर्थी अइने एमक हेसो के जे घणाजन करते आपणपण करवुं तो मिथ्या
त्वता धर्मनापण घणासेवनारठे माटे तेपण कोइ काले ठंडा जे नही एमठे खुं ॥ १४ ॥

तस्माज्जतानुगत्या यत् क्रियते सूत्रवर्जितं ॥ उद्यतो लोकतो
वा त दननुष्ठानमेव हि ॥ १५ ॥ अकामनिर्जरा कर्तव्यं कायक्लेशा
दिहोदितं ॥ सकामनिर्जरा तु स्यात् सोपयोगप्रवृत्तितः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ माटे सूत्रनी शैलीरहितपणे गतानुगतिकपणे उद्यसंज्ञायें अथवा लोकसंज्ञायें
जे करवुं तेने अन्योन्यानुष्ठानके वुं ॥ १५ ॥ जे अज्ञानपणे कायकक्लेशकरे तेने अकामनिर्ज
राकहेवी अने उपयोगसहित ज्ञानक्रियाकरवी तेनुं नाम सकामनिर्जरा ठे ॥ १६ ॥

सदनुष्ठानरागेण तद्धेतुर्मार्गगामिनां ॥ एतच्च चरमावर्ते नो
जोगादेर्विना नवेत् ॥ १७ ॥ धर्मयौवनकालोयं नवबालद
शापरा ॥ अत्र स्यात्सक्रियारागो न्यत्र चासत्क्रियादरः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ मार्गानुसारी पुरुष शुद्धक्रियानुष्ठानने रागे करी जेकरेते तद्धेतुअनुष्ठानके
वाय तेजे वारें ठे वुं पुजलपरावर्त्तें हे ते वारें जे क्रियाकरे ते अना उपयोगेनकरे माटे एअनु

छानपणतेवारेंजहोय ॥ १७ ॥ ठेलेपुज्जपरावर्त्तंजेवारें तदेतुअनुष्ठानप्रगटे तेवारेंए
धर्मनोप्रावणकाल प्रगट्यो अनेसंसारमावाजदिशाहतितेमटिगइ एमजाणवुं एअनु
ष्ठानेद्युद्धक्रियानोरागउपजेठेअनेपूर्वनात्रणअनुष्ठानेअद्युद्धक्रियानोआदरउपजेठे ॥ १८

जोगरागाद् यथा यूना वालक्रीडाऽखिला द्विये ॥ धर्मयूनस्त
था धर्म रागेणासक्रियाद्विये ॥ १९ ॥ चतुर्थ चरमावर्त्तं तस्मा
धर्मानुरागत ॥ अनुष्ठान विनिर्दिष्टं बीजादिकमसंगतं ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेमयुवानपुरुष जोगनोविलासी थायठे नेवालक्रीडाथी लजवायठे ते
मधर्मयौवन कालवंतपुरुष धर्मनारागेंकरी युद्धक्रियाथी लजवायठे ॥ १९ ॥ तेमाटे
तेधर्मनाअनुरागथी चरमपुज्जपरावर्त्तंजवली तदेतुनामेचोथोअनुष्ठानकसुठे पणवी
जादिकजेसमकित तेतो असगके० अप्राप्तठे ॥ २० ॥

वीजं चेह जनान् दृष्ट्वा शुद्धानुष्ठानकारिणः ॥ बहुमानप्रशंसा
न्यां चिकीर्षा शुद्धगोचरा ॥ २१ ॥ तस्याएवानुबंधश्चा कलकः
कीर्त्यतेऽकुर ॥ तद्वत्त्वेपणा चित्रा स्कंधकल्पाच वर्ण्यतां ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ इहांसमकेतरूपबीज तो तेवारेंथाय जेवारें युद्धक्रियाकरतांप्राणीने दे
खीने बहुमानप्रशंसाकरे अनेआगमविधिरागेपोतेपण ज्ञानेद्युद्धविधिगोचरहोय तेवा
रेंसमकितउपजेठे ॥ २१ ॥ एतदेतुअनुष्ठाननोअनुबंधजे युद्धप्रणमनते कलंकरहि
तथ्यंकुरकहिये अने तदेतुअनुष्ठाननी खोलकरवी तेनानाप्रकारनो स्कंधकहिये ॥ २१ ॥

प्रवृत्तिस्तेषु चित्रा च पत्रादिसदृशी मता ॥ पुष्पं च गुरुर्यो
गादि हेतुसपत्तिलक्षणं ॥ २३ ॥ नावधर्मस्य संपत्ति र्या च
सदेशनादिना ॥ फल तदत्र विज्ञेयं नियमान्मोक्षसाधका ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ तेमध्येप्रवृत्तबुतेरूप विचित्रप्रकारनापानडा जाणवाअने सजुरुना योगवडे
स्वर्गमांसुखवसपदापामवी तेरूपफूलजाणवा ॥ २३ ॥ जेवारेंगुरुपासे देशनासाजलीने
नावधर्मरूप संपदापामे तेफलकहिये तेफलमोक्षसाधनरूपठे एमजाणवु ॥ २४ ॥

सहजो नावधर्मोहि शुद्धचदनगधवत् ॥ एतज्जन्मनुष्ठा
न ममृतं संप्रचक्षयते ॥ २५ ॥ जैनीमाझां पुरस्कृत्य प्रवृत्तं चि
त्तशुद्धितः ॥ संवेगगर्जमत्यंत ममृतं तद्विदोविद्भुः ॥ २६ ॥

अर्थ ॥ सहजस्वनाविकजे जावधर्मेते तेतोचंदननी सुगंधसमानते तेसहितजेश्च
नुष्ठान क्रियाकरवी तेनुं नाम अमृतानुष्ठानते ॥ २५ ॥ प्रचुनीआज्ञावडे मनशुद्धियें
प्रवृत्ते अनेअत्यंतपणे संवेगगुणोसहितहोय तेनेगणधरादिक अमृतानुष्ठानकहेने २६

शास्त्रार्थालोचनं सम्यक् प्रणिधानं च कर्मणि॥कालाद्यंगा
विपर्यासो मृतानुष्ठानलक्षणं॥२७॥ अयं हि सदानुष्ठानं त्रयम
त्रासदेवच ॥ तत्रापि चरमं श्रेष्ठं मोहोअविपनाशनात् ॥२८॥

अर्थ ॥ जलीरीतेशास्त्रना अर्थनेविचारें क्रियामध्येवीर्यउल्लासधरे पंचमकालना
दोषनगणे अथवाजेकालेजे उचित क्रियाहोयतेक्रियाकरे एलक्षणअमृतानुष्ठानना
जाणवा ॥ २७ ॥ एपांचअनुष्ठानमांठेला वेअनुष्ठानतेरुडांठे अनेप्रथमनात्रण अनुष्ठा
न ते रुडांनथी तेमांपणसर्वथा श्रेष्ठतोअमृतानुष्ठान जाणवुं केमके मोहके ० अज्ञान
तेनुं आकरुंजेविपतेएअनुष्ठान वडेनाशपामेते ॥ २८ ॥

आदरः करणे प्रीति रविग्रसंपदागमः ॥ जिज्ञासा तत्ज्ञसे
वा च सदानुष्ठानलक्षणं ॥२९॥ नेदैर्निन्नं चवेदिता प्रवृत्ति
स्थिरसिद्धिनिः॥चतुर्विधमिदं मोक्ष योजनायोगसंज्ञितं ॥३०॥

अर्थ ॥ क्रियायेंआदरकरतांरागधरे तथाआगमने अतिमोटीसंपदानुमाने वली
जाणवानीइहाकरे जाणनोसंगकरे एशुद्धक्रियानालक्षणते ॥२९॥ तेनापण जुदाजुदा
नेदते? इहा १ प्रवृत्ति २ स्थिरता ३ सिद्धियोग एचारयोगमोक्षनेजोडे माटेयोगकहियें ३ ०

इहा तद्वत्कथाप्रीति युक्ता विपरिणामिनी॥ प्रवृत्तिः पालनं
सम्यक् सर्वत्रोपशमन्वितं ॥३१॥ सत्कृत्योपशमोत्कर्षाद
तिचारादिचिंतया॥रहितं तु स्थिरं सिद्धिः परेपामर्थसाधकं॥३२॥

अर्थ ॥ जेगुरुनोउपदेशसांजली गुरुउपर अनेकथाउपर परमप्रीतिधरे गुणपरणमे
तेनेपहेलो इहायोगकहियें पढेगुरुनाकह्या प्रमाणेसमतायें सहितव्रतपाले क्रियायें
सहितप्रवर्ते तेबीजोप्रवृत्तियोगकहियें ॥ ३१ ॥ जेरुडाह्योपशमना उत्कर्षथी अति
चारनलगाडे अने मनस्थिरपणेप्रवर्ते एत्रीजोस्थिरयोगकह्यो अनेनिरतिचारशुद्ध क्रि
यामांबीजा प्राणीनेजेलवीने तेनोपणअर्थसधावे तेचोथो सिद्धियोग जाणवो ॥३२

जेदा इमे विचित्रा स्युः कृयोपशमजेदतः ॥ श्रद्धाप्रीत्यादियो
गेन ज्व्यानां मार्गगामिनां ॥ ३ ॥ अनुकंपा च निर्वेदः संवेगः
प्रशमस्तथा ॥ एतेषा मनुजावाः स्यु रिहादीनां यथाक्रमं ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ एङ्गादिकयोगनावली विचित्रजेदते कृयोपशमजावना जेदथीते ते
श्रद्धाप्रीतिप्रमुखयोगेकरिने मुक्तिमार्गपामनार ज्व्यजीवने होय ॥ ३३ ॥ १ करुणा
२ वैराग्य ३ संवेग ४ उपशम एअनुक्रमे इङ्गादिकनाचारप्रकारते ॥ ३४ ॥

कायोत्सर्गादिसूत्राणां श्रद्धामेधादिजावतः ॥ इहादियोग
साफल्यं देशसर्वत्रतस्पृशां ॥ ३५ ॥ गुडखंडादिमाधुर्यजेद
वत् पुरुपांतरे ॥ जेदेपीहादिजावानां दोपोनार्थान्वयादिहा ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ कायोत्सर्गादिक आवश्यकसूत्रं श्रद्धापणुंजावथीथाय तोश्रावक त
थासाधुने इङ्गादिकयोग सफलथाय ॥ ३५ ॥ कोइनेगोलमीगोलागेठेअने कोइनेखां
डमीठीलागेठे एरीतेमीठासनास्वादमां जेमनिन्नताते तेमजपुरुपोनी प्रकृतिनिन्ननिन्न
माटे इङ्गादिकयोगनाजेजाव तेनापणजेदते तोपणतेमांकांइ दूपणनथी केमके जे
मशकरादिकनोमीठाश जुदोजुदोठे तोपणमिठाशपणानो अर्थेकजठे मिठासगमे
तेनीहोयपण तेथी मिठाशपणानो अर्थेसरेठे तेमज इङ्गादिकयोगना जोपणजेदते
तोपणतेथकी अर्थजेफल तेएकजमलेठे माटेदूपणनथी एमजाणवुं ॥ ३६ ॥

येषां नेहादिलेशोपि तेषां त्वत्समर्पणे ॥ स्फुटोमहामृपावाद् इ
त्याचार्याः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ उन्मार्गोत्थापनं वाढ मसमंजसकारणे ॥
जावनित्यमिदं तत्वं जनानैर्योगविशिकां ॥ ३८ ॥ त्रिधा तत्सदनुष्ठान
मादेयं शुद्धचेतसा ॥ ज्ञात्वा समयसंज्ञां लोकसंज्ञां विहाय च ॥ ३९ ॥

अर्थ ॥ पणजेने शुद्धअनुष्ठानने विषे इङ्गादियोगनो लेशपणनथी तेवाअयोग्यनरने
जेइङ्गादियोगआपे तेनेप्रगटमृपावाद्नुं पापलागेठे एवुंपूर्वाचार्यकेहेठे ॥ ३७ ॥ जेअ
तिअसमंजस कारणतेनेविषे उन्मार्गस्थापनथायठे माटेयोगविशिका ग्रंथना जाण
पुरुषे एतत्त्वचिंतवीने सदनुष्ठानकरवु एटलेजेमतेमकरियेंतो उन्मार्गनु स्थापनथइ
जाय ॥ ३८ ॥ माटेशुद्धचेतनायें मनवचनकायार्येकरिने सदनुष्ठानसेववा सिद्धांतना स
झावजाणी लोकसंज्ञातजीने शुद्धक्रियाकरवी ॥ ३९ ॥ इतिसदनुष्ठानाधिकारदत्तम ॥

उचितभाचरणं शुभमिच्छतां प्रथमतोमनसः खलु शोधनं ॥
गदवतां ह्यकृते मलशोधने कमुपयोगमुपेतु रसायनं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ अध्यात्मनी शुद्धिकरवामाटे प्रथमथीतो उचितपणे शुभभाचरणनीइ
हाकरवानेमननी शुद्धताकरवी जेमरोगवंतप्राणी मलशोधनकरवाने रेचनीधाविना
रसायनखायतो तेथीतेनेकांडगुणयाचनही केमकेमलजाय तेचारपठिरसायणखाय
तोयुणकरे तेमप्रथममनशुद्धिश्होय तोजअध्यात्मनी शुद्धीथाय ॥ १ ॥

परजने प्रसन्नं किमु रज्यते विपति वा स्वमनोयदि निर्मलं ॥
विरहिणामरतेर्जगतोरते रपिच काविकृतिर्विमले विधौ ॥१॥

अर्थ ॥ हेचेतनजो तारुंमननिर्मलठे तो लोकताहाराउपर रागधरसे अथवा द्वेष
करसे तेयकीताहरे शुंबगामथवानोठे जेमचंडमानिर्मलठे पणतेनाउदयथी विरही
जीवो अथवाचोरलोकोने अरतिउपजेठे अनेजगतनाबीजाजीवोने तेथीआनंदथाय
ठे पणतेथीचंडमाने गुणअथवा अवगुणकांडजयतुंनथी ॥ २ ॥

रुचितमाकलयन्ननुपस्थितं स्वमनसै व हि शोचति मानवः ॥
उपनते स्मयमानसुखः पुनर्नवति तत्र परस्य कि मुच्यतां ॥३॥

अर्थ ॥ रुडीवस्तुमनमांचितवी मनोरथकीधो अनेतेमनोरथ निपनोनही तेवारें
तेप्राणीपोतानामनमां शोकधरेठे अनेजेवारें तेथारेलीवस्तुमलेठे तेवारें खुस्तीथायठे
एहर्षशोकनोकरता आत्मानेएकमनजठे तो बीजायेंमहारुंशारुंनरसुंकसुं एमसुंकहेवुं

चरणयोगघटान्प्रविलोठयन् शमरसं सकलं विकिरत्यधः ॥
चपल एष मनःकपिरुच्चकै रसवणिग् विदधातु मुनिस्तु किं ॥४॥

अर्थ ॥ जेमनतेमांकडाजेवुंठे केमकेतेचारित्रना योगरूपघृतनाघडाने उंधावालेठे
तथासमतारूपीअमृतरसनाघमाने ढोलीनाखेठे एवुंएचपल मनते खरेखरुंवांदरुंठे
तेनीआगलमुनिरूप रसवाणीजनुंकरनार वाणीयुंविचारोशुंकरे ॥ ४ ॥

सततकुट्टितसंयमनूतलो त्यितरजोनिकरैः प्रथयंस्तमः ॥

अतिदृढश्च मनस्तुरगोगुणै रपिनियंत्रित एष नतिष्ठति ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ वलीमुनियेंचारित्रैकरी कर्मरूपीधूलने दावीनाखीहती पणमनरूपीधोमा
यें नित्यकुडीकुडीने संयमरूपनूमीनोतलियुं उखेड्युं तेथीकलुषतारूप रजउमीते

हनासमूहंकरि अज्ञानरूपअधकारथयो एवोअतिआकरो एमनरूपधोमोठे तेश्रुतरू
पीदोरडेबंधायोठतो तोफानकरेठे पणसमोरहेतोतयो ॥ ५ ॥

जिनवचोधनसारमजिन्नुच. कुसुमसायकपावकदीपकः ॥

अहह कोपि मनःपवनो बली शुचमतिद्रुमसंततिजंगकृत् ॥६॥

अर्थ ॥ एककौतुकजुवोके मनरूपीवायुमहाबलवानठे केमके रुडीबुद्धिरूपवृह्ने
नांगीनाखेठे तथा जिनवचनरूप बरासनोचोरठे बली कंदर्परूपअग्नीनोदीपावनारठे ६

चरणगोपुरजंगपरः स्फुर त्समयबोधतरूनपि पातयन् ॥ प्रम

ति यद्यतिमत्तमनोगजः क कुशलं शिवराजपथे तदा ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ बलीमनरूपहाथोठे तेचारित्ररूपनगरना दरवाजानागतोथको पसरठे
सिद्धांतनावोधरूपीवृह्नेपण पाडतोथकोनमेठे एवोमदोन्मत्त मनरूपीहाथी दोमा
दोमकरेठे तेवारेंसाधुने मोह्मार्गेंजतां कुशलतातेक्यांधीहोय ॥ ७ ॥

व्रततरूनप्रगुणीकुरुते जनो दहति छुष्टमनोदहन पुन. ॥

ननु परिश्रम एप विशेषवान् क ञविता सुगुणे पवनोदये ॥८॥

अर्थ ॥ जेसाधुठे तेव्रतरूपीवृह्ने फलीवाडीने चेतनज्ञानअमृतरसवडे सींचीने
नवपल्लवकरेठे पणछुष्ट मनरूपजेअग्नितेबली वाडीनेवालीनाखेठे तोरुडागुणरूपवा
मीमा गुणरूपवायरानेउदये मुनीनीमेनततेकेमकरीने सफलथाय ॥ ८ ॥

अनिगृहीतमना विदधत्परा न वपुषा वचसा च शुचक्रिया ॥

गुणमुपैति विराधनया नया वत इरंतभवभ्रममंचति ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ एकमननो नियहकखाविना वचनेतथाकायायें जेटलीशुचक्रियाकरे ते
उपयोगशून्यतायें अविधियेकरे अनेतेअविधिनोकरनारो तोअवश्यसूत्रनेविपेठकायनो
विराधककह्योठे माटेतेगुणनकरे जेमनशून्ये क्रियाकरनारो तेविराधकठे माटेशून्यक्रि
याकरतो विराधकपणे संसारनेविपेठणो जवजमसे ॥ ९ ॥

अनिगृहीतमनाः कुविकल्पतो नरकमृत्तति तंडुलमत्स्यवत् ॥

इयमजक्षणाजा नहि जीर्णता ऽनुपनतार्थविकल्पकदर्थना ॥१०॥

अर्थ ॥मनवशकिथाविनाजे तपजपकरे वजिमनमां कुविकल्पणथाय तेथीतेतंड
लमठनापरें नरकंपडे एकुविकल्पकरतोथको जो उपवासकरे तपकरेतेथीतेनेमात्र
अजीर्णथाय केमकेअणपाम्याअर्थनो विकल्पकरे तेनीकदर्थनाथजाणेंकारणठे

मनसि लोलतरे विपरीततां वचननेत्रकरेङ्गितगोपना ॥

व्रजति धूर्ततया ह्यनया खिलं निविष्टदं नपरैर्मुपितं जगत् ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जोमनचपलते तोवचनगुप्तिकरेतथानेत्रनेगोपवे इंगितआकारचेष्टाविना काउसगकरे तेसर्वविपरीतजाणवुं तेसर्वधूर्ततापणानेपामे अनेएवीरीतेंधूर्तपणे कपट क्रियानाकरनारा तेमोटाचोरते तेजगतनेखुटनाराते ॥ ११ ॥

मनसएव ततः परिशोधनं नियमतोविदधीत महामतिः ॥

इदमन्नेषजसंवननं मुनेः परपुमर्थरतस्य शिवश्रियः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ तेमाटेमननेनलिरितें निश्चयशकी शोधनकरे तेजपंडितनेमनोशुद्धिरूपचू णते अनेपरमपुरुषार्थनेविषे राताजेमुनि तेनेमुक्तिस्त्रीने वशकरवातुं औषधते ॥ १२ ॥

प्रवचनाब्जविलासरविप्रज्ञा प्रशमनीरतरंगतरंगिणी ॥

हृदयशुद्धिरुदीर्णमदज्वर प्रसरनाशविधौ परमौषधं ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ सिद्धांतरूपकमलने विकसितकरवाने मनशुद्धिते सूर्यकांतिरूपते उपश मरूप जलकल्लोलवधारवाने मनशुद्धितेनदीरूपते वलीपसरतोथको एहवो मदरू पजेताप तेनेटालवाने मनशुद्धितेपरमसुंदर जडीबुटीतुं औषधते ॥ १३ ॥

अनुचवामृतकुंडमनुत्तर व्रतमरालविलासपयोजिनी ॥ स

कलकर्मकलंकविनाशिनी मनसएव हि शुद्धिरुदाहता ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ वलीमनशुद्धिते अनुचवनो मोटोअमृतकुंडते तथाचारित्ररूपहंसने रम वाने कमलनीते अनेसर्वकर्मकलंक हरवाने अग्निसमान मनशुद्धीनेकहीते ॥ १४ ॥

प्रथमतो व्यवहारनयस्थितो ऽशुचविकल्पनिवृत्तिपरो भवेत् ॥

शुचविकल्पमयव्रतसेवया हरति कंटक एव हि कंटकं ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ प्रथमथी व्यवहारनयेरह्यो एहवोजेपुरुषते अशुचविकल्पनी निवृत्तिजे नाशकरवुं तेनेविषे तत्परशने शुचविकल्पमयजेव्रत तेनीसेवाकरे तेथीअशुचपणुं टलीजाय जेमकांटावडे कांटोनीकलीजायते तेनीपरें ॥ १५ ॥

विषमधीत्य पदानि शनैः शनैर्हरति मंत्रपदावधि मांत्रिकः ॥

भवति देशनिवृत्तिरपि स्फुटा गुणकरी प्रथमं मनसस्तथा ॥ १६ ॥

अर्थ जेममंत्रवादीपुरुष मंत्रपदसमाप्तीसुधी मंत्रनाशब्ध धीमेधीमे मनमांजणे प णसर्पनाविपनेटाले तेमजेदेशथी निवृत्तिकरेतेपणप्रगटपणेप्रथम मननेगुणकारीथाय

स्फुटमसद्विषयव्यवसायतो लगति यत्र मनो ऽधिकसौष्टवात् ॥
प्रतिकृतिः पदमात्मवदेव वा तदवलंबनमत्र शुभ मतं ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ जेदेखतो ज नवलोज्यनेछडो एहबुजेविषय तेनाव्यापारथी जेनरतुंचित्तघणी
चतुराश्या जेवस्तुनेविपेलागे तेवस्तुआत्मानेसाथे जोडीये तेवारे तेतुंप्रतिविविनासे
पणते आत्मधर्मनही तोपणअध्यात्मरीते तेतुंजअवलंबन रुकुंकखुठे ॥ १७ ॥

तदनु काचन निश्चयकल्पना विगलितव्यवहारपदावधि ॥
न किमपीति विवेचनसंमुखी न्वति सर्वनिवृत्तिसमाधये ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ पठीकांइक निश्चयकल्पनाथइ अने व्यवहारपदनीमर्यादागलितथयी एगो
हंनथिमेकोई एवीवैचणनेचेतनासन्मुखथयी तेवारे सर्वनिवृत्तिरूपसमाधियाय ॥ १८ ॥

इह हि सर्ववह्निर्विषयच्युतं हृदयमात्मनि केवलमागतं ॥
चरणदर्शनबोधपरंपरा परिचितं प्रसरत्यविकल्पक ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेवारे सर्व वाह्यविषयथीरुदयस्वस्तुं तेवारेपोताना आत्मानेविपे केव
लएकज ज्ञान दर्शन चारित्रनाबोधनी परपराजे आत्मकुटुंबठे तेनोमिलापते नि
विकल्पपरें पसरे ओलखाणथाय एमजाणवुं ॥ १९ ॥

तदिदमन्यङ्गैत्यधुनापि नो नियतवस्तुविलास्यपि निश्चयात् ॥
क्षणमसंगमुदेतिनिसर्गधी हंतवह्निग्रहमंतरुदात्ता ॥ २० ॥


अर्थ ॥ निश्चयनययकी एअत्माते खरीशुइवस्तुनो विलासीठे तेमाटे हमणा अ
न्यजे रागडेपादिजाव तेनेनपामे चलीक्षणमात्रपण जेपरपुज्जादिकनोसगनकरे एवी
स्वभाविकबुद्धि जेनेथइ तेथीवाह्यजाव ह्यो अनेअंतरग उल्लेखजावने पाम्यो ॥ २० ॥

कृतकपायजयः सगर्भीरिम प्रकृतिशांत मुदात्तमुदारधी ॥
समनुगृह्य मनोनुभवत्यदो गलितमोहतमः परमं महः ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ एहवोजेगंनर स्वभाववालो जेऐकपायनो जयमेलव्योठे अनेजेनीबुद्धि
मोटीठे अनेस्वभावे शातठे तेजोसम्यक्प्रकारे मननोनियहकरे तोतेथीमोहांध
कारनेगालीने परम महातेजस्वीपणाने तेप्राणीजरु अत्रुभव पामे ॥ २१ ॥

गलितलुष्टविकल्पपरंपरं धृतविशुद्धिमनो न्वतीदृशं ॥ धृतिमु
पेत्य ततश्च महामतिः समधिगच्छति शुभ्रयश श्रियं ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ जेणे माताविकल्पनी श्रेणीटालीठे अनेजेणेविद्युत्तानुं ग्रहणकीधुंठे
ते मनोशुद्धिनेपामे अनेतेवली संतोषीपणानेपामिने तेपंडितपुरुष उज्वलयशरूपल
क्ष्मी अथवा यशशोचानेपामे ॥२२॥ इतिमनशुद्धिनामा एकादशोधिकारः समाप्तः



इतिश्रीपंडित यशोविजयेन विरचितेअध्यात्मसारप्रकरणे
तृतीयःप्रबंध ॥ २७ आठमाना २९ नवमाना ३९ दस
माना २२ इग्यारमाना सर्वश्लोक ११७

मनशुद्धिश्च सम्यक्त्वे सत्येव परमार्थतः ॥ तद्विना मोहगर्जा सा
प्रत्यपायानुबंधिनी ॥ १ ॥ सम्यक्त्वसहिता एव शुद्धा दानादि
काः क्रियाः ॥ तासां मोक्षफले प्रोक्ता यदस्य सहकारिता ॥१॥

अर्थ ॥ एपूर्वमनशुद्धिकही तेजोसमकितगुणहोयतो निश्चं मनशुद्धि केवाय प
णसमकितविनाजे मनशुद्धिमाने तेमोहगर्जितहोय एटलेअज्ञान सहितहोय तेतो
उलटीकष्टबंधन करनारीठे माटेहवेसमकेतनुं अधिकारकहेठे ॥ १ ॥ दानादिके
क्रियापण समकितसहितहोय तोजशुद्धते तेक्रिया मोक्षफललेवाने सहायकारकठे

कुर्वाणोपि क्रियां ज्ञाति धनजोगांस्त्यजन्नपि ॥ दुःखस्पोरोददा
नोपि नांधोजयति वैरिणं ॥३॥ कुर्वन्निर्वृतिमप्येवं कामजोगां
स्त्यजन्नपि ॥ दुःखस्पोरोददानोपि मिथ्यादृष्टिर्न सिध्यति ॥४॥

अर्थ ॥ जेमआंधलो वैरीनेजीतीशकतोनथी तेमक्रियाकरेठे न्यातिधननो जोग
तजेठे दुःखसहेठे कायानेकष्टआपेठे पणएसर्व समकितविना व्यर्थजायठे ॥ ३ ॥
जोसंतोषधरे कामजोगठोडे कायानेकष्टआपे पणमिथ्यात्वथको मुक्तीनेपामेनही४॥

कनीनिकेव नेत्रस्य कुसुमस्येव सौरजं ॥ सम्यक्त्वमुच्यते सारः
सर्वेषां धर्मकर्मणां ॥५॥ तत्वश्रद्धानमेतच्च गदितं जिनशास
ने ॥ सर्वे जीवा न हंतव्या सूत्रे तत्वमितीष्यते ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेमआंखमां कोकीसारचूतठे फूलमांसुगंध सारचूतठे तेमसर्वधर्मक्रिया

मां समकितते सारजूतकसुते ॥ ५ ॥ जिनशासननेविपे जेतत्वनीश्रदाकरवीतेहने
समकितकसुते अनेकोऽपणजीवने हणवोनही तेनेसूत्रमां तत्वकसुते ॥ ६ ॥

शुद्धोधर्मोयमित्येत धर्मरुच्यात्मकं स्थितं॥शुद्धानामिदमन्या
सां रुचीनामुपलक्षणं ॥ ७ ॥ अथवेदं यथातत्त माङ्गयैव तथा
ऽखिलं ॥ नवानामपि तत्वाना मितिश्रद्धोदितार्थत ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जेगुद्धधर्मते एधर्मरुचिनामा समकितनेज कहिये अनेएमध्ये उपलक्ष
णथी बीजीपणगुद्धपदार्थनीरुचिउपगटेते ॥ ७ ॥ अथवाएसमकितते जेमप्रभुआज्ञा
रूप तत्त्वंप्रगटेते तेतत्वतोजीवादिकनवप्रकारेंते तेनीजेश्रद्धा तेसमकितजाणवु ॥ ८ ॥

इद्वैव प्रोच्यते शुद्धा ऽहिंसा वा तत्वमित्यत ॥ सम्यक्त्वं दर्शितं
सूत्र प्रामाण्योपगमात्मकं ॥ ९ ॥ शुद्धाऽहिसोक्तित्सूत्र प्रामाण्यं
ततएव च ॥ अहिंसा शुद्धीरेव मन्योन्याश्रयचीर्न तु ॥ १० ॥

अर्थ ॥ वलीइहां तत्वते अहिंसारूप गुद्धतत्वते तेतत्वगुद्धाचारप्रमाणे विचा
रियें तेवारे आत्माने अनिन्नस्वरूपें समकितदेखाड्युंते ॥ ९ ॥ अने गुद्धिअहिंसाकही
ते सूत्रंप्रमाणते एवेहुनीमात्रवचनेजजुटाइते तेमाटेएकअहिंसा तथाबीजीतत्वगु
द्धि एवेहुने माहोमाहें मेलवतां दूषणनथी एकस्वरूपेंते ॥ १० ॥

नैव यस्मादहिंसायां सर्वेपामेकवाक्यता ॥ तद्गुद्धतावबोधश्च
संज्ञवादिविचारणात् ॥ ११ ॥ यथा ऽहिंसादयः पंच व्रत धर्म
यमादिभिः ॥ पदैः कुशलधर्माद्यैः कथ्यंते स्वस्वदर्शने ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ केमके अहिंसानेविपे सर्वनी एकवाक्यतानथी तोपणविचारीजोता गुद्ध
अवबोध जणायते ॥ ११ ॥ जेमअहिंसादिक पाचव्रततेधर्मते तेमसर्वपोतपोताना
दर्शननेविपे कुशलथकाधर्मआदेवेइ यमादिकपदैकरिने व्रतकहेते ॥ १२ ॥

प्राहुर्जावव्रतास्तत्र व्रतोपव्रतपंचकान् ॥ यमांश्च नियमान् पाशु
पतान् धर्मान् दशाज्यधु ॥ १३ ॥ अहिंसा सत्यवचन मस्तेन्य वा
प्यकल्पना ॥ ब्रह्मचर्यं तथा क्रोधो ह्यार्जवं शौचमेव च ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ तेमांजावव्रतवाला एमबोलेते के पांचव्रतअने पाचउपव्रत मलीनेवस
ते एमपाशुपतमतवाला दसप्रकारें धर्मदिशा मानेते तेयमनियमादिक दस कही

वतावेते ॥ १३ ॥ दया सत्यवचन अचोरी बाह्यकल्पना अनेब्रह्मचर्य एपांचयम
तथाअक्रोध सरलता शौच संतोष गुरुसेवा एपांचनियमजाणवा ॥ १४ ॥

संतोषो गुरुशुश्रूषा इत्येते दश कीर्तिताः॥निगद्यते यमा सांख्यै
रपिव्यासानुसारिभिः ॥ १५ ॥ अहिंसा सत्यमस्तैन्यं ब्रह्मच
र्यं तुरीयकं ॥ पंचमो व्यवहारश्चेत्येते पंच यमाः स्मृताः ॥१६॥

अर्थ ॥ एदशधर्मदशाकेवाय हवेवेदव्यासना मतानुसारी सांख्यमतवालापणयम
नियमएमकहेते ॥ १५ ॥ दया सत्य अचोरी ब्रह्मचर्य व्यवहार एपांच यमजाणवा १६

अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवं ॥ अप्रमादश्च पंचेति
नियमाः परिकीर्तिताः ॥ १७ ॥ बौद्धैः कुशलधर्माश्च दशेष्यंते य
दुच्यते ॥ हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशुन्यं परुषानृतं ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ अक्रोध गुरुसेवा शौच अल्पआहार अप्रमाद एपांचनियमकह्यांते ॥
१७ ॥ अनेबौद्धदर्शनमांजेकुशलते तेधर्मवाला पणदशप्रकारेकहेते तेमकहियेठैये
हिंसा चोरी कंदर्प चाडी कठोरवचन अने जुतुंबोलवुं ॥ १८ ॥

संनिन्नालापव्यापाद मन्निध्यादृग्विपर्ययं ॥ पापकर्मैति दश
धा कायवाङ्मनसै स्त्यजेत् ॥१९॥ ब्रह्मादिपदवाच्यानि ता
न्याहुवैदिकादयः॥अतः सर्वैकवाक्यत्वा धर्मशास्त्रमदोर्थकं ॥२०॥

अर्थ ॥ जेमतेमबकवुं मारवुं अब्रह्मसेववुं दृष्टिविपर्यास एदशप्रकारे पापकर्मते
मन वचन अनेकाया एत्रणेयोगेकरील्यजवा ॥ १९ ॥ अने वैदिकादिकमतवालाजेते
तेपणब्रह्मादिपद बोलेते जेसर्वत्रब्रह्मपदते एथीएसर्वधर्मवालांना एकवचनते माटे
सार्थकपणे सर्वनेधर्मशास्त्रकहिये ॥ २० ॥

कचैतत्संज्ञवोयुक्त इति चिंत्यं महात्मना ॥शास्त्रं परीक्षमाणेना
व्याकुलेनांतरात्मना ॥ २१ ॥ प्रमाणलक्षणादेस्तु नोपयोगो
त्र कश्चन ॥तन्निश्चये ऽनवस्थाना दन्यथार्थस्थिते र्यतः॥२२॥

अर्थ ॥ तेमाटेएसर्वदर्शननोसंज्ञवकिहां ठेकाणेते एममोटा पुरुषेचिंतववुं तेशा
स्त्रनी परीक्षावालाये विचारवुं तेवलीअव्याकुलपणे अंतरात्मावडे विचारवुं ॥२१॥
इहांप्रमाणलक्षणादिकथकी कशोएउपयोग कार्यकारीनथी जिहांअन्यथा अर्थउपजे
एदजेतेधर्म जुदोथइजाय अनेधर्मतो एकस्वनावरूपते ॥ २२ ॥

प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः ॥ प्रमाणलक्षणस्यो
क्तौ ज्ञायते न प्रयोजनं ॥१३॥ तत्रात्मानित्यएवेति येषामेकांत
दर्शनं ॥ हिंसादयः कथं तेषां कथमप्यात्मनोव्ययात् ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ अनेचारप्रमाणतो प्रति-क्षते व्यवहारपणतेजकखोठे माटेप्रमाण तथा
लक्षणनीयुक्तीविषे प्रयोजनजणतुनथी ॥ १३ ॥ तेमध्येवेनयेकरी आत्मानित्यजठे
एवुंएकांतमतवाजातुं कहेवुंठे तेनेमतेतोहिंसादिकनथी केमके आत्माअविनाशीठे
तेकोश्वारेमरेनही अनेमरेनही तेवारेहिंसापणशानी ॥ १४ ॥

मनोयोगविशेषस्य ध्वंसोमरणमात्मनः ॥ हिंसा तच्चेन्न तत्स्य
सिद्धिरार्थसमाजतः ॥१५॥ नैति बुद्धिगता इ खो त्पादरूपेयमौ
चिती ॥ पुंसि जेदाग्रहात्तस्याः परमार्थोऽव्यवस्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ सघलेमरणे मनोयोगनाशपामेठे तेवारेलोककहेठेके जीवमुबो पण आ
त्मातो मरतोनथी माटेतत्वयकी आत्मानीहिंसानथी एअर्थयठमानठे एमकहेठे
॥ १५ ॥ कोइजाणजे आगल इ.खत्रपजावानीजेवुद्धितेहनेहिंसाकहिये पणएवात
योग्यनथी केमकेतमे बुद्धिनेतो पुरुषनेदआग्रहयकी आत्माथीनिन्नमानोठो तेथी
पण आत्मानीहिंसानथय केमकेपरमार्थे बुद्धिने आत्मासाथे व्यवस्थानथी ॥ १६ ॥

न च हिंसापदं नाशपर्यायं कथमप्यहो ॥ जीवस्यैकांतनित्यत्वे
नुन्नवावाधकं नवेत् ॥ १७ ॥ शरीरेणापि संबन्धो न तद्योगावि
वेचनात् ॥ विभुत्वेनैव संसारः कल्पितः स्यादसंशयं ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ एकातेनित्यपणे जीवनोनाशयवानोजे पर्याय तेहिंसापदकहेवाय तेहने
अहोइति आश्रय अतुनवअवाधकपणेनहोयसुं होयजइतिकाकोक्ति ॥ १७ ॥ नि
त्यपणे शरीरेकरीने पण संबंधनथी केमके तेनायोगनी वेहेंचणनथी माटेसशयर
हितपणे ईश्वरवमेकरीनेज ईश्वरकर्ता इत्यादिकसंसारकटपोठे ॥ १८ ॥

आत्मक्रियां विना च स्यान्मितानुग्रहणं कथं ॥ कथं संयोगनेदा
दि कल्पनाचापि युज्यते ॥ १९ ॥ अट्टाद्देहसयोगः स्यादन्यत
रकर्मजः ॥ इत्तं जन्मोपपत्तिश्चेन्न तद्योगविवेचनात् ॥ २० ॥

अर्थ ॥ एकआत्मक्रियाविना एटले आत्माना व्यापारविना परिमितपरमाणुं

ग्रहण केमथाय वली संयोगवियोगादिकनी कल्पनापणकेमघटे ॥ ३१ ॥ एमसांजली
ने कोइबोव्योके हरकोइकर्मथी पूर्वसंस्कारदिवाविना शरीरनोसंयोगथायठे तेनोउत्तर
आपेठे एमजन्मनी उत्पत्तिते जीवनाव्यापारविना वेचणविनाथायनही इतिनावार्थ

कथंचिन्मूर्त्ततापैति विना वपुरसंक्रमान् ॥ व्यापारयोगतश्चैव
यत्किंचित्तिदिदं जगुः ॥ ३२ ॥ निःक्रियोऽसौ ततोहंति हन्यते वा
न जातुचित् ॥ किंचित्केनचिदित्येवं न हिंसास्योपपद्यते ॥ ३३ ॥

अर्थ ॥ शरीरनेसंयोगेतो जीव कांइकरूपीपणुंपामेठे जोशरीरनो संक्रमनहोयतो जे
कांइठे तेइहांकहेठे ॥ ३२ ॥ जेणेआत्मात्यागीकीधोठे तेएमकहेठेके आत्माक्रिया
रहितठे माटेकोइनेहणतोनथी तेमकोइकालें कोइथीहणातोपणनथी एवुंजेनाचित्त
मांठे तेहिंसानहीमाने ॥ ३३ ॥

अनित्यैकांतपक्षेपि हिंसादीनामञ्जवः ॥ नाशहेतोरयोगेन
हृणिकत्वस्य साधनात् ॥ ३३ ॥ च संतानजेदस्य जनकोहि
सकोजवेत् ॥ सांवृतत्वादजन्यत्वात् चावत्वनियतं हि तत् ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ एमएकांते अनित्यवादिनेपक्षें हिंसानथीमनाती केमके तेसर्वपदार्थ
हृणरूपमानेठे माटेआत्माहृणमां नाशरूपठे तेपोतानीमेलेजमरेठे तेवारेंमारनार
हेतुकोइनथी माटेहिंसानथीज ॥ ३३ ॥ पुत्रपुत्रीप्रमुखनो कोइवापनथी तेमकोइ
मारनारपणनथी एजगतसर्वहृणिकचावनोनियमठे अनित्यठे माटेकोइ प्रगटकरना
रनथी तेवारेंपिताकोनो अनेपुत्रकोनो ॥ ३४ ॥

नरादिःहृणहेतुश्च सूकरादेर्न हिंसकः ॥ सूकरांत्यहृणेनैव व्य
ञ्चिचारप्रसंगतः ॥ ३५ ॥ अनंतरहृणोत्पादे बुधलुब्धकयो
स्तुला ॥ नैवं तद्विरतिः कापि ततः शास्त्राद्यसंगतिः ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ मनुष्यहृणमात्रठे अनेपठेसुअरनामरणने अंतकालनाहृणमां तेमनु
ष्यनथी मांटेसूअरने मारनारकोणठे एहवाबोजनारनेपणप्रसंगथी व्यञ्चिचारआवे
ठे ॥ ३५ ॥ तथासूअरनेमाचुं अनेमरणनेबीजेसमयें ज्ञानीतथाआहेडी एवेसरिवाठे
सूअरमरणपाम्युं तेएवेजणेजाण्युं माटेहवे एवेमांथीकोइने मारवानीमतिनथी ते
माटे मारनारतथाभरनार सर्वनीहृणेहृणे उत्पत्ति तथा मरणठेपण कोइहृणे कांइ
विरतिनथी एमकहेठे एमतवालाना शास्त्रपणजुवांठे ॥ ३६ ॥

घटतेन विनाऽहिंसां सत्यादीन्यपि तत्ततः॥ एतस्यावृत्तिभूतानि
तानि यन्नगवान् जगौ ॥३७॥ मौर्नाडे च प्रवचने युज्यते सर्वमे
व हि ॥ नित्यानित्ये स्फुटं देहा जिन्नाजिन्ने तथात्मनि ॥ ३७ ॥

अर्थ ॥ केमकेअहिंसाविना सत्यादिकधर्मपण घटेनहीं अनेसत्यादिक धर्मजेठे ते
जीवदयारूपक्षेत्रनी वाढीठे एवुंकेवलीकहेठे ॥ ३७ ॥ जिनशासननेविपे तोएसर्वघट
मानठे शरीरथी प्रगटपणेनित्यठे वलीअनित्यपणठे तेमज जिन्नाजिन्नपणुंठे तथा
एकपणुंठे अनेअनेकपणुंपणठे वलीआत्मानेविपेपण तेमजकहेवुं ॥ ३७ ॥

आत्मा ज्व्याथेतोनित्यः पर्यायार्थादिनश्वरः ॥ हिनस्तिहन्यते
तत्तत्फलान्यप्यधिगच्छति ॥ ३९ ॥ इहचानुभवः साक्षी व्यावृ
त्यान्वयगोचरः ॥ एकांतपक्षपातिन्यो युक्तयस्तु मिथोहताः॥४०॥

अर्थ ॥ आत्माज्व्याथिकनयेनित्यः अनेपर्यायार्थिकनये अनित्यठे एजीवकोइ
नेहणेठे अथवा कोइजीवनेहणेठे तेनाफलपरनवमां आत्मानोगवेठे ॥ ३९ ॥ ए
जैननेशीलें अन्वय अनेव्यतिरेक एवेगुणैसहित एवोजेअनुभव तेसाक्षीकरतांथका
एकांतमतवालानी युक्तीओ माहोमांहे हणाइजायठे ॥ ४० ॥

पीमाकर्तृत्वतोदेह व्यापत्या इष्टजावतः ॥ त्रिधा हिंसागमे प्रो
क्ता न हीत्तमपहेतुका ॥ ४१ ॥ हंतुर्जाग्रति को दोषो हिंसनी
यस्य कर्मणि ॥ प्रसक्तिस्तदजावे चा न्यत्रापीति मुधावचः ॥४२॥

अर्थ ॥ पीमाकरवाथी देहपीमाथी इष्टजावथी एवात्रणप्रकारनीहिंसा सिद्धांत
मांकहीठे तेकांइच्छुवीनथी ॥ ४१ ॥ जेप्राणीनु स्वतकर्मनो उदयथयेथके मृत्युय
युं तोतेनाहणनारने शोदोपठे एटजेहिंसानयइ अनेजेहणाणो तेनाकर्मउदयआव्या
तेतेणेजोगव्यातो तेमांशोहिंसाठे केमकेजेजीवने मरणनोउदयहाजनथी तेनेमारियें
तोपण तेकांइमरतोनथी माटेहिंसाकोइनीथतीनथी एवुंजेमानेठे तेमिथ्याठे ॥४२॥

हिंस्यकर्मविपाकेस्य इष्टाशयनिमित्तता ॥ हिंसकत्वं न तेने
द्वैधस्य स्याजिपोरिव ॥४३॥ इत्तं सइपदेशादे स्तन्निरुत्ति
रपि स्फुटा ॥ सोपक्रमस्य पापस्य नाशात्स्वाशयवृद्धितः ॥४४॥

अर्थ ॥ केमकेजेप्राणीनामनमां इष्टआशयनोनिमित्तठे तेनेएहिंसाठे अनेहिंसा

नाकर्मविपाकपण तेनेजठे जोवैद्यनेऔषधकरतां इष्टचित्तहोय तोतेऔषधशत्रुसरखुं
थाय अनेतेवैद्यनेपणहिंसकपणुंलागे अनेजोवैद्यनुंमननिर्मलठे तोवैद्यनेहिंसकपणुं
नलागे ॥ ४३ ॥ एवासजुरुना उपदेशसांजलवाथी हिंसानीनिवृत्तिप्रगटपणेथाय नि
र्मलचित्तना आशयनीवृद्धिषकी सोपक्रमीजे निकाचितबांधेलापाप तेनोनाशथायठे.

अपवर्गतरोवीजं मुख्या हिंसेयमुच्यते ॥ सत्यादीनि व्रतान्यत्र
जयंते पक्ष्वा नवाः ॥४५॥ अहिंसासंज्ञवश्रेष्ठं दृश्यतेऽत्रैव शा
सने ॥ अनुबंधादिसंशुद्धि रप्यत्रैवास्ति वास्तवी ॥ ४६ ॥

अर्थ ॥ जेअहिंसाते मोक्षरूपवृक्षनुंबीजकहियें अनेसत्यादिकजेव्रतठे तेमोक्षरू
पवृक्षना नवपक्षवअंकुराठे ॥४५॥ तेतोआजिनशासनमां जीवदयानो अहिंसकपणा
नुं संज्ञवजोवामांआवेठे अनेवलीअनुबंधहिंसा तथा हेतुहिंसा अनेस्वरूपहिंसा एत्र
एजातनीजे हिंसातेनीशुद्धि तेपणआजिनशासनमांज वसीरहीठे ॥ ४६ ॥

हिंसाया ज्ञानयोगेन सम्यग्दृष्टेर्महात्मनः ॥ तप्तलोहपदन्यास
तुल्याया नानुबंधनं ॥४७॥ सताम्यस्याश्च कस्याश्चिद् यतना ज्ञ
क्तिशालिनां ॥ अनुबंधोह्यहिंसाया जिनपूजादिकर्मणि ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ मोटाप्राणीजे सम्यग्दृष्टितेने ज्ञानयोगेंकरीवरतेठे पणअविरतें हिंसा
लागेठे तेकेवीठे जेमतपाव्युंएवुंजेलोहुं तेउपरपगमुकीकोड्चाले पणबलवानेचयें नि
शंकपणें पगठरावेनही तेमसमकेतिपण निशंकपणेहिंसानकरे अनेतेमाटेज नरक
नोबंधपणकरेनही ॥ ४७ ॥ तेमरुडाजयणावंत जीवनेज्ञानयोगेंकरी जिनपूजाकर
ता अहिंसाजेदया तेनोअनुबंधठे केमकेएपूजातेपरंपरायें मूक्तिफलनी आपनारीठे

हिंसानुबंधिनी हिंसा मिथ्यादृष्टेस्तु दुर्मतेः ॥ अज्ञानशक्तियोगे
न तस्याहिंसापि तादृशी ॥ ४९ ॥ येन स्यान्निन्द्वादीनां दिवि
पहुर्गतिः क्रमात् ॥ हिंसैव महती तिर्यङ् नरकादिज्जवांतरे ॥५०॥

अर्थ ॥ पणनरकगतिनोबंधपडे एवीजेहिंसाते मिथ्यात्वीदुर्मतिनेहोय अज्ञानने
योगेंकरी तेमिथ्यात्वीजो जीवदयापाले तोतेपण हिंसाजेवीजजाणवी ॥ ४९ ॥ जे
कारणमाटे निन्द्वादिक जम्मालीप्रमुखेपण जीवदयापालीठे तोपणअज्ञानोदय
नायोगें स्वर्गमांपण दुर्गतिपास्याठे अनेहेमरूपठे माटेनिन्द्वादीजे अहिंसाते परमा
र्थें हिंसानाजफलआपे केमके ज्जवांतरे तेमने तिर्यचनरकादिकनीगति प्रगटेठे ॥५०॥

साधूनामप्रमत्तानां सा चाऽहिंसानुबंधिनी ॥ हिंसानुबंधवि
वेदा क्रुणोत्कर्षो यतस्ततः ॥५२॥ मुग्धानामियमज्ञत्वात् सानुवं
धा न कर्हिचित् ॥ ज्ञानो जेकाप्रमादाप्या मस्या यदनुबंधनं ॥५३॥

अर्थ ॥ अप्रमत्तसाधु जेसातमांगुणगणावाला तेनेजेहिंसाते तेअहिंसानुबंधीते
केमके हिंसानोअनुबंध विवेदयथायकी जिहांतिहांथकी गुणनोउत्कर्षथायते ५२
पण एअहिंसाते अज्ञानपणे नोलाप्राणीने कदापिकालें सुखदायकनथी एटलेएअनु
बंधसहितनथाय पणअप्रमत्त साधुने ज्ञानसहितजेअहिंसा अथवाहिंसाते अनुबंधें
अहिंसाजंकहियें केमके एपरंपरायें मोक्षसुखनुंकारणते माटे ॥ ५३ ॥

एकस्यामपि हिंसाया मुक्तं सुमहदंतरं ॥ जाववीर्यादिवैचित्र्या
दहिंसायां च तत्तथा ॥५३॥ सद्यः कालांतरे चैत द्विपाकेना
पि चिन्नता ॥ प्रतिपक्षांतरालेन तदा शक्तिनियोगतः ॥ ५४ ॥

अर्थ ॥ एकजोहिंसानेविपें पण जेममोटोअंतर देखाडयोते तेमजाववीर्यना
वैचित्र्यपणाथकी अहिंसानेविपेपण तेमजजाणुं ॥५३॥ प्रतिपक्षपणे अंतरालेंकरी
अथवातेशक्तिनेयोगेंकरी तत्काल अथवाकालांतरे एविपाकेकरीने पणचिन्नताते ५४

हिंसाप्युत्तरकालीन विशिष्टगुणसंक्रमात् ॥ त्यक्ताविध्यनुबंध
त्वा दहिंसैवातिन्नक्तिः ॥ ५५ ॥ इदग्भंगशतोपेता ऽहिंसा य
त्रोपवर्ण्यते ॥ सर्वंशिपरिशुद्धं त त्प्रमाणं जिनशासनं ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥ जेहिंसाते तेपणजो उत्तरकालें विशिष्टगुणप्रगटे तथाअविधिनो अनुबंध
थ तज्याथी एहेतुमाटे अत्यंतनक्तियकी प्राणीने अहिंसारूपज फलदायकथायते
॥ ५५ ॥ एरीतेंसेकडागमे भंगजालसहित जिहांअहिंसानेवर्णवियें तेतोसर्वांशें छु-
एवुंजेजिनशासन तेमांजप्रमाणते ॥ ५६ ॥

अर्थोयमपरोनर्थ इति निर्धारणं हृदि ॥ आस्तिक्यं परमं चिन्हं
सम्यक्त्वस्य जगुर्जिनाः ॥ ५७ ॥ शमसंवेगनिर्वेदा नुकंपाजिः
परिष्कृतं ॥ दधतामेतदतिन्नं सम्यक्त्वं स्थिरतां व्रजेत् ॥५८॥

अर्थ ॥ एहिंसा तेजअर्थते अनेवीजासर्वअनर्थते एप्रकारेंजेना मनमांधारणाते
एहवी परमआस्ताप्रगटे तेआस्ताश्रक्षरूप समकितनुंचिन्हते एवुंप्रभुयें कसुंते ५७

समता संवेग निवेद्य अनुकंपा एलक्षणे रुमीरीतं अविठ्ठन्नपणे धरतांथकां सम
कितजेठे तेस्थिरतापणानेपामे ॥ ५७ ॥ इतिसम्यक्ताधिकारः द्वादशसमाप्तः

मिथ्यात्वत्यागतः शुद्धं सम्यक्त्वं जायतेऽग्निना॥ अतस्तत्परिहारा
य यतितव्यं महात्मना ॥१॥ नास्ति नित्यो न कर्ता च न जोक्ता
त्मानं निर्वृतः॥ तदुपायश्च नेत्याहु मिथ्यात्वस्य पदानि षट् ॥ १॥

अर्थ ॥ तेजेवारें मिथ्यातनोनाशथाय तेवारेंजीवने समकेतप्रगटे माटे मिथ्यात
टालवानो रुडाप्राणीयें उद्यमकरवो ॥ १ ॥ आत्मानथी आत्मानित्यनथी कर्तानथी
जोक्तानथी सिद्धनथी तेसिद्धताप्रगटकरवानो उपायनथी एठपदमिथ्यातनाठे ॥१॥

एतैर्यस्मान्नवेद्वद्व व्यवहारविलंघनं ॥ अयमेव च मिथ्यात्व
ध्वंसी सद्गुणदेशतः ॥ ३ ॥ नास्ति त्वादिग्रहेनैवो पदेशो नोप
देशकः ॥ ततः कस्योपकारः स्यात्संदेहादिव्युदासतः ॥४॥

अर्थ ॥ एपदवडेकरी पूर्वाचार्यनाव्यवहार उलंघायठे जोपायठे एजमिथ्यात्वठे
अनेतेसद्गुरुना उपदेशथकी नाशपामेठे ॥३॥ एठपदरूपीकुग्रहेनड्याथका जेउपदे
शथापे तेउपदेशनकहियें तेथीकोनेउपकारनथाय मिथ्यात्वीनाउपदेशेंसंदेहटलेनही

येषां निश्चय एवेष्टो व्यवहारस्तु संगतः ॥ विप्राणां म्लेहज्ञा
षेव स्वार्थमात्रोपदेशनात् ॥५॥ यथा केवलमात्मनं जना
नः श्रुतकेवली ॥ श्रुतेन निश्चयात्सर्वं श्रुतं च व्यवहारतः ॥६॥

अर्थ ॥ जेमब्राह्मणने म्लेहज्ञाषाबोलवानीमनाइठे माटेपोतानास्वार्थजेटलीज
बोले तेमजजेहने एकनिश्चयनयजइष्टठे तेहनेव्यवहारनयतो ब्राह्मणनेम्लेहनीजाषा
नाउपदेशनीपरें स्वार्थवास्तु संगतमात्रठे ॥ ५ ॥ जेमश्रुतकेवली व्यवहारथीश्रुतजाणे
अनेसर्वनिश्चयनयवडे श्रुतज्ञानेकरीश्रुतकेवली केवलआत्मानेजाणे ॥ ६ ॥

निश्चयार्थोत्र नो साक्षादक्तुं केनापि पार्यते ॥ व्यवहारो गु
णधारा तदर्थोवगमह्वयः ॥७॥ प्राधान्यं व्यवहारेचे तत्तेषां
निश्चये कथं ॥ परार्थस्वार्थते तुल्ये शब्दज्ञानात्मनोर्द्वयोः ॥७॥

अर्थ ॥ इहांनिश्चयअर्थ प्रगटपणेकेवाने कोइसमर्थनथी देखीतो गुणप्रगटे तेरू

पद्मारे निश्चयार्थनीप्राप्ति क्यरूपव्यवहारकेहेवाय ॥ ७ ॥ जेनेकेवलव्यवहारने
विपेज प्रधानपणुठे तोतेनेनिश्चयमाकेमहोय वलीशब्दनयअने ज्ञाननयरूपप्राणी
ने स्वार्थनेपरअर्थ वेतुल्यठे जेशब्दतेव्यवहारठे अनेज्ञानतेनिश्चयठे ॥ ८ ॥

प्राधान्याद्यवहारस्य तत्वमुठेदकारिणां ॥ मिथ्यात्वरूपतैते
पां पदानां परिकीर्तिता ॥ ९ ॥ नास्त्येवात्मेति चार्वाकः प्र
त्यक्षानुपलंभतः॥अहंताव्यपदेशस्य शरीरिणोपपत्तितः॥१०॥

अर्थ ॥ जेव्यवहारनाप्रधानपणाथकी सर्वनोउठेदथाय तेवाप्राणीने मिथ्यात्वरूप
ठपदमां मिथ्यात्वनावथयो एमजाणवुं ॥ ९ ॥ चार्वाकदर्शनवालाकहेठे जेअत्मा
नथी केमकेजो आत्माहोयतो प्रत्यक्षजाणाय तेतोकांइजाणांतोनथी अने अहंकार
एठलेआकार्यहुंकरवुंतेनोजे व्यपदेशठे तेतोशरीरं करीनेजाणायठे ॥ १० ॥

मद्यंगेज्योमद व्यक्तिः प्रत्येकमसती यथा॥मिलितेज्योहि चूतेज्यो
ज्ञानव्यक्तिस्तथा मता ॥११॥ राजरंकादि वैचित्र्य मपि नात्मवला
हितं ॥ स्वात्नाविकस्य जेदस्य ग्रावादिष्वपि दर्शनात् ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जेममहुडातथापाणीप्रमुख मदिरानाअंगठे पणतेप्रत्येकमां मदिरानीश
क्तिनथी जेवारंजेगांमले तेवारंजशक्तिप्रगटे तेमपंचनूतजेगांमलेतेवारं ज्ञानशक्तिप्रग
टथायठे ॥ ११ ॥ जेमएकशब्दाअथवा एककांकोरोएसर्व पथरानाजेदठे तेमआ
राजाठे आरांकठे एवुंविचित्रपणुंतेआत्मानथी एतोस्वजावेजेदपड्यांठे ॥ १२ ॥

वाक्यैर्न गम्यते चात्मा परस्परविरोधिनिः ॥ दृष्टवान्न च कोप्ये
नं प्रमाणं यदचोचवेत् ॥१३॥ आत्मानं परलोकं च क्रियां च वि
विधां वदन् ॥ जोगेज्योभ्रंशयत्युच्चै लौकचित्तं प्रतारकः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ वजीसर्व मतवालाना माहोमाहें विरोधीवचनहोवाथी आत्मानीप्रती
तिनथीयती केमके कोइयेंआत्मादीगेनथी के जेयकी एकेतुंवचन प्रमाणथाय १३
आत्माने परलोकने अर्थ एमविचित्रप्रकारनीक्रियाकरावेठे एहहुंकहेनारा वीचाराजो
कने सुखनोगथीचष्टकरेठे एम जेलोकोनाचित्तेने फेरवेठे तेधूर्तशुरुजाणवा ॥ १४ ॥

त्याज्यास्तत्रेहिकाः कामाः कार्या नानागतस्पृहा ॥ जस्मीचूतेपु
चूतेपु वृथा प्रत्यागतिस्पृहा ॥ १५ ॥ तदेतद्दर्शनं मिथ्या जीवप्र
त्यक्ष एव यत् ॥ गुणानां संशयादीनां प्रत्यक्षाणामजेदतः॥१६॥

अर्थ ॥ माटेआजवमां पाम्याजेसुखजोग तेतजवानही अने अवतानवमां सुख
पामसुं एवीवांगानकरवी केमके पंचनूतनुंपुतलुं बलीनेराखयज्ञे एटलेपरजवनी इहा
सर्वफोगटजज्ञे ॥ १५ ॥ एरीतेंचावाक दर्शननुमतकहुं पणएदर्शनखोटुंके केमके
प्रत्यरूपणे संशयादिकजेगुण तेजीवनेठे माटेजीवप्रत्यरूप अनेदपणेठे ॥ १६ ॥

नचाहंप्रत्ययादीनां शरीरस्थैव धर्मता ॥ नेत्रादिग्राह्यतापत्ते
नियतं गौरवादिवत् ॥ १७ ॥ शरीरस्थैव चात्मत्वे नानुनूतस्मृति
र्नवेत् ॥ बालत्वादिदशाभेदा तस्यैकस्यानवस्थितेः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेमकोइआदरआपे तेपणआत्माठे तेमअहंकारादिकप्रत्ययजेठे तेआत्माठे
तेकांशशरीरनोधर्मनथी अहंकारादिनेत्रमांजणायठे तेदेखवारूपठे ॥ १७ ॥ शरीरनेजो
आत्माकहियें तोआत्माजडथयो तेवारेंपूर्वनी अनुनवेलीवात आत्माविनाकोनेसां
नरेठे शरीरनेतोसांनरतुंनथी अने बाल यौवनतथावृद्धइत्यादिकजे शरीरनीदशाना
नेदठे तेथीआत्मापण बलत्वादि दशावंतथायठे पणनिश्चैनयथी आत्मान्नीएकदिशा
ठे अने शरीरनीअवस्था एकनथी केमके अनवस्थितदोषनो प्रसंगठे माटे ॥ १८ ॥

नात्मांगं विगमेप्यस्य तल्लब्धानुस्मृतिर्यतः ॥ व्यये गृहगवाह
स्य तल्लब्धार्याधिगंतवत् ॥ १९ ॥ न दोषकारणात्कार्ये वासना
संभ्रमाच्च न ॥ भ्रूणस्य स्मरणापत्ते रंवानुजवसंक्रमात् ॥ २० ॥

अर्थ ॥ शरीरनोतोनाशथाय अनेआत्मापरजवमांजाय पणजातिस्मरणेकरी पूर्वज
न्मादिकनुं स्मरणठे जेमघरनागोखमांवेशीने नगरनापदार्थदीता अने पठीतेगोखप
मीगयो तोपणजोयानुं स्मरणजतुनथी ॥ १९ ॥ कारणथकी बाढ्यावस्थानी वासना
ना संक्रमणथकी जेकार्यआत्माकरेठे तेकार्यनी जोस्मृतिनरही तोपण तेनेदूषण
नथी जेममातायें पोतानाअनुजवना संक्रमणथकी बालकनेबोलतुं चालतुं सीखव्युं
होय तेनीबालकने स्मृतिनहोय तेहनीपरेंजाणतुं ॥ २० ॥

नोपादानाहुपादेय वासना स्थैर्यदर्शने ॥ करादेरतथात्वेन यो
ग्यत्वाप्तेरणुस्थितौ ॥ २१ ॥ मद्यांगेज्यो मदव्यक्ति रपिनो मेल
कंविता ॥ ज्ञानव्यक्तिस्तथा ज्ञाव्याऽन्यथा सा सर्वदा जवेत् ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ उपादाननायोगेंकरी स्थिरतानादर्शननेविषे उपादानवासनानहोय
जेमहस्तादिकजेठेते उपादेयठे अने तेनुंउपादानते हस्तादिकनुं परमाणुठे माटे

परमाणुरूप सूक्ष्मस्थितिमां स्थिरदर्शन नसंजवे ॥ २१ ॥ जेममदिरानाथ्रंगथकी
मदशक्तिप्रगटपणेनथी जेगेमलवेथायठे अथवापीधापठे आत्मानेसंयोगेंथायठे तेम
ज्ञाननीप्रगटतापण आत्मानेयोगेंथायठे नहीतोसदाय एकलुं ज्ञानरखुंजोश्यें ॥ २२ ॥

राजरंकादिवैचित्र्य मप्यात्मकृतकर्मजं ॥ सुखदुःखादिसंवित्ति
विशेषो नान्यथा जवेत् ॥ २३ ॥ आगमाज्जम्यते चात्मा दृष्टेष्टा
र्याविरोधिनः ॥ तदक्ता सर्वविच्चैनं दृष्टवान्वीतकश्मलः ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ आराजाठे अने आरांकठे एवोजीवनेविचित्रजावउपजेठे एवीलोकवा
णीठे तेसर्वपोताना कीधेलाकर्मथकी जाणवी सुखदुःखसर्वकर्मथकी प्रगटथायठे
अन्यथाबीछुं विशेषकारणकांश्नथी ॥ २३ ॥ जेदृष्टियेंदीतुं तेप्रत्यक्षप्रमाण अनेइष्टा
र्थतेअनुमानप्रमाण तथा उपमाप्रमाण ते अनुमानमानलेठे माटेएत्रणप्रमाणने अ
विरोधिएहबुंजे आगमप्रमाण तेषेकरी आत्मानेजाणोजायठे तेआगमतो जेनास
वंपापगयांठे एहवासर्वकृदेवें देखाडबुंठे ॥ २४ ॥

अत्रांतानां च विफला नामुष्मिक्यः प्रवृत्तयः ॥ परबंधनहेतोः कः
स्वात्मानमवसादयेत् ॥ २५ ॥ सिद्धिः स्थाएवादिवद्यक्ता संशयादे
व चात्मनः ॥ असौ स्वरविपाणादौ वस्तार्थविषयः पुनः ॥ २६ ॥

अर्थ ॥ अत्रांतजे ज्ञानीपुरुष तेनेहमणानीप्रवृत्तिते निःफलतानहोय माटे पर
बंधननाहेतुयेंकरी पोतानीआत्माने कोणखेदमांनाखे ॥ २५ ॥ आत्मानीप्रगटपणे
संशयथीसिद्धिठे एवीवाततोवगडामां जाडनातुंगजेवी देखाय पणसंशयकरताथका
जेखरुंरुंरुते नजणाय तेमज संशयवडे आत्मानेनजाणियें अनेजेविपरीतअर्थ आ
त्माने माने तेनेगधडाने शिंगडामाननारजेबुंसमजवो ॥ २६ ॥

अजीवइति शब्दस्य जीवसत्तानियंत्रिता ॥ असतो न निषेधोय
त्संयोगादिनिषेधनात् ॥ २७ ॥ संयोगः समवायश्च सामान्यं च
विशिष्टता ॥ निषिध्यते पदार्थानां तएव नतु सर्वथा ॥ २८ ॥

अर्थ ॥ अजीवशब्दमां जीवशब्दनीसत्तावजगेलीठे पणनिषेधअठतोठें जेवी ना
स्तिकमतवाला संयोग समवाय अनेसामान्य तथा विशेषने निषेधेठे तेपणसर्वथा
पणे वस्तुस्वरूपने निषेधिशकतानथी केमके संयोगसमवाय अने सामान्यनही मा
नवाथकी पणअजीवशब्दबोलबुं तेयदपिअजीवपदार्थसत्तुं तथापिशब्दअसत्तुमानि

यें तोते असत्पदार्थनो निषेधदेखातुंनथी ॥ २७ ॥ माटे संयोगसमवायसामान्य इत्या
दिकपदार्थतुंविशेषपणुं तेनास्तिकमतवाला निषेधकरेते पणतेसर्वथानिषेधथायनही

शुद्धं व्युत्पत्तिमक्कीवपदं सार्थं घटादिवत् ॥ तदर्थस्य शरीरं नो पर्या
यपदनेदतः ॥ २८ ॥ आत्मव्यवस्थितेरस्त्याज्यं ततश्चार्वाकदर्
शनं ॥ पापाः किलैतदालापाः सद्वापारविरोधिनः ॥ ३० ॥

अर्थ ॥ शामाटेचुद्धनिर्मलएवीव्युत्पत्ति तेजीवप्राणधारणे एवेअर्थयुक्त एवुंजीव
पदसाचुंते घटादिकनीपेरेबतुंते पणनवानवा पर्यायना नेदथकी जीवनेमूलअर्थे श
रीरनथी ॥ २८ ॥ एरीते आत्मानुंस्थापनकरीने चार्वाकदर्शननेठांडतुं एदर्शनीसार्थे
आलापकरवो तेपणपापरूपते केमकेएसत्यवादीसार्थे विरोधकारकते तेथीतजवुं ३०

ज्ञानहृणावलीरूपो नित्योनात्मेति सौगताः ॥ क्रमाक्रमाच्यां
नित्यत्वे पूज्यतेर्थाक्रिया न हि ॥ ३१ ॥ स्वभावहानितो ध्रौव्यं क्र
मेणार्थक्रियाकृतौ ॥ अक्रमेण च तज्जावे युगपत्सर्वसंज्ञवः ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ हवेबौद्धमतवालाबोल्याके आत्माज्ञानरूपते पणहृण आवलीकाप्रमाणे
स्थितिते माटेआत्मानित्यनथी एटलेजीवते हृणोकमांक्रोधकरे हृणोकमांमानकरे ए
मनिन्नअवस्थाथायते एकअवस्थानित्यरेतीनथी परंपरायें क्रमअक्रमपणेजो नित्य
आत्माकोश्वेलायेंहोय तोअर्थक्रियाकलाप घटेनही माटेनित्यआत्मानथी ॥ ३१ ॥
एनोस्वभावहणाय तेवारेध्रुवपणुंपामे अनुक्रमे अर्थक्रिया आकृतिनेविषे अक्रमेकरी
ने तेजावनेविषे समकालेंविचारतां सर्वसंज्ञवहोय माटेअमारोहृणिकमतसाचोवख्यो

हृणके तु नदोषोस्मिन् कुर्वद्रूपविशेषिते ॥ ध्रुवेहृणोनुत्तृष्णाया
निवृत्तेश्च गुणोमहान् ॥ ३३ ॥ मिथ्यात्ववृद्धिकृन्नूनं तदेतदपि
दर्शनं ॥ हृणिके कृतहानिर्य तथात्मन्यकृतागमः ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ वलीआहृणिकमतमां दोषनथी केमके नवनवारूपकरेते पणजेसमयें
जेरूपहोय तेसमयेंतेरूपनालहृणेंकरीध्रुवते तेमांतृष्णानो अनेनिवृत्तिनो मोटोगुण
ते जेथीध्रुवतारूप महागुणपामियें एमबौद्धकहेते ॥ ३३ ॥ एउपरथी खरेखरुं
एदर्शन मिथ्यात्वनीवृद्धिकरनारुंते केमकेआत्मानेहृणिक माननारनासुकृतनीहा
णीथायते जो कदीपापनकरे तोपणजुठाबोलवानुं पापतोपरजवेजोगवतुंपडे माटे
अकृतागमकहियें ॥ ३४ ॥

एकद्वयान्वयाज्ञावा घासनासंक्रमश्च नापौर्वापर्यं हि ज्ञावानां
सर्वत्रातिप्रसक्तिमत् ॥ ३५ ॥ कुर्वद्रूपविशेषे च न प्रवृत्तिर्नवाऽनु
मा ॥ अनिश्चयान्न वाध्यहं तथा चोदयतो जगौ ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ जेम एकद्वयानुं सापेक्षपणे एकज्ञावनथी माटे वासनानुं संक्रमणं न धाय
अने ज्ञावनुं पूर्वापरपणुसर्वत्रशक्तिरूपं परिणमेते ॥ ३५ ॥ रूपविशेषकरताठतां प्रवृ
त्तिकरवी अथवा वारवीते तो नही पण दृष्टिकमतवालायें तो अनिश्चयथकी आत्मा
ने उदयथी दृष्टिकपणुकलुंते ॥ ३६ ॥

न वैजात्यं विना तत् स्यान्न तस्मिन्ननुमा जवेत् ॥ विना तेन न तस्मि
न्निर्नाध्यहं निश्चयं विना ॥ ३७ ॥ एकतः प्रत्यभिज्ञानं दृष्टिकत्वं
च बाधते ॥ यो ह मन्वज्जवं सो हं स्मरामीत्यवधारणात् ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ विजाती विना तेन होय एमांकांश्च अनुमान घटतुं नथी केमकेते विना तेनी
सिद्धिपणनथी निश्चयविना प्रत्यभिज्ञानपणनथी थातुं ॥ ३७ ॥ तथाहुं आ अनुनुं हुं
तेहुं संजाहुं ए अवधारणथकी आत्माने त्रैकालिक एकताज्ञान ते दृष्टिकपणे वा
धकारी थायते ॥ ३८ ॥

नास्मिन्विषयबाधोयत् दृष्टिकेपि यथैकता ॥ नानाज्ञानान्वये त
द्दत् स्थिरे नानादृष्टान्वये ॥ ३९ ॥ नानाकार्यैक्यकरण स्वाज्ञा
व्ये च विरुध्यते ॥ स्याद्वादसन्निवेशेन नित्यान्वयार्थक्रिया न हि ४०

अर्थ ॥ एनित्यात्मानामतवडे विषयबाधकपणुं न होय दृष्टिकमतने विषे पण
एमजजेम ज्ञानान्वयें एकत्वतापणुते तेमस्थिरआत्माने विषे नानादृष्टाने संयोगें एक
ताजाणवी ॥ ३९ ॥ बहुकार्यना एकीकरणस्वभावने अंगीकारकरेते विरोधपडेते
अने स्याद्वादशैली थापनाकरवाथी नित्यापेक्षपणे अर्थक्रिया विरोधपामती नथी के
मके वेदुनयें प्रकृतिअर्थ अनुसरेते माटे ॥ ४० ॥

नीलादावप्यतज्ज्ञेद शक्तयः सुवचाः कथं ॥ परेणापि हि नानैक
स्वभावोपगमं विना ॥ ४१ ॥ ध्रुवे दृष्टेऽपि न त्रेम निवृत्तमनुप
ल्लवात् ॥ आह्याकारश्च ज्ञाने गुणस्तन्नात्र दर्शने ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ नीलादिवर्णने विषे जेदशक्ति न होय एमसुखेकेम केवाय परपुण्यवने करी
ने पण एकस्वभावने टाल्याविना नानाविधपणु संजवे नही ॥ ४१ ॥ ध्रुवतापणाने वि

वे इक्षुणनेविषेपण एटलेलोचननेविषेपण उपष्ठवमाटे निवृत्तपणेप्रेमनजोश्ये जे मयाह्याकार ज्ञाननेविषेगुणठे तेमआदर्शनमांगुणनथी ॥ ४२ ॥

प्रत्युतानित्यजावे हि स्वतः क्णजबुद्धिया ॥ हेतुनादरतः सर्व क्रियाविफलता नवेत् ॥ ४३ ॥ तस्मादिदमपि त्याज्य मनि त्यत्वस्य दर्शनं ॥ नित्यसत्यचिदानंद पदसंसर्गमिच्छता ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ उलटोअनित्यजावनेविषेपण पोताथी क्णनीबुद्धिवेंकरी हेतुनाअनादर थकीसघलीक्रिया निःफलथाय ॥ ४३ ॥ तेमाटेए अनित्यदर्शनपणठोडवुं सदैव नित्यसत्यपणे मुक्तिपदना संसर्गने इच्छताप्राणीयें जरूरत्यजवुं ॥ ४४ ॥

न कर्ता नापि ज्ञोक्तात्मा कापिलानां तु दर्शने ॥ जन्मधर्माश्रयो नायं प्रकृतिः परिणामिनी ॥ ४५ ॥ प्रथमः परिणामोस्या बुद्धिर्धर्माष्टकाऽन्विता ॥ ततोहंकारतन्मात्रेण जियन्तूतोदयः क्रमात् ॥ ४६ ॥

अर्थ ॥ हवेकपिलदर्शनवाला बोल्याके आत्माकरतानथी तेमज्ञोक्तापणनथी आत्माप्रगटधर्माश्रय वालोनथी मायापरिणामवर्तेठे ॥ ४५ ॥ एमायानो प्रथमपरिणाम शुश्रूषा श्रवणंचैवग्रहणंश्यादिक आठप्रकारनी बुद्धिरूपधर्मकरीसहितठे अथवातेथी अहंकारतन्मात्र इंडिय पांचनूतोदय एअनुक्रमेजाणवुं ॥ ४६ ॥

चिद्रूपपुरुषोबुद्धेः सिध्यै चैतन्यमानतः ॥ सिद्धिस्तस्या अविषया वहेदनियमाच्चितः ॥ ४७ ॥ हेतुत्वेषु प्रकृत्यर्थे जियाणामत्र निर्वृतिः ॥ दृष्टादृष्टविज्ञागाश्च व्यासंगश्च न युज्यते ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ बुद्धिनीसिद्धिनेअर्थे आत्माचिद्रूपठे वलीचैतन्यठेतोपण निश्चयसहित अविहेदपणे तेबुद्धिनीजेसिद्धि तेअविषयीठे ॥ ४७ ॥ हेतुत्वेंकरी आत्मानेप्रकृतिअर्थेनेविषे इंडियोना निवृत्तिपणानो दीठाअणदिवाना विज्ञागथी प्रसंगघटतोनथी ४८

स्वप्ने व्याघ्रादिसंकल्पा न्नरत्नानजिमानतः ॥ अहंकारश्च नियत व्यापारः परिकल्प्यते ॥ ४९ ॥ तन्मात्रादिक्रमस्तस्मात्प्रपंचोत्पत्तिहेतवे ॥ इहंबुद्धिर्जगत्कर्त्री पुत्रपोन विकारजाक् ॥ ५० ॥

अर्थ ॥ जेमस्वप्नेनेविषे व्याघ्रादिकना संकल्पथी अनेपुरुषार्थेना निरजिमानथी अहंकारनेनिश्चै व्यापाररूपकल्पियेंठियें ॥ ४९ ॥ तेप्रपंचनी उत्पत्तिनाहेतुनेअर्थेतन्मात्रादिकनो क्रमठे एरीतेंजगतनीकरनारी बुद्धिठेरेठे माटेविकारनोजनारआत्मानथी

पुरुपाथोपरागौधौ व्यापरावेश एव च ॥ अत्रांशोवेद्म्यहं वस्तुं क
रोमीति च धीस्वतः ॥ ५१ ॥ चेतनोहं करोमीति बुद्धेर्नैदाग्रहा
त्स्मयः ॥ एतन्नाशो ऽनवच्छिन्नं चैतन्यं मोक्ष इष्यते ॥ ५२ ॥

अर्थ ॥ सर्वप्रवृत्तिव्यापारनेविषे एकपुरुषार्थेऽने बीजोत्पराग एवेव्यापारनलेषे
तेवारं हुंअंशंजाणुहुं हुंवस्तुकहुंहुं एवीकदाग्रीबुद्धिथायते ॥ ५१ ॥ हुंचेतनहुं हुंकहुंहुं
एवोर्गवबुद्धिनाहेतुथी प्रगटेते एवागर्वनोनाशकरी स्वजावैरहुं चैतन्यपणुमुक्तिनेपामेते
कर्तृबुद्धिगते दुःख सुखे पुंस्युपचारतः ॥ नरनाथे यथा नृत्यगतौ
जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ कर्ता जोक्ता च नोतस्मा दात्मा नित्यो
निरंजनः ॥ अध्यात्मादन्यथाबुद्धि स्तदाचोक्तं महात्मना ॥ ५४ ॥

अर्थ ॥ आत्मानेविषे दुःखसुखपामहुं एहवीकर्त्तापणानाबुद्धिजेथायते तेत्पचा
रथीते जेमसेवकनोजय अथवा पराजयते राजाहोवाथीजणायते ॥ ५३ ॥ इत्या
दिकमाटे आत्माकर्त्तानोक्तानथी पणनित्यनिरंजनते अनेजेबुद्धिहेतेतो अध्यात्मथी
बुद्धीते एवमहात्माकपिलमुनिये कहेहुंते ॥ ५४ ॥

प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ॥ अहंकारविमूढा
त्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ५५ ॥ विचार्य्यमाणं नोचारु तदेतद
पि दर्शनं ॥ कृतिचैतन्ययोर्व्यक्तं सामानाधिकरण्यतः ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥ प्रकृतिनागुणोकरि क्रियमाणजेकर्म तेनोहुंकर्त्ताहुं एमसर्वप्रकारं अहंकारं
मूढआत्मामानेते ॥ ५५ ॥ एवोविचारकरेथी एदर्शनपणरुहुंनथी केमकेप्रगटबुद्धि
प्रकृतिअनेचैतन्यनो सामानाधिकरणं विचारकरतांरुहुंनथीजणालु ॥ ५६ ॥

बुद्धिः कर्त्री च जोक्त्री च नित्याचेन्नास्ति निर्दृतिः ॥ अनित्या चेन्न सं
सारः प्राग्धर्मादेरयोगतः ॥ ५७ ॥ प्रकृतावेव धर्मादिस्वीकारे
बुद्धिरेव का ॥ सुवचश्चघटादौस्या दीदृग् धर्म्मान्वयस्तथा ॥ ५८ ॥

अर्थ ॥ बलीतमेजो कर्ता जोक्तापणे बुद्धिमानशोपणजोतेबुद्धिनित्यतेतो मोह
नथी एतलेमोहठेरसेनही अनेजोबुद्धिने अनित्यमानशोतो पूर्वधर्मनाअयोग्यथकी
संसारतेरज्ञेनही ॥ ५७ ॥ प्रकृतिनेविषेधर्मादिकने अंगीकारकीधाथी बुद्धिनेसुंकेहेवी
जोइये अनेघटादिकनेविषेएवाधर्मनो अन्वयतेसुखेकहेवो इतितर्कवादः ॥ ५८ ॥

कृतिन्नोगौचबुद्धेश्चे द्वंधो मोक्षश्च नात्मनः॥ ततश्चात्मानमुद्दि
श्य कूटमेतद्युच्यते ॥ ७९ ॥ पंचविंशतितत्वज्ञो यत्रतत्रा
श्रमे रतः॥जटी मुंडी शिखी चापि मुच्यते नात्र संशयः॥६०॥

अर्थ ॥ जोकरबुंनोगबुं बुद्धिनेठे तोबंधमोक्षआत्मानेनथी तेपणबुद्धिनेजजोइ
यें माटेआत्मानेउद्देशीने नहीसमजवामांआवे एरीतेंकूटकरीकहेठे ॥५९॥ पंचवीस
तत्वनोजाणजेपुरुषठे ते कोइपणआश्रममांरतहोय एटलेजटाधरहोय अथवाभुंनावे
अथवाचोटीरखावे तोपणतेसंदेहविना संसारथीमुकाय एवुंकपिलमतवालाकहेठे

एतस्यचोपचारत्वे मोक्षशास्त्रं वृथाखिलं ॥ अन्यस्य हि विमो
क्षार्थे न कोप्यन्यः प्रवर्तते ॥६१॥ कापिलानां मते तस्मा दस्मि
न्नैवोचिता रतिः॥यत्रानुभवसंसिद्धः कर्ता नोक्ता च लुप्यते॥६२॥

अर्थ ॥ एरीतें एआत्मानेविषे मोक्षनेउपचरित्वपणें अंगीकारकरसे तेनुंसकल
मोक्षशास्त्र फोगटथायठे केमकेकोइने मोक्षआपवा कोइबीजोप्रवर्तथायनही ॥ ६१॥
जिहांअनुभवसिद्ध आत्मानुकर्तापणुं तथानोक्तापणुलोपेठे एटलेमानतानथी तेमाटे
एहवा कपिलनामतमां प्रीतिकरवीते ठीकनथी ॥ ६२ ॥

नास्तिनिर्वाणमित्याहु रात्मनः केप्यबंधतः ॥ प्राक्पश्चाद्युगप
द्वापि कर्मबंधाव्यवस्थितेः ॥ ६३ ॥ अनादिर्यदि संबंध इष्यते
जीवकर्मणोः॥तदानंत्यान्न मोक्षः स्या तदात्माकाशयोगवत्॥६४॥

अर्थ ॥केटलाकअबंधमतवालाठे तेएमकहेठेके आत्माने मोक्षनिर्वाणनथीकेमके
प्रथमकेअथवापठी समकालें आत्माने कर्मबंधनथी तोमुक्तिशेनीहोय ॥ ६३ ॥जोजीव
ने तथाकर्मने अनादिसंबंधमानियें तोआदिनही तिहांअंतपणकेमथाय माटेअनंतप
णानाप्रसंगथी कोइकालेंमोक्षनथायजेमआत्माथके आकाशयोग कदापिनिन्ननथाय

तदेतदत्यसंबंधं यन्मिथोहेतुकार्ययोः ॥ संतानानादिता बीजां
कुरवत् देहकर्मणोः ॥६५॥ कर्ता कर्मान्वितो देहे जीवः कर्मणिदेह
युक् ॥ क्रियाफलोपनुक्तत्वे दंभान्वितकुलालवत् ॥ ६६ ॥

अर्थ ॥ एहबुंबोलेठे एवचनपणजुठुंठे केमके कारणकार्यनेमाहोमांहे संबंध
ठे जेमपुत्रपौत्रादिकनो अनादिसंबंधथायठे तेबीजनाअंकुरानीपेरेंठे तेमजशरीरनेत

आकर्मनोपणअनादिसंबंधते ॥ ६५ ॥ कर्मसहितजीव कर्त्तापणेदेहमारहोठे एवुंजेकहे
तेपणछुटुंठे जेमदंडसहितकुंनारनीपरें क्रियानोफलजोगवे तेपण असंबंधतेतेनीपरे

अनादिसंततेनाशः स्याद्वीजांकुरयोरिव ॥ कुकुम्व्यंमकयोः स्वर्ण
मलयोरिव चीनयोः ॥ ६७ ॥ जवेपु च व्यवस्थेयं संबंधोजीवकर्म
णोः ॥ अनाद्यनंतो जव्यानां स्या दात्माकाशयोगवत् ॥ ६८ ॥

अर्थ ॥ तमेकहोठोके अनादिसंतति नाशनथाय तेनोतोनाशयतो देखीयेंठइयें
जेमबीजवणसे अंकुरनथाय अने अंकुरानाशयये बीजनहीथाय कुकमीनाशयये इं
हुनाशपामे अनेइमानोनाशयये कुकडीनाशपामे वजीअनादिनो सुवर्णथी मेजछुदो
थायठे तेमआत्माथकी कर्मजुदाथायठे ॥ ६७ ॥ एरीतेंअनादिसंतति जीवकर्मनोजे
संबंधते नाशथायठे तेजव्यजीवोआश्रयीठे अनेजेहने अनादिसंतति टजतीनथी
तेअजव्यजावो आश्रयीठे आत्मातोआकाशना योगनीपरेंठे ॥ ६८ ॥

जव्यजावे समानेपि जीवाजीवत्वजेदवत् ॥ जीवजावे समानेपि ज
व्याजव्यत्वयोर्निदा ॥ ६९ ॥ स्वाभाविकं च जव्यत्वं कलशप्राग
जावतः ॥ नाशकारणसाम्राज्याद्दिनश्यन्न विरुद्धते ॥ ७० ॥

अर्थ ॥ जेमजव्यनीरीतें तोसर्वजव्य एकजव्यपणें तुज्यंठे पणतेजव्यमां जेदकरि
यें तोजीवअजीवए वेथाय तेमज जीवपणेतो सर्वजीवसरिखाठे पणजेदकरतां
जव्यतथाअजव्य एवेजेदथायठे ॥ ६९ ॥ जेमघटउत्पत्तिपेहेला माटीजव्यस्वजावि
कपणोठे अनेमाटीनाशयथी घटप्रगटेठे तेविरुद्धनथी तेमस्वजाविकजव्यपणो कर्मनी
अनादिसंततीनो नाशरूपकारणना सामर्थ्यथी परमात्मापणुप्रगटे तेपणविरुद्धनथी

जव्योच्छेदोन चैवं स्या जुर्वानंत्यान्नजोशवत् ॥ प्रतिमादलवत् का
पि फलजावेपि योगतः ॥ ७१ ॥ नैतद्व्यं वदामोय भवः सर्वोपि सि
ध्यति ॥ यस्तु सिध्यति सोवश्यं जव्यएवेति नोमतं ॥ ७२ ॥

अर्थ ॥ एरीतेंजव्यपणानो उच्छेदनथाय मोटाअनंतपणाथकी आकाशनाअंश
नीपरें घटआखे आकाशपणआखुं अनेघटजागे आकाशखंडथयो पणआकाशकांइव
धुंनही तेमकर्मनानाशयकी आत्माअधिकयतो नथी जेमकोश्टेकाणे प्रतिमानादल
नीपरें प्रतिमादलपापाणथी विंवरूप फलउपजे तेममोद्धुं उपजहुं थाय ॥ ७१ ॥

अमेएमकहेता नथीके सघलानव्यजीवो सिद्धिपामे पणजेसिद्धिवरे तेनेनिश्चय न
व्यकहियें एअमारोमतठे ॥ ७३ ॥

ननु मोहूपि जन्यत्वा घिनाशिनी नवस्थितिः ॥ नैव प्रध्वंसवत्त
स्या निधनत्वव्यवस्थितेः ॥ ७३ ॥ आकाशस्येव वैविक्ता मुजरादे
घटह्ये ॥ ज्ञानादेः कर्मणोनाशो नात्मनो जायते ऽधिकं ॥ ७४ ॥

अर्थ ॥ मोहूनेविषे प्रगटथवापणुनथी माटेनव्यस्थिति नाशवंतीठे पणमो
हूमां अनंतपणानी स्थितिठे माटेमुक्तीनोनाशनथी ॥ ७३ ॥ जेममोगरेंकरी घडो
जांग्यो अनेघमानेह्ये आकाशजुडयथुं पणवध्युंनही तेमज्ञानथी कर्मनोनाशथाय
पण आत्माअधिकथायनही ॥ ७४ ॥

नच कर्माणुसंबंधा न्मुक्तस्यापि न मुक्तता ॥ योगानां बंधहेतूना
मपुनर्नवसंनवात् ॥ ७५ ॥ सुखसत्तारतम्येन प्रकर्षस्यापि सं
नवात् ॥ अनंतसुखसंवित्ति मोहूः सिध्यति निर्णयः ॥ ७६ ॥

अर्थ ॥ जिहांमूलथीजकर्मपरमाणुनो संबंधनथी अनेजेमूकाणा तेनेकांशमुकाववा
पणुनथी तथामिथ्यात अविरत कषाय योग एचारबंधहेतुनायोगठेतेनुं फरीथवापणुन
थीतेहनेसिद्धिकहियें ॥ ७५ ॥ सुखनुंतारतम्य तथाज्ञाननीउत्कृष्टता प्रगटथयेथी एट
जेअनंतसुखजाणवाथी निर्णयपणेजे सिद्धिवरे तेनुंनाममोहूकहियें ॥ ७६ ॥

वचनं नास्तिकाज्ञाना मात्मसत्तानिषेधकं ॥ त्रान्तानां तेन नादे
यं परमार्थगवैषिणा ॥ ७७ ॥ न मोहूोपायइत्याहु रपरे नास्तिको
पमाः ॥ कार्यमस्ति न हेतुश्चे त्येषां तेषां कदर्थना ॥ ७८ ॥

अर्थ ॥ माटे नास्तिकमतवालांना वचन आत्मसत्ताना निषेधकठे तेत्रमचित्तवा
जायें आदरवानही अथवानास्तिकमतवालांना नयनावचनठे एमजाणीआदरवान
ही जेपरमार्थनो गवेषकहोय तेणेंठांमवा ॥ ७७ ॥ हवेवलीबीजा नास्तिकमतने
मजताज मतवालाठे तेनुंकेवुं एमठे के मोहूनोउपायनथी एटलेकार्यजेमोहूतेतो
ठे पणतेनुंकारणजे उपाय तेनथी एममानेठे तेमनेपण विटंबनाठे ॥ ७८ ॥

अकस्मादेव नवती त्यलीकं नियताबंधेः ॥ कदाचित्कस्य दृष्ट
त्वा ह्यज्ञापे तार्किकोप्यदः ॥ ७९ ॥ हेतुनूतनिषेधानां स्वानुपा
ख्यविधिर्न च ॥ स्वज्ञाववर्णना नैव मवधेर्नियतत्वतः ॥ ८० ॥

अर्थ ॥ कोऽकतो अणचिंतव्यो एकस्मात्तमोक्तथायते एमकेहेते एणञ्जुतुं नि
 यत अवधिर्मर्यादाजते तेमाटीनापिंड्यीघटनिपजेते तेकदाचित्दीतुंते एमतेहनेता
 किंकशास्त्रवालाकहेते जेअमुकवखतमांजपुरंथाओ एवंकांइनियमनथी ॥ ७९ ॥ हेतुनू
 तमोक्तनोनिपेधनथी पोतानोअनुपकधनीय एटजेपोतानेवोजवुंनही एहवीजेविधिते
 पणनथी अनेस्वभाववर्णनकरवुं स्तुतिकरवीतेनथी केमकेएसर्वनीअवधिते एटजेअ
 वधियेज मोक्तथाओ तेमाटेमोक्तुं साधनकरवुंतेज्जुतुंतेएमकेहेते ॥ ८० ॥

नच सार्वत्रिकोमोक्तः संसारस्यापि दर्शनात् ॥ नचेदानीं न तद्य
 क्ति व्यंजकोहेतुरेव यत् ॥ ८१ ॥ मोक्तोपायोस्तु किंलस्य निश्चयो
 नेति चेन्मतं ॥ तत्र रत्नत्रयस्यैव तथा जावविनिश्चयात् ॥ ८२ ॥

अर्थ ॥ सर्वत्रमोक्तनथी केमके जेह्मणानथी तेनीप्रगटतापणनथी अनेसंसा
 रतो प्रत्यक्तदेखायते माटेजेहनोजेहेतुते तेजप्रगटनथी तोतेहनोसंशयते ॥ ८१ ॥ मो
 क्तनोउपायते किंवानथी एवातनो निश्चयनथी माटेएमतपणञ्जुते मोक्तुहेतुतो
 रत्नत्रयनीपरं तेमजनावें निश्चयथीजाणियें ॥ ८२ ॥

नवकारणरागादि प्रतिपक्षमदः खलु ॥ तद्विपक्षस्य मोक्षस्य
 कारणं घटतेतरां ॥ ८३ ॥ अथ रत्नत्रयप्राप्तेः प्राक्कर्मलघुता
 यथा ॥ परतोपि तथैव स्या दिति किं तदपेक्षया ॥ ८४ ॥

अर्थ ॥ रत्नत्रयीजेते तेसंसारना कारणजेरागादिक तेहनाशत्रुते अनेसंसाररूप
 कार्यनोशत्रु मोक्तते माटेमोक्तुं कारणजे उपायतेघटेते ॥ ८३ ॥ केमकेरत्नत्रयनी
 प्राप्तिथयाथकी पूर्वजवनाकर्मनी जेवीलघुताथाय तोवीजायकीपणतेमजथायएअ
 पेक्षायें जोअवधिनथी तोपणञ्जुथयुं ॥ ८४ ॥

नैवयत्पूर्वसेवातो मृधीतो साधनक्रिया ॥ सम्यक्त्वादिक्रिया
 तस्मात् दृढैव शिवसाधने ॥ ८५ ॥ गुणाः प्राञ्जर्नवंत्युच्चै रथवाकर्म
 लाघवात् ॥ तथा नव्यतया तेषां कुतोपेक्षानिवारणं ॥ ८६ ॥

अर्थ ॥ जेपूर्वसेवाथकीते घचनाघोजनारूपथी रज्जुताथी साधनक्रियामंदरूप ते
 वीनहोय माटे समकेतादिक्रिया तेमोक्तसाधनमांइहेते ॥ ८५ ॥ अथवाकर्मना
 लघुतापणाथकी मोटाजेगुणतेप्रगटथायते तेप्रकारें तेनीनव्यतापणेकरीने मोक्तते
 पणमोक्तनीअपेक्षा वारीनथी इतिसंसदयः ॥ ८६ ॥

तथा न व्यतयाद्दोषा दुष्णा न च न हेतवः॥ अन्योन्य सहकारित्वात्
दंढचक्रभ्रमादिवत् ॥ ७७ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्र्या एषुपायास्त
भवद्दये॥ अतन्निषेधकं वाक्यं त्याज्यं मिथ्यात्ववृद्धिकृत् ॥ ७७ ॥

अर्थ ॥ तेमनव्यपणानातिरस्कारथकी पुनर्हेतुनूत गुणनहोय केमके परस्पर स
हकारीते माटे दंढचक्रभ्रमणनीपेरे नव्यतापणे ज्ञानादिक गुणप्रगटथाय तेगुण
मोहनाहेतुते एउत्तरकह्योते ॥ ७७ ॥ माटेसंसारनाह्यरूपजेउपाय तेज्ञानदर्शन
अनेचारित्र्यते तेनोजेनिषेधकरे अने मिथ्यातनीवृद्धिकरे तेनुं वचनत्यागकरवुं ॥ ७७ ॥

मिथ्यात्वस्य पदान्येता न्युत्सृज्योत्तमधीधनः ॥

जावयेत्प्रातिलोम्येन सम्यक्त्वस्य पदानि षट् ॥ ७८ ॥

अर्थ ॥ एपूर्वकह्याजे सर्वशास्त्रना मतवाद तेमिथ्यातनातेकाणाते तेनेर्तामीने बु
द्धिरूपधननुं ग्रहणकरीने मिथ्यातनेप्रतिकूलपणेजे समकितना उपदढेतेनेजाववां
॥ ७८ ॥ इति मिथ्यात्वत्यागाधिकारः त्रयोदशः समाप्तः

मिथ्यात्वदावानलनीरवाह मसद्ग्रहत्यागमुदाहरंति ॥

अतोरतिस्तत्र बुधैर्विधेया विशुद्धनावैः श्रुतसारवज्रिः ॥ २ ॥

अर्थ॥ मिथ्यातरूप जेदावानल तेनेसमाववाने मेघसमान एहवोमिथ्यात्व कदाग्रह
रूपप्रसारनो त्यागपंडितेंकह्योते जेकदाग्रहनात्यागनेविषेरतिकरवी तेतोजेपंमितहोय
वलीशुद्धताजाववालोहोय अनेसिद्धांतनासारनो जाणहोयतेमणेकदाग्रहने तांमवो

असद्ग्रहाग्निज्वलितं यदंतः क तत्र तत्वव्यवसायवह्निः ॥

प्रशांतिपुष्पाणि हितोपदेशं फलानि चान्यत्र गवेषयंतु ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ जेनुं अंतःकरण अठतापदार्थना कदाग्रहरूप अग्नियेंबळ्युंते तेनाकदयमां
तत्वव्यापाररूप वेलीकेमकरीउगे ? अनेसमतारूपफुल केमफुटे तथाहितउपदेश
रूप फलक्यांथीहोय तेमाटे कदाग्रहनेतजीने बीजेतेकाणे तत्वनीखोल करवी ॥ ३ ॥

अधीत्य किंचिच्च निशम्य किंचि दसद्ग्रहात्पंडितमानिनोये ॥

मुखं सुखं चुंबितमस्तु वाचो लीलारहस्यं तु न तैर्जगाहे ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ कांश्कजणीने तथा कांश्कशास्त्रसांजलीने आत्मानेपंडितपणुं मानता

एवामूर्खकदाग्रहनाधरनारते पोतातुंसुखचुंबितजेवाचा तेनेमुखमाने पणतेमुखेंकरी
लीलारूप रहस्यजेज्ञानते अगगाहेनही ॥ ३ ॥

असद्ग्रहोत्सर्प दतुञ्जदपै वौधांशतांधीकृतमुग्धलोकैः ॥ वि
मंविता हंत जडैर्वितंडा पांडित्यकंमूलतया त्रिलोकी ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेनेकदाग्रहयकी घणोर्गवध्यां अनेस्वकल्पितज्ञानने अज्ञोकरी नड
कजीवोनेजेणे आंधलाकीधाळे एहवाजडप्राणीयें पंडिताइनी खरजेंकरीनेहंतइतिखेदे
पाटुप्रहारेंयकी त्रणलोकने वितंडाके० नाकनामलेंवितंडनाकरीते ॥ ४ ॥

विधोर्विवेकस्य न यत्रदृष्टि स्तमोघनं तत्ररविर्विलीनः ॥ अ
शुक्लपद्मस्थितिरेषनून मसद्ग्रहा स्थूलमतिर्मुष्यः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ जेनाऋदयमां विवेकरूपचंडनी दृष्टीनथी तेथीवणोअंधकारते अनेतत्वरूप
सूर्य अस्तपाम्योते तेथीतेरुमपहननी निशावत्स्थितिमांतेकेमकेतेने कदाग्रहेंबध्यांते

कुतर्कदात्रेण लुनाति तत्र वह्नीरसान्सिचति दोषवृद्धं ॥ द्वि
पत्यधः स्वाङ्गफलं शमाख्य मसद्ग्रहः कोपिकुहूविलासः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेकदाग्रहीतेते कुविचाररूपदातरमेंकरी तत्वरूपवेलांनेतेदेते अनेपापरू
पवृद्धनेपाणीपायेते तथासमतारूपअमृतफलने हेतुंभुलमांनाखेते एवोकोइ कदाग्रह
रूप अमावास्यानी रात्रीनोविलासते ॥ ६ ॥

असद्ग्रहप्रभवमये हि चित्ते न कापि सजावरसप्रवेशः ॥ इ
हांकुरश्चित्तविशुद्धबोधः सिद्धांतवाचां वत कोपराधः ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ तेकदाग्रहीमाणसंतुं चितपडरजेवुंते जेमपडरमांपाणीनेदेनही तेम
जिनवाणीरूपरस तेकदाग्रहोमाणसमां प्रवेशकरेनही तेथीतेनाचित्तरूपवृद्धमां शुद्ध
बोधरूप अंकुरप्रगटेनही तोतेमांसिद्धांतनावाणीनो शेवांक ॥ ७ ॥

व्रतानि चीर्णानि तपोपि तप्तं कृता प्रयत्नेन च पिंडशुद्धिः ॥ अ
नूत्फलं यत्तुन निन्द्वाना मसद्ग्रहस्यैव हि सोपराधः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जोपंचमहाव्रतपाल्यां उग्रतपकीयां उग्रमेंकरी वेतालोसदोपरहित अह्ना
रलीधो तेमवतापणेनिन्द्वादिक मुक्तीरूपफलनपाम्याते अपराधसर्व कदाग्रहंतुंजते

स्थालं स्वबुद्धिः सुगुरोश्च दातु रूपस्थिता काचन मोदकाली ॥ अस
सद्ग्रहः कोपि गले ग्रहीत स्तथापि ज्ञोक्तं न ददाति छष्टः ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ पोतानीबुद्धिरूप थालमांकांश्च शुद्धज्ञानरूप मोदकने गुरु पीरसवाउठ्या
पणकदाग्रहेंआवी गलुंपकड्युं तेथीजमायुनही एवोकदाग्रहडुष्टे ॥ १९ ॥

गुरुप्रसादिक्रियमाणमर्थं गृह्णाति नासद्ग्रहवांस्ततः किं ॥

जाह्ना हि साहाडुपनीयमाना क्रमलेकः कंटकचुड् न चुंते ॥ २० ॥

अर्थ ॥ जोगुरुप्रसन्नअंने अर्थउपदेशआपेठे तोपणकदाग्रहीपुरुष तेउपदे
शनेग्रहतोनथी तेथीशुभयुं उपदेशतोकांश्चोढोनथी एतोजेमप्रगटपणे मीठीडाह्वंड
आगलमुकियें तोपणतेनेतजीनेउंट काटानेखायठे ॥ २० ॥

असद्ग्रहात्पामरसंगतिं ये कुर्वन्ति तेषां न रतिर्विधेषु ॥ वि

ष्टासु पुष्टाः किल वायसा नो मिष्टान्ननिष्ठा प्रसन्नं चवंति ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणीकदाग्रहेंकरी मूर्खनीसंगतकरेठे तेनेपंफितनीसोबत गमतीनथी
जेमकागडा विष्टानाजोगीठे तेनेमधुरअहारनीइहायतीनथी तेनीपेरें ॥ २१ ॥

नियोजयत्येव मतिं न युक्तौ युक्तिं नमो यः प्रसन्नं नियुक्ते ॥ अस

द्ग्रहादेव न कस्य हास्यो जले घटारोपणमादधानः ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ जेमकोइमूर्ख नदीनाजलउपर घमोजरीनेमुके तेनेजोइने कोणहंगेनही
केमके अगाधनिर्मलजलना विस्तारआगल एकतुहमात्रजलेनरेलोघडो तेशीगणती
मांठे तेमगुरुनामुखथी शास्त्रयुक्तिसांजलीने तेमांषोतानी मतिजोडेनही अनेपोता
नीयुक्तिवडे उलटुंबोले जेतमारीयुक्तीने नमस्कारहोजो एवाकदाग्रहीनेदेखी कोणहां
सीनकरे इहां गुरुनोउपदेशतेनदीनाजलतुल्यठे तेनाआगलकदाग्रहीघट केमनिजे

असद्ग्रहो यस्य गतो न नाशं न दीयमानं श्रुतमस्य शस्यं ॥ न

नाम वैकल्पकलंकितस्य प्रौढा प्रदातुं घटते नृपश्रीः ॥ २३ ॥

अर्थ ॥ जेमकोइवेलाआदमीने महोटीराज्यलक्ष्मी आपवीघटेनही तेमजेहनेकदा
ग्रहगयोनथी तेवाप्राणीने धर्मोपदेश आपवोयोग्यनथी ॥ २३ ॥

आमे घटे वारि घृतं यथा स द्विनाशयेत्सं च घंटं च सद्यः ॥ अस

द्ग्रहग्रस्तमतेस्तथैव श्रुतात्प्रदत्ताडुचयेर्विनाशः ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ जेमकाचाघडामां पाणीजरवाथी घडानो तेमजपाणीनोनाशथायठे तेमज
कदाग्रहीमाणसने शास्त्र सीखवतांशास्त्रनो तेमजतेपोतानोवनेनोविनाशथायठे ॥ १४

असद्ग्रहग्रस्तमते प्रदत्ते हितोपदेशं खलु यो विमूढः ॥ शुनी
शरीरे स महोपकारी कस्तूरिकालेपनमादधाति ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ जेमविष्टायैनखुंमुखदेखी कुतरीनेउपकारकरवा कस्तूरीनोलेपकरे तेमूर्खजा
णवो तेमकदाग्रहीप्राणीने उपकारकरवाने हितउपदेशआपेते पणमूर्खजाणवो ॥ १५ ॥

कष्टेन लब्धं विशदगमार्थं ददाति यो ऽसद्ग्रहदूपितायाः स
खिद्यतेयत्नशतोपनीतं वीजं वपन्नूपरञ्जुमिदेशे ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जेमघणाउद्यमे अनाजनावीज जेगांकरी उखरजमीनमांवावे तेआग
लजतांसदाय खेदपामेठे तेम पंडितप्राणी गुरूनोविनयकरी कष्टेकरीनिर्मल आगमति
इतिनाअर्थने पाम्योहोय तेजो कदाग्रहेकरी डुपीतप्राणीने तेहनो अर्थ शीखववानो
उद्योगकरे तोतेथी अंतखेद पामेठे ॥ १६ ॥

शृणोति शास्त्राणि गुरोस्तदाज्ञां करोति नासद्ग्रहवान् कदा
चित् ॥ विवेचकत्वं मनुते च सारग्राही नृवि स्वस्य च चालनीवत् ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ जोगुरुपातेथीशास्त्रतांजले तोपणकदाग्रहीजेहोय तें कोड्कालें ते गुरूनी
आज्ञानमाने ते पोतानीमले पोतानेएहहुंमाने जेहुंज सर्वपदार्थनी वरावरवेचणक
रुंठे पणतेतोजेम पृथ्वीमां चालणीमांथी चारीनेसारनूतवस्तु काहाडीलेइने वाकी
असार धान्यरहेठे तेहनुं ते ग्राहीठे ॥ १७ ॥

दंजाय चातुर्यं मधीयशास्त्र प्रतारणाय प्रतिज्ञापदुलं ॥ ग
र्वाय धीरत्वमहोगुणाना मसद्ग्रहस्ते विपरीतसृष्टिः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ माटे अहोइतिआश्चर्यं विधात्रायें कदाग्रहीमाणसमां विपरीतगुणसृज्या
ठे जेवादेवतेवीपात्री अनेमेघजलसर्पनामुखमां जेमविपलुअथयीजायठे एकेवतने
विधात्रायें खरीपाडीठे केमके जे कदाग्रहीनी चतुराइतेकपटनेअर्थेथाय अने शास्त्र
नणवुं ते मदनेअर्थेययुं तथा बुद्धिमाहापण अने उपदेशतेजोकने उगवानासाधन
नेअर्थेथयुंअने धैर्यपणु तेगर्वकरवानेअर्थेययुं ॥ १८ ॥

असद्ग्रहस्येन समं समंता त्सीहार्दं नृहुः खमवैति तादृग् ॥

उपैति यादृक्कदलीकुरृक् स्फुटं नुटकं टककोटिकीर्णा ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ जेमकेलतुंवृद्धतेकंयेरादिक वृद्धनेसंगे कांटायेकरीकोरायठे तेमजेप्राणीक
दाग्रहीसाथेजिजीरीते मित्रास्करेते अंतेडुःखनाविपाक पामेठे ॥ १९ ॥

विद्या विवेको विनयो विशुद्धिः सिद्धांतवाङ्मन्य मुदारता च॥

असद्ग्रहाद्याति विनाशमेते गुणास्तृणानीव कणाद्वाग्नेः॥ २० ॥

अर्थ ॥ जेमअग्नीथी घासनासमूह नस्मनूत थायठे तेमविद्याविनय विवेक
शुद्धि अने सिद्धांतउपर वल्लनतापणु गंजीरता एसर्व कदाग्रहथीनाश पामेठे॥२०॥

स्वार्थः प्रियो नो गुणवांस्तु कश्चि न्मूढेषु मैत्री न तु तत्ववित्सु॥अस

द्ग्रहापादितविश्रमाणां स्थितिः किलासावधमाधमानां ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ जेकदाग्रहीनी सोबतेरह्या तेने स्वार्थप्रियनहीते प्राणीअवगुणवंत मूर्ख
साथेमित्रास्करे अने पंडितसाथे मित्रास्करेनही एवाकदाग्रहीनी सोबतेरह्या जेअ
धममाअधम नीचप्राणी तेहनीएस्थितिठे तेकही ॥ २१ ॥

इदंविदंस्तत्वमुदारबुद्धि रसद्ग्रहं यस्तृणवज्जहाति ॥ जहा

ति नैनं कुलजेव योपि कुणानुरक्ता दयिता यशःश्रीः॥२२॥

अर्थ ॥ एमजाणीने तत्वनेओलखनार मोटीबुद्धिवालाप्राणी कदाग्रहने तृणप
जानीपेठेठामें तेने जेम कुलवंतीखी जरतारने त्यजतीनथी तेमगुणरागीएवीजे यश
किर्त्ति रूप लक्ष्मीतद्रूपस्त्रीयो ठांडतीनथी ॥ २२ ॥ इतिकदाग्रहल्यागाधिकारचतुर्दश

इति महोपाध्याय श्रीयशोविजयगणिविरचितेअध्यात्मसार

प्रकरणे चतुर्थःप्रबंधः बारमांअधिकारमां ५७ तेरमां

ना ७९ चउमाना ३३ सर्वमली १६९ काव्यथया

असद्ग्रहव्ययाद्घांत मिथ्यात्वविषयीप्रुषः ॥ सम्यक्त्वशालिनो

ध्यात्म शुद्धे योगः प्रसिद्धति ॥ १ ॥ कर्मज्ञानविज्ञेदेन स द्विधा

तत्र चादिमः॥ आवश्यकादिविहितः क्रियारूपः प्रकीर्त्तितः ॥१॥

अर्थ ॥ हवेकदाग्रहनानाशथी मिथ्यातरूपअंधकारनो विषयगयोठे जेमांथीएह
वासमकेतेकरी उज्वलअंतःकरणथयांठे जेहना एहवाजेप्राणी तेमने अध्यात्मनीशु

द्विथकीयोगप्रसिद्धरीतें प्रगटे ॥ १ ॥ तेयोगनावेजेदठे एककर्मयोग अनेबीजोज्ञान
योगतेमांकर्मयोगते आवश्यकदिकजे क्रियाकरवीतेरूपकह्योठे ॥ २ ॥

शारीररूपंदकर्मात्मा यदयं पुण्यलक्षणं ॥ कर्मातनोति सङ्गे
गात्कर्मयोगस्ततः स्मृतः ॥ ३ ॥ आवश्यकदिरागेण वात्स
ल्याङ्गवजिरां॥प्राप्नोति स्वर्गसौख्यानि न याति परमं पदं॥४॥

अर्थ ॥ शरीरचेष्टारूप तेकर्मात्माकहियें एयोगपुण्यरूपठे तेरुडाजोगधकी कर्म
नेविस्तारेठे तेमाटेएनेकर्मयोगकहियें ॥ ३ ॥ आवश्यकदिकक्रियानेरागे तथाजिन
वाणीने विलासंकरिने स्वर्गनामुखनेपामे पणएयोगेमुक्तिपदनेनपामे ॥ ४ ॥

ज्ञानयोगस्तपः शुद्ध मात्सरत्येकलक्षणं ॥ इन्द्रियार्थोन्मनीजा
वात्समोक्तिसुखसाधकः ॥ ५ ॥ न परप्रतिबंधोस्मिन्नल्पोप्येका
त्मवेदनात् ॥ शुचं कर्मापि नैवात्र व्याहृतेपायोपजायते ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ बीजोज्ञानयोगतेदनेकहियें जेतपणुद्विपणे आत्मानेविपेरतिपामे तेएक
लक्षण अने इन्द्रियोनाविषयधीदूरहेवुं तेवीजुंएवालक्षणोयुक्तजेयोग तेनेपामेलोपुरुष
तेमोक्तिसुखनेसाधे ॥ ५ ॥ एकआत्मज्ञानयोगना ज्ञानमां बीजोप्रतिबंधनथी अने
जेकर्मथीमोक्तमांजतां वारलागे तेजुजकर्मपणनथी ॥ ६ ॥

नह्यप्रमत्तसाधूनां क्रियाप्यावश्यकदिका ॥ नियता ध्यानशु
द्धत्वाद्यदन्यैरप्यदः स्मृतं ॥ ७ ॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत
त्तश्च मानवः॥आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ अप्रमत्तसाधुने आवश्यकप्रमुखजेक्रिया तेनोपण करवानेविपे प्रतिबंधन
थी केमकेतेनेध्यानरूपणुद्विठे माटे ॥ ७ ॥ बलीअन्यदर्शनमां पण श्रीरुक्मकहेठे
के हेअर्जुन जेआत्मसुखमांहृष्टठे तेनेआत्मानेविपेज रतिठे अनेसंतोपठे जेआत्म
सुखमां संतुष्टठेएहवोजेजीव तेदनेकोइपणकर्णव्यनथी ॥ ८ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्च नान चास्य सर्वचूतेषु कश्चि
दर्थव्यपाश्रयः ॥ ९ ॥ अवकाशो निपिक्षोस्मिन्नरत्यानंदयोर
पि ॥ ध्यानावष्टंनतः कास्तु तत्क्रियाणां विकल्पनं ॥ १० ॥

अर्थ ॥ तेप्राणीनेकार्यकरवे अर्थनथी तेमजनकरवाथी खोटपणनथी तेदनेसर्व

चूतनेविषेकांशप्रयोजननथी ॥ ए ॥ एतेकाणे अरतिनो अनेअनंदनो अवकाशनथी
केमके ध्याननीस्थिरताथी तेक्रियानोविकल्पपण केमहोय ॥ १० ॥

देहनिर्वाहमात्रार्था यापि जिह्वाटनादिका॥क्रिया सा ज्ञानिनोसं
गा न्नैव ध्यानविधा तनी ॥ ११ ॥ रत्नशिखादृगन्याहि तन्नियोज
नदृग् यथा ॥ फलचेदात्तथा चारक्रियाप्यस्य विजिद्यते ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ देहनिर्वाहरूपे मुनीने गोचरीप्रमुखजे क्रियातेक्रिया ज्ञानीनीअसंगानुष्ठा
नथी ध्यानमांविघ्नकरेनही ॥ ११ ॥ रत्नमाणिकपरिह्वाना ग्रंथजुदा अनेनजरपरि
ह्वापणजुदी ग्रंथनणीने जेमनजरपरिह्वामांफल चेदथीप्रवर्तेते तेमथाचारक्रिया
पण फेलचेदेकरि निन्ननिन्नते एटले चेदवंतीते ॥ १२ ॥

ध्यानार्था हि क्रिया सेयं प्रत्याहृत्य निजं मनः ॥ प्रारब्धा जन्मसं
कल्पा दात्म ज्ञानाय कल्पते ॥ १३ ॥ स्थिरचूतमपि स्वांतं रजसा
चलतां व्रजेत् ॥ प्रत्याहृत्य निगृह्णाति ज्ञानी यदिदमुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जोपोतानामनने पाबुंवालीने जन्मसंकल्पथीमांडीने आत्माज्ञाननणी क
ल्पिये तोतेक्रियाध्यानरूपते ॥ १३ ॥ स्थिरअथेखुंजेमन तेपणरजोगुणेकरी चपल
तानेपामे तेहनेपाबुंवाली तेनोनियहकरे तेनेज्ञानीकेहवो ॥ १४ ॥

शनैः शनैरुपरमे बुध्या धृतिगृहीतया ॥ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा
न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ १५ ॥ यतोयतोनिःसरति मनश्चंचलम
स्थिरं ॥ ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ हेअर्जुन मननेधीरेधीरेधीरजवडे अनेबुद्धिवडे स्थिरकरवुं पठेतेमनजेवारें
आत्मानास्वरूपनेविषेजाय तेवारें काश्बीजो चिंतनकरवानी जरूरनथी ॥ १५ ॥ मनचं
चलनेअस्थिरते तेनेज्यांज्यां जायत्यांत्यांथीपाबुंवालीने आत्मानेसाथे वशकरीराखवुं

अतएवादृढस्वांतः कुर्यात्सास्त्रादिना क्रियां ॥ सकलां विषयप्र
त्या हरणाय महामतिः ॥ १७ ॥ श्रुत्वा पैशाचिकीं वार्तां कुलव
ध्वाश्च रक्षणं ॥ नित्यसंयमयोगेषु व्यापृतात्मा नवेद्यतिः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ एमपरदर्शनमांपण कथुंते माटेजांसुधी मनस्थिरनहोय त्यांसुधी शास्त्रो
क्तक्रिया जेटलीकरिये तेटलीसर्वसफलनथाय जेवारेंविषयत्याग थाय तेवारेंजसफ

लथाय माटेजेप्राणीमननेविषयचीवाजवामां उजमालरहे तेमहामति वाजाजाणवा
 ॥ १७ ॥ जेमएकज्ञेवतोपुत्र देशांतरगयो तेनाघरनीतामेना एकवृद्धपर एकनूतरे
 तो हतोतेठलपामि पुत्रनोरूपधारणकरी तेनीघरनी बायडीसार्थेलागुपढ्यो एम
 करतातेज्ञेवतोदीकरो पोतानेघरेंआव्यो तेवारेंघरमां लडाइचालवाजागी पठेराजदर
 वारें इनसाफनेवास्तेगया तिहांथी नूतनेघरमांथी काढवानुंठुं पणतेनूतनिकव्यो
 नही नेकेवालाग्योकेहुं जवानोनथी हुंपणपुत्रहुं एवातसांजलोवहुने लाजलागी ठे
 जेज्ञेवतेनूतने वैरीसार्थे युद्धकरवानोकामनलाव्यो अनेवहुने घरनोधंधोनलाव्यो ए
 रीतेंअनाचारटायो अनेवहुनेराखी तेमसुनीयेपण संयमनायोगें आत्मानेराखवो

या निश्चयैकलीनानां क्रिया नातिप्रयोजना ॥ व्यवहारदशास्था
 नां ता एवातिगुणावहाः ॥ १९ ॥ कर्मणोपि हि शुद्धस्य श्रद्धामेधा
 दियोगतः ॥ अद्भुतं मुक्तिहेतुत्वं ज्ञानयोगानतिक्रमात् ॥ २० ॥

अर्थ ॥ जेनुंमननिश्चयमां लीनठे तेनेक्रियातुं प्रयोजननथी व्यवहारदशावाला
 ने क्रियाते अतिगुणकारीठे ॥ १९ ॥ अन्नकर्मथीअने श्रद्धाबुद्धिनायोगथी अखंडप
 णे जोज्ञानयोगने उलंघेनहीतो तेहनेमुक्तिनोहेतु प्रगटथाय ॥ २० ॥

अन्यासे सत्क्रियापेक्षा योगिनां चित्तशुद्धये ॥ ज्ञानपाके शमस्यै
 व यत्परै रप्यदः स्मृतं ॥ २१ ॥ आरुरुक्तो मुनेर्योगं कर्मकारण मु
 च्यते ॥ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ जेरुडीक्रियानीअपेक्षायें अन्यासकरेठेते योगीश्वरने चित्तशुद्धिनेअर्थें ज्ञान
 परिपक्करवाने अंशमकधुंते एमअन्यदशीनीतें पणकहेठे ॥ २१ ॥ हेअर्जुन योग
 पामवानेइष्टताजेयोगीठे तेहनेकर्मतो एककारणठे जेवारेंसर्व संकल्पशमिजाय तेवा
 रेंतेनेज्ञानयोगी कहियें तेमाटेज्ञानारूढने समतातेजकारणठे ॥ २२ ॥

यदा हि नैजियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्यते ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासी
 योगारूढ स्तदोच्यते ॥ २३ ॥ ज्ञानं क्रियाविहीनं न क्रिया वा
 ज्ञानवर्जिता ॥ गुणप्रधानत्वावेन दशाब्देः किलैनयोः ॥ २४ ॥

अर्थ ॥ जेवारेंविषयथीविरमें कर्मनेविषे संलग्नथाय जेवारेंसर्व संकल्पशमीजा
 य तेवारेंतेहने योगारूढकहियें ॥ २३ ॥ क्रियाविना ज्ञाननथी अनेज्ञानविना क्रि
 यानथी एवमांक्रियातेगीणठेअनेज्ञानतेमुख्यठे एवोएवेनो दिशीनेदकह्योठे ॥ २४ ॥

ज्ञानिनां कर्मयोगेन चित्तशुद्धि सुपेयुषां ॥ निरवद्य प्रवृत्तीनां
ज्ञानयोगौचित्यं ततः ॥ १५ ॥ अतएव हि सुश्रद्धा चरणस्पर्श
नोत्तरं ॥ दुःपालश्रमणाचार ग्रहणं विहितं जिनैः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ कर्मयोगेकरिने मनशुद्धिपामेलाअने निर्दोषविहारी एहवाजेज्ञानी तेहने
ज्ञानयोग मुख्यपणेसेववो उचितठे एवोवीतरागनोमतठे ॥ १५ ॥ एमाटेरुमीश्रद्धा
येदेशविरतिरूप चारित्रनो स्पर्शकीधापठे दुखेपालिसकिये एवामुनीनोआचार जेस
वैविरतिपणुंतेतेलेवो एटलेप्रचुये पठेसंयमलेवुंकलुंठे ॥ १६ ॥

एकोद्देशेन संवृत्तं कर्म यत्पूर्वजूमिकं॥दोषोत्तेदकरं त तस्या
द् ज्ञानयोगप्रवृद्धये॥१७॥अज्ञानिनां तु यत्कर्म न ततश्चि
त्तशोधनं॥योगादेरतथाज्ञावाद् म्लेहादिकृतकर्मवत् ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ कोइएकदेशआश्रिने पूर्वजूमितेपूर्व जवरूपसंवृत्तपणे उदेशीने एटलेदे
शयकी जेपेहेजांवृत्तआदखां एहवीजेक्रिया तेपणदुःखने टालनारीठे वलीज्ञानयोग
नीवृद्धिकर्त्ताथायठे ॥ १७ ॥ अनेअज्ञाननीजेक्रिया तेचित्तशुद्धि करवानेअर्थ नही
थाय केमकेतेहनेज्ञानयोगनो अज्ञावठेमाटे म्लेहनाकरेला कार्यसरखीतेजाणवी

न च तत्कर्मयोगेपि फलं संकल्पवर्जनात्॥संन्यासो ब्रह्मबो
धाद्या सावद्यत्वा त्स्वरूपतः ॥ १८ ॥ नोचेदित्थं जवेबुद्धिर्गोहिं
सादेरपि स्फुटा ॥ श्येनाद्वावेद विहिता विशेषानुपलक्षणात् ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ तोतेवाकर्मयोगेपण फलनथी फलतोसंकल्पवर्जे तेवारेंजथायठे आत्मज्ञा
नविना त्यागपणनथी अनेएनुस्वरूप सावद्यठे माटेब्रह्मजेज्ञान तेनावोधयकी फ
लप्रगटे ॥ १८ ॥ जोकदापोएमबुद्धिनहोय तेवारेंतो गोहिंसादिक थकीम्लेहादिक
नेपण प्रगटशुद्धिहोय तथासिंचाणानावधथीवेदमां पशुयागकह्या तेथकीहिंसकक
र्मनायोगे वेदीयाना अनेम्लेहना एकसरखांजलक्षणठे कांइविशेषनथी ॥ १८ ॥

सावद्यकर्म नो तस्मा द्वादेयं बुद्धिविप्लवात् ॥ कर्मोदयागते त
स्मिन्नसंकल्पादबंधनं ॥ ३२ ॥ कर्माप्याचारतोज्ञातु मुक्ति
जावो न हीयते॥तत्र संकल्पजोबंधो गीयते यत्परैरपि ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ एटलामाटे बुद्धिनाविपर्याशपणाथी सावद्यकर्मआदरवुंनही अनेजोदैव
योगे तेवाकर्मकरवानुंउदय आव्युं तेवारेंतेकर्मकरवानुं जोसंकल्पनथी तोतेकर्मनुं

बंधनपणनथी ॥३१॥ संसारिकक्रियानोजो आचारणे तोपणज्ञानीने मुक्तिजावनी हा
एनथी. केमकेसंकल्पथीबंधनठे एवुंअन्यदर्शनवालानुंपणकेवुंठेतेजुथोआगलकहेठे

कर्मण्यकर्म यः पश्ये दकर्मणि च कर्म यः ॥ स बुद्धिमान्मनुष्ये
पु स युक्तः कृतकर्मकृत् ॥ ३३ ॥ कर्मण्य कर्मवा कर्म कर्मण्य
स्मिन्नृजे अपि ॥ नोजे वा जंगवैचित्र्या दकर्मण्यपि नो मते ॥३४॥

अर्थ ॥ जेकर्मनेविसर्जे अकर्मपणुदेखेठे अनेकर्मनथीकरतो अनेजाणेठे जेहुंकरं
हुं तेनेमाणसमां बुद्धिवंतकहियें तेकरवापणानाकर्मने अकरवापणुदेखेठे ते पोतेपोता
नेस्वरूपेठे एमषणीजंगजाल प्रगटेठे ॥ ३३ ॥ निःकर्ममार्गनेविषे नहीमान्युं तेअकर
रवुंययुं अने अकरवापणेजेकरेठे तेनावेजांगठे एमकरवानाविचित्र जांगठे ॥३४॥

कर्म नैःकर्मवैषम्य मुदासीनो विजावयन् ॥ ज्ञानी न लिप्यते जोगैः
पद्मपत्रमिवांजसां ॥ ३५ ॥ पापाकरणमात्राद्धि न मौनं विचिकि
त्सया ॥ अनन्यपरमात्मा स्यात् ज्ञानयोगी जवेन्मुनिः ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ उदासीनाववालो विचित्रपणेंकर्महुं विषमपणुचिंतवे जेमकमलपत्रजल
मांलेपातुंनथी तेमज्ञानीपुरुष जोगमांलेपातोनथी ॥ ३५ ॥ पापनकरवाथी कांइमुनि
पणुआवतुनथी संशयरहितपणे पोतेजज्ञानयोगमय परमात्माथाय तेनेमुनिकहियें

विषयेपु न रागी वा द्वेषीवा मौनमश्नुते ॥ समं रूपं विदंस्तेपु
ज्ञानयोगी नलिप्यते ॥३७॥ सतत्वचिंतयायस्या निसमन्वा
गता इमे ॥ आत्मवान् ज्ञानवान्वेद धर्मब्रह्ममयोहि सः ॥३८॥

अर्थ ॥ विषयनेविषे जेनेरागनथी तेमद्वेषपणनथी तेनेमुनिकहियें मध्यस्थपणे
रूपादिकनेजाणतो जेज्ञानीयोगीतेने ज्ञेपलागतोनथी ॥ ३७ ॥ जेषोतत्वनीओलखा
एवहे समताधारणकीथी तेनेज आत्मानिओलखाणथइ अनेतेजज्ञानी तथातेजध
र्ममय तथाब्रह्ममयकेहेवाय ॥ ३८ ॥

वैषम्यबीजमज्ञानं निघ्नंति ज्ञानयोगिनः ॥ विषयांस्ते परिज्ञाय
लोकं जानंति तत्ततः ॥३९॥ इतथापूर्वविज्ञाना द्विदानंदविनोद
तः ॥ ज्योतिष्मंतो ज्वल्येते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ ४० ॥

अर्थ ॥ संसारनुंविषमबीज जेथज्ञानठे तेबीजनेज्ञानयोगीवालीनाखेठे. तथा

विषयादिकनेत्रोलखीने तत्वशीलोकनास्वरूपनेजाणोठे ॥३९॥ तेअपूर्वअनुभवशी अ
नेज्ञाननाआनंदमयविनोदशी महाज्योतिवंतथायअनेतेनापापज्ञानेकरीबलीजाय ४०

तेजोलेश्याविवृद्धिर्या पर्यायकर्मवृद्धितः ॥ चाषिता जगवत्या
दौ सेढंजूतस्य जायते ॥४१॥ विषमेपि समेह्नी यः स ज्ञानी स च
पंडितः ॥ जीवन्मुक्तः स्थिरं ब्रह्म तथाचोक्तं परैरपि ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ दीक्षापर्यायनीवृद्धिशी ज्ञानसुखनीवृद्धिथायठे एमजगवतीआदेदेइने सू
त्रोमांकहुंठे तेएवाप्राणीनेप्रगटथाय ॥४१॥ विषमनेविषेजे समजावेंजुए तेवाज्ञानीने
पंडितकहिये वली जीवन्मुक्त अनेस्थिर तथाब्रह्मपणतेनेजकहिये ॥ ४२ ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ शुनि चैव श्वपाके च
पंडिताः समदर्शिनः ॥ ४३ ॥ इहैव तैर्जितः सर्गो येषांसाम्ये
स्थितं मनः ॥ निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥४४॥

अर्थ ॥ तेमजपरदर्शिनियेपणकहुंठेके हेअर्जुन विद्याविनयसहितजे ब्राह्मण जे
गाय हाथी कुतरुं चंडाल एसर्वनेसमदृष्टियेजुएठे तेनेपंडितकहिये ॥ ४३ ॥ एहवा
जीवेइहांवेठेथकेज जगतसृष्टीनेजीतीलइने तेनुंमनसमतापाम्युं तेनिर्दोषिपणेसम्यक्
जेआत्मस्वरूप तेनिर्दोषठे तेनेपाम्योतेब्रह्मज्ञानेरह्यो एमजाणवुं ॥ ४४ ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजे त्प्राप्य चाप्रियं ॥ स्थिरबुद्धिर
संमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ४५ ॥ अर्वाग् दशायां दोषाय
वैषम्ये सम्यदर्शनं ॥ निरपेक्ष मुनीनां तु रागद्वेषह्ययाय तत् ॥४६॥

अर्थ ॥ जेरुंमलेहर्षनकरे अनेजुंप्राप्तथये शोकनधरे तेस्थिरबुद्धिवालो चतुरप्रा
णी ब्रह्मनोजाणते ब्रह्मज्ञानेरह्योठे एमजाणवुं ॥४५॥ हेवलीदशावालाने तोजेविषमने
विषे समपणेजोवुं तेदोषनुंकारणठे अनेजेनिरापेक्षीमुनि तेनेतोविषमने समपणेजो
वुं तेरागद्वेषनोह्य करनारथायठे ॥ ४६ ॥

रागद्वेषह्ययादेति ज्ञानी विषयशून्यतां ॥ विद्यते त्रिद्यते वा यं
हन्यते वा न जातुचित् ॥ ४७ ॥ अनुस्मरतिनातीतं नैव कांक्षत्य
नागतं ॥ शीतोष्णसुखदुःखेषु समो मानापमानयोः ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ रागद्वेषनाह्यशी ज्ञानीमुनि विषयनीशून्यतापणाने पामेठे तेनेकोइठेदी

शकेनही कोऽज्ञेदीशकेनही कोऽहणीशकेनही केमके तेपोतानो आत्माआत्मस्वरूपे
मानेते ॥४॥ केमकेतेज्ञानीपुरुष गऽवस्तुनेसंजारेनही अनेअनागतवस्तुनेऽधेनही शी
तथने उभतथासुख अनेदुःख वलीमानअनेअपमान एतर्वने समपणेमानेते ॥४॥

जितेंद्रियो जितक्रोधो मानमायानुपद्रुतः ॥ लोचसंस्पर्शरहितो
वेदखेदविवर्जितः ॥ ४९ ॥ संनिरुध्यात्मनात्मानं स्थितः स्वकृ
तकर्मजित् ॥ हठप्रयत्नोपरतः सहजाचारसेवनात् ॥ ५० ॥

अर्थ ॥ जेक्रोधरहित तथा मानमायानाउपड्वें रहित अने लोचनास्पर्शरहित वेदो
दयरहित खेदरहितजेहोय तेनेजितेंद्रिकहियें ॥ ४९ ॥ तेआत्माएकरी आत्मानेरो
धीरह्यो पोतानाकखा कर्मनेजेदतो कदाग्रहशीविरम्यो स्वजाविकआचारने सेवतो ॥ ५० ॥

लोकसंज्ञाविनिर्मुक्तो मिथ्याचारप्रपंचहत् ॥ उल्लसत्कंठक
स्थानः परेण परमाश्रितः ॥ ५१ ॥ श्रद्धावानाज्ञया युक्तः श
स्त्रातीतोह्यशस्त्रवान् ॥ गतो दृष्टेपु निर्वेद मनिन्दुत पराक्रमः ॥ ५२ ॥

अर्थ ॥ लोकसंज्ञाशी मुकाणो मिथ्यात्वआचारनोटाजनार योगस्थानकें उल्लसित
तथयोते एवोजेउल्लूष्टनावें आत्मानोआश्रितथयोते ॥ ५१ ॥ तथाश्रद्धावंत आज्ञा
युक्त अने मागअध्वयसायरूपजे शस्त्र तेषीवेगजोरहेलो अनेबाह्यशस्त्रधीरहित
वेखइतापदार्थनेविषे वैराग्यवान वली बलवीर्यनेअणगोपवनार ॥ ५२ ॥

निहितदंभो ध्यानाग्नि दग्धपापैधनव्रजः ॥ प्रतिस्त्रोतोनुगत्वेन
लोकोत्तरचरित्रज्ञत् ॥ ५३ ॥ लब्धानुकामान्वहिः कुर्वं ब्रकुर्वं
न्बहुरुपतां ॥ स्फारीकुर्वन् परं चक्षुरपरं च निमोलयन् ॥ ५४ ॥

अर्थ ॥ अने ब्रणदंडरहित जेणे ध्यानरूपअग्नीएकरी पापरूपकांठनासमूहने वा
व्योते जे सामेंप्रवाहे चालवेकरीने लोकोत्तरचरित्रनो धरनार ॥ ५३ ॥ तथा विषय
सुखपामिने तेसुखदूरकरनार तथा मायाकपट अनेक्रोधादिकने अणकरतोयको
तेज्ञानचक्षुने विकस्वरकरतो अज्ञानरूप चक्षुने बंधकरतोयको ॥ ५४ ॥

पश्यन्नंतर्गतान् ज्ञवान् पूर्णज्ञावमुपागतः ॥ जुंजानोध्यात्मसा
च्चाज्य मवशिष्टं नपश्यति ॥ ५५ ॥ श्रेष्ठोहि ज्ञानयोगोय माध्यात्म
न्येव यज्जगौ ॥ बंधप्रमोहं जगवान् लोकसारे सुनिश्चितं ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥ वलीजेअध्यात्मनावने देखतोथको पूर्णनावने पामेलो अध्यात्मनी ठकुरा
इने नोगवतोथको अन्यपदार्थने नथीजोतो ॥ ५५ ॥ एउपरकह्यो तेउत्कृष्टज्ञानयोगठेए
अध्यात्मग्रंथनेविषे बंध मोक्षपण नगवंतेनिश्चं आचारांगनालोकसार अध्ययने कहुंठे

उपयोगैकसारत्वात् दाश्वसंमोहबोधनः ॥ मोक्षाप्ते युज्यते चैव
तथाचोक्तं परैरपि ॥ ५७ ॥ तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यो प्य
धिकोमतः ॥ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी नवार्जुन ॥ ५८ ॥

अर्थ ॥ मोक्षप्राप्तिनेविषे उपरकहेलोज्ञानयोग घटेठे केमके शीघ्रपणे ज्ञानजा
गृत एहवोउपयोगजमात्र एकसारठे अनेअन्यदर्शनीएपण एमजकहुंठे ॥ ५७ ॥
तपसीथी योगीअधिकठे ज्ञानीथी अने राजाथीपण योगीनेमोटोकह्योठे तेमाटे
श्रीकृष्णे अनर्जुनेकहुंठेके हेअर्जुन तुमेपणयोगीथायो ॥ ५८ ॥

समापत्तिरिहव्यक्त मात्मनः परमात्मनि ॥ अज्ञेदोपासनारूप
स्ततः श्रेष्ठतरोह्ययं ॥ ५९ ॥ उपासना जागवती सर्वेभ्योपि ग
रीयसी ॥ महापापहृषकरी तथा चोक्तं परैरपि ॥ ६० ॥

अर्थ ॥ माटेइहां आत्मानिसमाप्तिप्रगटेठे आत्मा तथा परमात्माए बेउनेविषे
अज्ञेदपणे सेवनरूपजेयोग तेजघणोजश्रेष्ठठे ॥ ५९ ॥ माटेसर्वथीमोटी अनेमोटा
पापनेटालेएवीप्रचुनीसेवाठे अनेपरदर्शनीयेपण एवुंजकहुंठे ॥ ६० ॥

योगिनामपि सर्वेषां सज्जतेनांतरात्मना ॥ श्रद्धावान् नजते यो
मां स मे युक्ततमोमतः ॥ ६१ ॥ उपास्ते ज्ञानवान् देवं यो निरंज
नमव्ययं ॥ स तु तन्मयतां याति ध्याननिर्धूतकल्मषः ॥ ६२ ॥

अर्थ ॥ सर्वयोगीमांपण अंतरआत्माये नव्योएवो श्रद्धावंतप्राणी तोतेहनेकहि
येजेमुजनेसेवे तेमुजसरखोपुरुत्तषोमथाय एमश्रीकृष्णअर्जुननेकहेठे ॥ ६१ ॥ ज्ञानवंत
निरंजन अने अविनाशीदेवजाणीने जेपुरुषमनेसेवेठे तेतन्मयिपणेशायठे अनेजे
षोमहाराथ्यानथी पापबालीनाख्याठे हेअर्जुन तेपुरुषमाहरारूपेयायठे ॥ ६२ ॥

विशेषमप्यजान्मनो यः कुग्रहविवर्जितः ॥ सर्वज्ञं सेवते सोपि
सामान्यं योगमास्थितः ॥ ६३ ॥ सर्वज्ञो मुख्य एकस्तत् प्रतिप
त्तिश्च यावता ॥ सर्वेपि ते तमापन्ना मुख्यं सामान्यतो बुधाः ॥ ६४ ॥

अर्थ ॥ जे विशेषने अणजाणतोळे तोपणजे कदाग्रहेंरहिते अनेजेसर्वज्ञनेसेवेळे तेपण सामान्ययोगे आश्रितते ॥ ६३ ॥ सर्वप्रमाणमां एकसर्वज्ञतोमुख्यते तेहनी सेवाना करनारजेटलाळे तेसर्वतेहिज सर्वज्ञनाचावनेपामे पणसर्वज्ञसुमुख्यपणुं पंभि तो सामान्यथकीकहेते ॥ ६४ ॥

न ज्ञायते विशेषस्तु सर्वथा सर्वदर्शिनिः ॥ अतो न ते तमापन्ना विशेष्य जुवि केचन ॥ ६५ ॥ सर्वज्ञप्रतिपत्यंशा तुल्यता सर्व योगिनां ॥ दूरासन्नादिचेदस्तु तद्भृत्यत्वं निहंति न ॥ ६६ ॥

अर्थ ॥ तेसर्वथाप्रकारें सर्वज्ञ सर्वदर्शीतेवडेपण विशेषतोजाणतोनथी तेथीते कोइ विशेषनूमिकाने पाम्यानथी एटले पृथ्वीमांकोइ विशेषजाणपणे सर्वज्ञपणुंपाम्यानथी ॥ ६५ ॥ सर्वज्ञपणानाजेप्रत्येक अंशते तेसर्वयोगीनेसरिखाळे माटेढुकडा अनेवेगजापणाना चेदथी तेहनुंसेवकपणुं कांइहणातुंनथी ॥ ६६ ॥

माध्यस्थमवलंब्यैव देवतातिशयस्य हि ॥ सेवा सर्वैर्बुधैरिष्टा का जातीतोपि यज्जगौ ॥ ६७ ॥ अन्येपामप्ययं मार्गो मुक्ताविद्या दिवादिनां ॥ अज्ञिधानादिचेदेन तत्त्वरीत्या व्यवस्थितः ॥ ६८ ॥

अर्थ ॥ माध्यस्थपणुं अवलंबीने एटलेदेवताना अतिशयनुं माध्यस्थपणुं धारी ने सर्वपंमितेसेवामानीळे कालथी अतीतते तोपणएमकहेते ॥ ६७ ॥ बीजापणमु क्वादीनो अनेअविद्यादिकवादी जेपरदर्शनी तेनोपण आमार्गते एटले पूर्वेकह्योतेमा र्गते जोपण नामादिकजेदेकरी कदापिजुदाते तोपणतत्त्वरीतें जोतांएकजव्यवस्थायते

मुक्तोबुद्धोर्हेश्वापि य दैश्वर्येण समन्वितः ॥ तदीश्वरः स एव स्यात् संज्ञाचेदोत्र केवलं ॥ ६९ ॥ अनादिशुद्धइत्यादि योंचेदो यस्य कल्प्यते ॥ तत्तत्रानुसारेण मन्ये सोपि निरर्थकः ॥ ७० ॥

अर्थ ॥ तेव्यवस्थाकहोदेखाडेते कोइदर्शनी मुक्तिकेहेते कोइबुद्धकहेते कोइक अर्हतकहेते कोइकएश्वर्ययुक्त एटलेईश्वरकहेते एतसर्वसर्वज्ञनीसंज्ञानाचेदते बीजुंकांइ नथी ॥ ६९ ॥ तेमजवलीअनादिशुद्धईश्वरते इत्यादिकजेदेजे परदर्शनीथोकल्पेते तेजेदसिद्धांतने अनुसारेविचारीयें तोमानवा पणनिरर्थकते इतिज्ञावः ॥ ७० ॥

विशेषस्यापरिज्ञानाद् युक्तीनां जातिवादिनः ॥ प्रायोविरोधत
 श्रैव फलान्नेदाच्च नावतः ॥ ७१ ॥ अविद्या क्लेशकर्मादि यतश्च
 नवकारणं ॥ ततः प्रधानमेवैत त्संज्ञानेदमुपागतं ॥ ७२ ॥

अर्थ ॥ केमकेजे विशेषनेनहिजाण्याथी उक्तियुक्तीनाजातिवचनथी अने प्रायेवि
 रोधयकी नावथीफलनोअनेदने एहेतुमाटे ॥ ७१ ॥ जेअविद्या क्लेशअने कर्मइत्यादिकजे
 संसारनाकारणप्रगटे तेकेटलाएक दर्शनीओजूदाजूदाकहेते एटलेकोइअविद्या कोइ
 क्लेश कोइकर्मएमसंज्ञायें करीनेदकहेते पणएत्रणेप्रधानपणे एकजठे ॥ ७२ ॥

यस्यापि यो परोनेद श्चित्रोपाधिस्तथा तथा ॥ गीयतेऽतीतहेतु
 ज्यो धीमतां सोप्यपार्थकः ॥ ७३ ॥ ततःस्थानप्रयासोय यत्त
 नेदनिरूपणं ॥ सामान्यमनुमानस्य यतश्च विषयोगतः ॥ ७४ ॥

अर्थ ॥ एअविद्यादिकत्रणनावली बीजांनेद कल्पनायेंअनेकथायठे तेथीअनेकप्र
 कारनी उपाधिनीपजे तेमतेमजाणियेंजेहेतुनोअनावथायठे पणतेउपाधिनेद पंडि
 तनेनिरर्थकठे एमजाणवुं ॥ ७३ ॥ तेथीआस्थाननोजेप्रयास तेनेदनुंनिरूपणकर
 वाने अनुमाननोविषय तेसामान्यजाणवो केमके ज्याअनुमान प्रमाणकरियें त्यांसा
 मान्यपणे उपयोगीहोयतेवारें अनुमानविषयनो अनावथाय ॥ ७४ ॥

संक्षिप्तरुचिजिज्ञासो विशेषान्न बलं बलं ॥ चारिसंजीविनीचा
 र इतादत्रोपयुज्यते ॥ ७५ ॥ जिज्ञासापि सतां न्याय्या यत्प
 रेपि वदंत्यदः ॥ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ७६ ॥

अर्थ ॥ जेम संजीवनीनामाचारोजे घासबुटीतेने ओलखनारी एकमोटीखीयें ते
 बुटीनेयोगें बीजीनानीखीनानतरने पशुअवस्थामांथी पुरुषबनाव्योतेम संक्षेपरूची
 वालो विशेषबलवानकेवारेंकेवाय जेवारेंतेनीप्रीति साचेसाचीहोय तेवारेंकहेवाच प
 णसाचीप्रीतीविनानुं विशेषबलतेबलमानगणाय ॥ ७५ ॥ माटे एत्रणजेकामादियोगते
 नेविषे सत्पुरुषेंजाणपणुराखवुं उचितठे परदर्शनीनुं केवुंपणएवुंजठे हेअर्जुन जे
 पुषज्ञानयोगनेजाणवाइहे तेपुरुषपरमात्मानी दिशानेपामेठे ॥ ७६ ॥

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चेति चतुर्विधाः ॥ उपासकास्त्रयस्त
 त्र धन्या वस्तुविशेषतः ॥ ७७ ॥ ज्ञानी तु शांतविद्वेषो नित्यन
 क्तिर्विशिष्यते ॥ अत्यासन्नोह्यसौ चतु रंतरात्मा सदाशयः ॥ ७८ ॥

अर्थ ॥ एकडःखी बीजोजाणवानी इन्हावालो त्रीजोधननोअर्थीं अने चोयोज्ञानी
एवारप्रकारना हेअर्जुन मारासेवकोठे पणतेमध्ये एकधनार्थीविनाजे बीजात्रण
जातना सेवकतेवस्तुतलनाजाणते माटेधन्यठे वखाणवायोग्यठे ॥ ७७ ॥ एत्रणने
धन्यकहातेमां पण जेनोविक्षेपशम्योठे अने नित्यनक्तिवंत एहवोज्ञानीएरुषजे चो
यो तेमोटोजाणवो तेज्ञानीअमारीपासे अत्यंतनजीकरहेते माटेअष्टठे केमकेअंतरा
त्मायेंवर्तेते अनेतेनाआशयनिर्मलठे तेमाटे ॥ ७८ ॥

कर्मयोगविशुद्धस्तद् ज्ञाने युंजीत मानसं ॥ अज्ञश्च श्रद्धधानश्च
संशयानो विनश्यति ॥ ७९ ॥ निर्जयः स्थिरनासाग्र दत्तदृष्टि व्रते
स्थितः ॥ सुखासनः प्रसन्नास्यो दिशश्चानवलोकयन् ॥ ८० ॥

अर्थ ॥ हेअर्जुन कर्मयोगें विद्युद्धको तेप्राणी ज्ञानमांपोतातुं मनजोहेते अ
नेहेअर्जुन एकमुखबीजो अक्षरहित अनेत्रीजो संशयनरेलोमाणस एत्रणोविनाश
पामेठे ॥ ७९ ॥ निर्जय नाशिकानाअग्रजागनेविषे दृष्टिराखीने स्थिररहेनार तथा
निरंतर व्रतमांरहेनार एहवोमुखआसनवेवो बलीप्रसन्नमुखठे जेहनो अने एकदृष्टिरा
खनार आहुंअवलुंनहीजोनार ॥ ८० ॥

बेहमध्यशिरोऽग्रिव मवक्रं धारयन्बुधः ॥ दंतैरसंस्पृशन् दंतान्
सुश्लिष्टाधरपद्मवः ॥ ८१ ॥ आर्त्तरौंजे परित्यज्य धर्मं शुद्धे च
दत्तधीः ॥ अप्रमत्तो रतो ध्याने ज्ञानयोगी जवेन्मुनिः ॥ ८२ ॥

अर्थ ॥ केड मस्तकअने कोटतेने पांतराधरतो एटले शरीरनी चपलाइवांकाइर
हित एहवोदाह्यो दांतेकरीदांतने अणफरसतो एटलेस्पर्शकरतोनाथी अने जेनाहोव
पद्मववेठरुडीरीतेंमलेलाहोय ॥ ८१ ॥ तथा आर्त्तरौंज्य ध्यानठांमीने धर्मशुद्धध्यानमांछु
द्विधीधींते अनेचावेंअप्रमत्तपणें ध्यानमांरतथको एवोजेमुनि तेनेज्ञानयोगीकेहेवो

कर्मयोगं समग्रस्य ज्ञानयोगसमाहितः ॥
ध्यानयोगं समारुह्य मुक्तियोगं प्रपद्यते ॥ ८३ ॥

अर्थ ॥ तेमुनिकर्मयोगनो अन्यातकरी चढवानेउजमालयइ ज्ञानयोगरूपदोरहुं
जालीतमाधिपणो ध्यानयोगनीशरणीयेंचडीने मुक्तियोगरूपमंवीरनेपामे ॥ ८३ ॥
इतियोगाधिकारः पंचदशमोसमाप्तः

स्थिरमध्यवसानं यत्तद्व्यानं चित्तमस्थिरं ॥ जावना वा प्यनुप्रे
क्षा चिंता वा तत्रिधा मतं ॥ १ ॥ मुहूर्त्तार्त्तवेद्यान मेकार्थं मन
सः स्थितिः ॥ बद्धर्थसंक्रमे दीर्घाप्यञ्जिन्ना ध्यानसंततिः ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेचित्तचपलते पणतेचित्तनेजेस्थिरपणे चित्तनाअध्यवसायने प्रगटकरेतेवा
रें तेनेध्यानयोगीकद्विये एकजावना बीजीअनुप्रेक्षा अनेत्रीजो चिंतानुध्यानएत्रणप्र
कारें चित्तचपलथायते ॥ १ ॥ अंतर्मुहूर्त्तध्यानहोय पणजिहां एकवामे एकअर्थनेवि
षे घणाअर्थनुं संक्रमणथाय एवीमननी स्थितिहोय तिहांध्याननी अविञ्जिन्नदीर्घप
णे परंपराथाय तिहांकांश्चअंतर्मुहूर्त्तनो नियमनथी ॥ २ ॥

आर्त्त रौञ्च धर्मं च शुक्लं चेति चतुर्विधं ॥ तत्स्यान्नेदाविह द्वौ
द्वौ कारणं नवमोक्तयोः ॥ ३ ॥ शब्दादीनामनिष्ठानां वियोगा
संप्रयोगयोः ॥ चिंतनं वेदनायाश्च व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ आर्त्तरौञ्चधर्मनेशुक्ल एचारध्याननाजेदते तेमध्येप्रथमनावेध्यानते संसा
रनाकारणीकते अने पाठलावेध्यानते मुक्तीनाकारणवाचीते ॥ ३ ॥ तेमांप्रथम
आर्त्तध्यानना चारजेदकहेते प्रथमअनिष्टजेशब्दादिक तेनोवियोगवांते केरखेअनि
ष्टनोसंयोगवने तेमअनिष्टमलेजे पीडाथायतेनुं चिंतनकरेतेथीव्याकुलथाय ॥ ४ ॥

इष्टानां प्रणिधानं च संप्रयोगवियोगयोः ॥ निदानचिंतनं पाप
मार्त्तमिहं चतुर्विधं ॥ ५ ॥ कापोतनीलकृष्णानां लेश्यानामत्र
संज्ञवः ॥ अनतिक्रिष्टजावानां कर्मणां परिणामतः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ बीजोत्पेद इष्टनुंचिंतनकरे एटलेखेइष्टवस्तुना संयोगनोवियोगयइजाय
त्रीजोनियाणाकरे चोश्रुरोगनाअपौषधनीचिंताकरे एचारआर्त्तध्याननाप्रकारते ॥ ५ ॥
एमध्ये कापोत नील कृष्ण एत्रणलेश्यानोसंज्ञवते केमके जेमांअतिक्रिष्टजावनानथी
कोइककर्मनीपरिणतीना परिणामैकरी एत्रणलेश्यानोसंज्ञवते ॥ ६ ॥

क्रंदनं रुदनं प्रोच्चैः शोचनं परिदेवनं ॥ ताम्नं लुंचनं चेति लि
गान्यस्य विडुर्बुधाः ॥ ७ ॥ मोघं निदन्निजं कृत्यं प्रशंसन् पर
संपदं ॥ विस्मितः प्रार्थयन्नेताः प्रसक्तश्चैव दुर्जनः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ बकोरकरवो उंचेस्वरेरडवुं शोचनाकरवी नामदश्नेरडवुं मारवुंमाथाना

वालतोडवा इत्यादिकने पंडितार्चिध्यानना लक्षणकहेते ॥ ४ ॥ अमेमंदबुद्धियें
 एमकहीने पोतानुंकार्यनिंदे अमेशुंपालीछुं मुक्तिमार्गतोमोहोदोणे एमप्रशंसाकरे एम
 विस्मितयको लोकपाते मांगतोफरे इत्यादिकडर्जननीरीतते ॥ ५ ॥

प्रमत्तश्चैजियाथेषु गृध्रो धर्मपराडमुखः ॥ जिनोक्तमपुरस्कुर्व
 न्नार्तध्याने प्रवर्तते ॥ ६ ॥ प्रमत्तांतगुणस्थानानुगमे तन्महात्म
 ना ॥ सर्वप्रमादमूलला त्याज्यं तिर्य्यग्गतिप्रदं ॥ १० ॥

अर्थ ॥ जेप्रमादीहोय विषयमांलीनहोय धर्मधींजळटोहोय जिनवाणीनेगोपवे
 तेवोपुरुष अर्तध्यानमां प्रवर्तते ॥ ६ ॥ माटेअध्यानत्रपला गुणगणापामतांथकां प्रमा
 दमांपाडे अनेअध्यान ठगाणुणगणालगंरहे माटेमोटासुनियें सर्वप्रमादनुंमूल तथा
 तिर्य्यचगतिपमाने एंजुजाणीनेअध्याननेगोडवुं ॥ १० ॥

निर्दयं वधबंधादि चित्तं निविडकुधा ॥ पिशुनासत्यमिध्या
 याक् प्रणिधानं च मायया ॥ ११ ॥ चौर्यधीनिरपेक्षस्य तीव्रक्रो
 धानिलस्य च ॥ सर्वांजिशांकाकलुपं चित्तं च धनरक्षणे ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ हवेजेनिर्दयहोय जीवनोवध बंधनादिकचित्तवे आकरो क्रोधीहोय चाडी
 शंकायेंमेलुमनराखनार एटलेखने कोइमारुंधनजुए अनेलेइजाय ॥ ११ ॥ चोरीकरनार प
 एतत्सदोपकरण कारणानुमतिस्थिति ॥ देशाविरतिपर्यंतं रौ
 ज्घ्यानं चतुर्विधं ॥ १३ ॥ कापोतनीलकृष्णानां लेश्यानामत्र
 संभवः ॥ अतिसंश्लिष्टरूपाणां कर्मणां परिणामतः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ एरीतेंअध्याननेकरवे कराववे अने अनुमोदवानीस्थितियें करीअध्यान दो
 पनुंकारणवे अध्यानचोथा अविरतियुणगणा अनेपांचमां देशविरति गुणगणासुधी
 होयएरीतेंरौइध्यानना चारनेदकहा ॥ १३ ॥ कापोत नीलअनेरुल एत्रणलेश्यानां
 इहांसंनववे अथति संश्लिष्टरूपजे कर्मतेनपरिणामधीहोयवे ॥ १४ ॥
 उत्सन्न बहुदोपत्वं नानामरणदोपता ॥ हिंसादिषु प्रवृत्तिश्च क
 लाघं स्मयमानता ॥ १५ ॥ निर्दयत्वाननुशयौ बहुमानः परापदि ॥
 लिगान्यत्रेत्यदोधीरि स्त्याज्यं नरकडःखदं ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ एप्रार्ये घणादोपतुंकारणते नानाप्रकारना जीवनेमारवाना दोषेकरी हिंसादिकमां प्रवृत्तियाय पापकरीने खुशबक्तीपणुंमाने ॥ १५ ॥ निर्दयपणुं पश्चात्तापपणुं परत्रापदाये राजीपणुं अनेमहाविषयीपणुं एचिन्हेकरी एध्याननरकना दुःखनोत्रापनारोते माटेएध्यानने ठांडवो ॥ १६ ॥

अप्रशस्ते इमे ध्याने डुरंते चिरसंस्तुते ॥ प्रशस्तं तु कृताच्यासो ध्यानमारोढुमर्हति ॥ १७ ॥ जावनादेशकाले च स्वासत्तालंबनक्रमात् ॥ ध्यातव्यध्यानानुप्रेक्षा लेश्यालिंगफलानि च ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ एवांएवेध्यानते महानिर्वलते एनोघणो परिचयकरिये तोतेथीकमवा विपाकप्रगटे माटेडाह्यापुरुषे अन्यासकरतां उज्वलाध्याने चढवोयोग्यते ॥ १७ ॥ ह्वेधर्मध्यानकहेते देशकालजोइने शुचजावनाकरवी पोतानीसत्ताना आलंबननाक्रमथी ध्येय ध्याता अनेध्याननी अनुप्रेक्षाते शुचलेश्याना चिन्हतुंफलते ॥ १८ ॥

ज्ञात्वा धर्मं ततोध्याये चतस्र स्तत्र जावनाः ॥ ज्ञानदर्शनचारित्र वैराग्याख्याः प्रकीर्तिताः ॥ १९ ॥ निश्चलत्वमसंमोहो निर्जरा पूर्वकर्मणां ॥ संगारांसा जयोद्धेदः फलान्यासां यथाक्रमात् ॥ २० ॥

अर्थ ॥ धर्मनेजाणीपते ज्ञानजावना दर्शनजावना चारित्रजावना अने वैराग्यजावना एचारजावनाने धर्मजाणी ध्याववी ॥ १९ ॥ तेमां ज्ञानजावनाथी निश्चलपणुंथाय अनेदर्शनजावनाथी अमूढपणुंथाय वलीचारित्रजावनाथी पूर्वकर्मनीनिर्जराथाय अने वैराग्यजावनाथी स्त्रियादिकनोसंग तथा पुजलनीइहा अनेजयतेनोउद्धेदथाय एरीतेएचारजावनाना फलजाणवा. ॥ २० ॥

स्थिरचित्तः किलैतानि र्याति ध्यानस्य योग्यतां ॥ योग्यतैव हि नान्यस्य तथाचोक्तं परैरपि ॥ २१ ॥ चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं ॥ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ एजावनामां जेतुंचित्तस्थिरहोय तेनेध्यानमांस्थिरतारहे माटेतेप्राणी ध्याननी योग्यतापामे पणबीजोकोइनपामे तेमजपरदर्शनमांपणकसुंते तेकहेते ॥ २१ ॥ अर्जुनपुढेते हेरुभ मनतोचंचलते अनेशत्रुना सैन्यसरखुंदढते तेमननो निग्रहहुंशीरीतेकरुं केमके पवननीपेतेमनडुष्कर अनेथग्राहते ॥ २२ ॥

असंशयं महाबाहो मनोर्द्धनिग्रहं चलां। अन्यासेन च कौतिय वै
 राग्येण च गृह्यते ॥ २३ ॥ असंयतात्मनो योगो दुःप्राप्य इति
 मे मतिः ॥ वश्यात्मना तु यतता शक्यो वासुमुपायतः ॥ २४ ॥
 अर्थ ॥ श्रीकृष्णकहेते हेमहाबाहोके मोटीगेवाहुजेनी एवाहेअर्जुन खरेख
 संमनचपलते तेनोनिग्रहकरवो तोकवणते तोंपणहेकुंतीनापुत्र हेअर्जुन अन्यास
 अने वैराग्येकरिने मनवशथाय एहुंते ॥ २३ ॥ हेअर्जुन जेनेपोतातुं आत्मावश
 नयी एवोजेपुरुष तेनेध्यानयोगपामवो दुःकरते एवीमारीमतिते पणजेयेआत्माने
 वशकीधोते तेनेउद्यमेकरि अने अन्यासेकरि ध्यानयोगपामवो सुलजते ॥ २४ ॥
 सदृशप्रत्ययावृत्त्या वैतृष्णयाद्दहिर्यतः ॥ एतच्च युज्यते सर्वं जा
 वनाजावितात्मनि ॥ २५ ॥ स्त्रीपशुकृबिडःशील वर्जितस्थान
 मागमे ॥ सदा यतीनामाङ्गलं ध्यानकाले विशेषतः ॥ २६ ॥
 अर्थ ॥ सरखोप्रत्ययजे विश्वासतेषोसहित अनेबाह्यपदार्थनी तृष्णारहित तथा
 शुद्धजावनार्येनावितपुरुषने एआत्मावशकरतुं सर्वप्रकारंघटेते ॥ २५ ॥ स्त्री पशु नपुंसक
 दुःशीलाद् रहित एहवीवस्तीमुनियें सेववी एमआगममां मुनिनेसदाय प्रशुएआज्ञा
 करीते तेमांपण ध्यानवेलायेंतो विशेषपणे कहिते एमजाणतुं ॥ २६ ॥
 स्थिरयोगस्य तु ग्रामे विशेषः कानने वने ॥ तेन यत्र समाधानं
 स देशो ध्यायतो मतः ॥ २७ ॥ यत्रयोगसमाधानं कालोपीष्टः
 स एव हि ॥ दिनरात्रिद्विपादीनां ध्यानिनोनियमस्तु न ॥ २८ ॥
 अर्थ ॥ स्थिरयोगवालायें गाममां अने विशेषेकरिने वगनामां तथा वनमाजिहां
 वित्तसमाधानीमारहे तेस्थानकेंध्यानकरतुं ॥ २७ ॥ जेवखतयोगस्थिररहे तेकाल
 रुढोसमजवो पणध्यानवालाने दिवस अथवा रात्रीनो नियम नयी ॥ २८ ॥
 यैवावस्था जिता यां तु न स्याद्धानोपघातिनी ॥ तथा ध्यायेन्नप
 णो वा स्थितो वा शयितोथवा ॥ २९ ॥ सर्वासु सुनयोदेशकाला
 वस्थासु केवलं ॥ प्राप्तास्तन्नियमो नासां नियता योगसुस्थिता ॥ ३० ॥
 अर्थ ॥ ध्यानवंतमुनिने जेअवस्थायेंजेतेकाणे अने जेवेलायें ध्याननेविवधातन
 लागे तेवेकाणे तेवेलायें तेरीतेवेवा उना अथवा सुताध्यानकरतुं ॥ २९ ॥ सर्वदेशकाल
 अवस्थानेविषेरहाजे मुनिनेनेकांइनियमनयी केमकेतेनियतपणेयोगमांस्थिररहावें

वाचना चैव पृष्ठा च परावृत्त्यनुचिंतनं ॥ क्रिया चालंबनानीह स
धर्मावश्यकानि च ॥ ३१ ॥ आरोहति दृढञ्ज्या लंबनोविपसं
पदं ॥ तथा रोहति स ध्यानं सूत्राद्यालंबनाश्रितः ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ वाचना पृष्ठना परावर्तना अनेअनुप्रेक्षा एधर्मना आलंबन इहांकहा ते
अवश्यकरणीठे ॥ ३१ ॥ जेप्राणी खरीवस्तुनो आलंबकठे तेप्राणी कठणतेकाणोप
एजेमचडे तेमजेजैनसूत्रादिकनो जेआलंबकठे तेप्राणी रुडेध्यानेपण चढे ॥ ३२ ॥

आलंबनादरोद्भूत प्रत्यूहकृत्ययोगतः ॥ ध्यानाद्यारोहणभ्रंशो
योगिनां नोपजायते ॥ ३३ ॥ मनोरोधादिको ध्यानप्रतिपत्ति
क्रमो जिने ॥ शेषेषु तु यथायोग समाधानं प्रकीर्तितं ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ आलंबनना आदरथी प्रगटथोजे विघ्ननोक्त्य तेनायोगथी ध्यानरूपपर्वत
उपरचढतां योगीश्वरने त्रष्टपणुं अतुंनथी ॥ ३३ ॥ योगनिरोधध्यानतो केवलीनेठे मन
रोधकरण इत्यादि अनुक्रम जिनमतमांठे वाकी बीजादर्शनमांतो जेम नजरमांआवे
तेमयोगनुंसमाधानकद्युंठे ॥ ३४ ॥

आज्ञापायविपाकानां संस्थानस्य च चिंतनात् ॥ धर्मध्यानोपयु
क्तानां ध्यातव्यं स्याच्चतुर्विधं ॥ ३५ ॥ नयत्रंगप्रमाणाढ्यां हेतदाह
रणान्वितां ॥ आज्ञां ध्याये जिनेजाणा मप्रामाण्याकलंकितां ३६

अर्थ ॥ आज्ञा अपाय विपाक अने संस्थान एचारचेदना चिंतनयकी धर्मध्यान
वालाये धर्मध्यानकरवुं ॥ ३५ ॥ सातनय सप्तत्रंगी चारप्रमाणसहित तथाहेतु उदा
हरणेसहित अनेअप्रमाणरूपदूषणैरहितएवीजिनेश्वरनीआज्ञाध्याववीएप्रथमचेद

रागद्वेषकषायादि पीडितानां जनुष्मतां ॥ ऐहिकामुष्मिकांस्तां
स्तां नानापायान्विचिंतयेत् ॥ ३७ ॥ ध्यायेत्कर्मविपाकं च तंतं यो
गानुभावजं ॥ प्रकृत्यादिचतुर्भेदं शुभाशुभविजागतः ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ जेजीव राग द्वेष कषायवडेपीडायाष्ठे तेने आलोकने परलोकसंबंधीक
पृतेवीजेपाइये चिंतवे ॥ ३७ ॥ जेयोगनाअनुभवथीअयुं अने प्रकृतिस्थिति रस
प्रवेशनाबंधथी नीपनुं एहवोजेकर्मनोविपाक तेने शुभाशुभवेदेचणथीध्यावे ॥ ३८ ॥

उत्पादस्थितिजंगादि पर्यायैर्लक्षणैः पृथक् ॥ जेदैर्नामादिजिणै
 क संस्थानं चिंतयेद् नृतं ॥ ३९ ॥ चिंतयेत्तत्र कर्तारं चोक्तारं नि
 जकर्मणां ॥ अरूपमव्ययं जीव मुपयोगस्वलक्षणं ॥ ४० ॥

अर्थ ॥ उत्पाद व्यय अने ध्रुवकालतथाजंगादि पर्यायलक्षणेकरी सुदासुदाजेदें
 नामस्थापना इव्यजावनेदेंकरी नेचउदराज्यलोकतुं संस्थानधारीनेचिंतवे ॥ ३९ ॥ ति
 हांपोतानाकर्मनो कर्त्तानोक्ता आत्माते एमंचितवें एजीवअरूपी अविनाशी अनेउ
 पयोगलक्षणेयुक्ते एमंचितवें ॥ ४० ॥

तत्कर्मजनितं जन्म जरामरणवारिणा ॥ पूर्णं मोहमहावर्त का
 मौर्वानलजीपणं ॥ ४१ ॥ आशामहानिलापूर्णं कपायकलशो
 वलत् ॥ असद्विकल्पकल्लोल चक्रं दधतमुद्धतं ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ हवेकर्मजनितरूप समुद्रस्वाणेते तेजन्मजरा अने मरणरूप जलें
 पूर्णजखोते तथा मोहरूपमोटा आवर्त तद्रूपनमरी अने कामरूपवहवानलें करीन
 पंकर ॥ ४१ ॥ आशांरूप प्रचंडवायुयें नरपूर कपायरूप चारकलशायेंयुक्त अने मा
 गाविकल्परूपमहावद्धत कल्लोलजिहांवलेते एवोनवसमुद्र नयंकरते ॥ ४२ ॥

हृदिस्त्रोतसिकावेला संपातडरतिक्रमं ॥ प्रार्थनावह्निसंतानं
 डःपूरविपयोदरं ॥ ४३ ॥ अज्ञानडर्दिनं व्याप द्विच्युत्पातोऽव
 जयं ॥ कदाग्रहकुवातेन हृदयोत्कंपकारिणं ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ बलीतेसमुद्रमां मनमां श्रोतसिका एटलेजे हर्षतथाशोकतुंनरावतुं तेरूपवे
 लाएटलेजरतिकहियें माटे जोएमांपडयोतो पठीनिकलबुंयणुकवणते अने याचनारूप
 सेवाजनो समूहते जेनेविपे तथाडःखेपूर्णयाय एवोविषयरूप मध्यनागतेजेतुं ॥ ४३ ॥
 जिहांअंधकारेव्याप्युं एवुंअज्ञानरूपवादतुंते तथा जेमांआपदारूप वीजलीपडवानो
 नयते अने कदाग्रहरूपपवन वज्रवथयोते तणेकरीने देखताज्ञान नजरवालातुंते हे
 उंयुजेएहवो कर्मजनितसमुद्रविहांमणोते ॥ ४४ ॥

विविधव्याधिसंबंध मत्स्यकवपसंकुलं ॥ चिंतयेच्च जवांजो
 धि चलहोपाडिडर्गमं ॥ ४५ ॥ तस्य संतरणोपायं सम्यक्त्
 दृढबंधनं ॥ बहुशीलांगफलकं ज्ञाननिर्यामिकान्वितं ॥ ४६ ॥

अर्थ ॥ जेतमुद्द विविधजातिनाजेरोग तेनोजेसंबंध तेरूपीमञ्जु अने काचबायेंक
री आकृजठे तथा जेमांचंचलता शून्यता अने गर्वतेरूपजेदोपतद्रूप महोटापर्वतठे
एवो नवरूपसमुद्दनेचिंतवे ॥ ४५ ॥ हवेएवासमुद्दश्रीतरवानोउपाय तेसमकेतरूप
दृढबंधनठेजिहां अने जेनेअठारहजार सिलांगरथरूपपाटीयां जड्याठे तथा तेजि
हाज ज्ञानरूपचलावनार निर्यामकजेनाखवातेणोसहितठे ॥ ४६ ॥

संवरास्ताश्रवत्तिङ् गुप्तिगुप्तसमंततः ॥ आचारमंजुपोद्दीप्ता प
वादोत्सर्गचूद्यं ॥ ४७ ॥ असंख्यै ऊर्ध्वैर्योधै ऊःप्रधृष्यं सदाशये ॥
सद्योगरूपस्तंजाग्र न्यस्ताध्यात्मसितांशुकं ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ वलीतेजिहाजनापाटीआनेविपेरह्याजे तिडोतेहनेसंवररूपीकीचक तद्रू
पतेजवडेपुंखांठे तथा मनोगुप्तिरूप गुप्तसुकानतेमार्गवतावेठे तेणेकरीतेवाहण समो
चालेठे तथा आचाररूपमंजुपेशोनतोथको वली तेवाहाणमांउत्सर्ग अने अपवादरू
प वेजातनुंमालनरेजुंठे ॥ ४७ ॥ जेवाहाणमां शुद्धअथ्यवसायरूप घणावलवंतसुंज
टो तेराग वेषादिशत्रुने ऊःप्रधृष्यठेएवोठे तथा नलोजेयोग तेरूपकुंजजेथंन तेनाउपर
अध्यात्मरूप उज्वलसमखेंच्योठेजिहां ॥ ४८ ॥

तपोनुकूलपवनो झुतसंवेगवेगतः ॥ वैराग्यमार्गपतितं चा
रित्रं वह्नं श्रिताः ॥ ४९ ॥ सज्जावनारख्यमंजूषा न्यस्तसच्चि
तरत्नतः ॥ यथा ऽविघ्नेन गच्छंति निर्वाणनगरं बुधाः ॥ ५० ॥

अर्थ ॥ तेसमथी तपस्थारूप अनुकूल पवनप्रगटयोठे अने तेपवनेकरी संवेगगुण
रूपवेगप्रगटयोठे तेणेकरी वैराग्यमार्गमां तेवाहाणचालतुंजायठे एहचुंचारित्ररूप जे
वाहाणतेमांवेठाथका मुनिराजोते ॥ ४९ ॥ रुमीजावनारूप मंजूषामां गुप्तपणेसुंज
चित्तरूपीरत्नस्थाप्युंठे जेणेएवामुनिनिर्विघ्नपणे मुक्तिरूपनगरनेपामेठे ॥ ५० ॥

यथा च मोहपल्लीशो लब्धव्यतिकरे सति ॥ संसारनाटकोत्तेदा
शंकापंकाविले मुहुः ॥ ५१ ॥ सजीकृतस्वीयजटे नावं डुर्वुद्धि
नामिकां ॥ श्रिते इर्नीतिनौवृंद रूढशेषजटान्विते ॥ ५२ ॥

अर्थ ॥ एवातनीखबर चोरनोराजाजे मोहरूपिओपल्लीपति तेनेपडी तेवारेंते
मोहजेचोरनोराजाठे तेणेविचाखुंजे रखेनेसंसाररूपनाटकनो उहेदथइजाय एवी
शंकारूपजेकचरो तेमालेपाणोथको ॥ ५१ ॥ तेमोहराजा पोतानामुंजटोने सज्जक

रीने दुर्बुद्धिनामे जेनावातेमां पोतेवेगोथको उष्टाचाररूपवीजाजेनावठे तेमां वलीबी
जाघणामुजटोने वेसारीनेपोतें जवसमुद्धमांआव्यो ॥ ५१ ॥

आगहृत्यथधर्मेश जटौवे रणमंजपं ॥ तत्वचिंतादिनाराच
सङ्गीजते समाश्रिते ॥ ५३ ॥ मिथोलग्रे रणावेशे सम्यग् द
र्शनमंत्रिणा ॥ मिथ्यात्वमंत्रिविपमा प्राप्यते चरमा दशा ॥ ५४ ॥

अर्थ ॥ तेवखते धर्मेराजाना मुजटोनाजेथोकते मोहनासैन्यनेजोझे रणमंडप
जुमीमांआवी तत्वचिंताप्रमुखजे वाहणतेलेझे सङ्कथयाथका ॥ ५३ ॥ तेपठीवेव
नोमांहोमाहें युद्धचालवालागुं तेमांसम्यग्दृष्टिजेप्रधान तेणेमिथ्यात्वप्रधाननेविप
मचरमदशाके० मरणदशापमाडी एटले मृत्युप्रायकीथोठे ॥ ५४ ॥

लीलयेव निरुध्यंते कषायचरटाअपि ॥ प्रशमादिमहायोधैः
शीलेन स्मरतस्करः ॥ ५५ ॥ हास्यादिषट्कलुंटाक वृंदं वैरा
ग्यसेनया ॥ निजादयश्च ताडयंते श्रुतयोगादिर्जिर्जटैः ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥ अने उपशमादिक महासुजटे लीलयेकरिने कषायरूप चोरटानेरोक्या
तथा शीलसुजटे कंदर्परूपचोरनेजील्यो ॥ ५५ ॥ वैराग्यनीसेनायेकरिने हास्यादिक
जे ठचोरतेने जील्या अने ज्ञानयोगादिकजेसुजटो तेणेनिजादिकने मारीकाढ्या ५६ ॥

जटान्यां धर्मशुक्लान्या मार्त्तरींजाजिधौ जटौ ॥ निग्रहेणेंडियाणां च
जीयते जागसंयमः ॥ ५७ ॥ क्षयोपशमनश्चक्षु दर्शनावरणा
दयः ॥ नश्यत्यशातसैन्यं च पुण्योदयपराक्रमात् ॥ ५८ ॥

अर्थ ॥ धर्मभ्यानअनेशुक्लान एवेसुजटें आर्चअने रौड एवेसुजटनेहल्या तथा
यांचईडियनानिग्रहरूपसुजटें उतावलेकरि अंसंयमरूपसुजटनेजील्यो ॥ ५७ ॥ दर्श
नावरिणा क्षयोपशमसुजटें चक्षुदर्शनावरणादिक योद्धाअनेमाखा वलीपुण्योद
यनापराक्रमथी अशातारूपसैन्य नासीगुं ॥ ५८ ॥

सहक्षेपगर्जेण रागकेसरिणा तथा ॥ सुतेनमोहजूपोपि
धर्मजूपेन हन्यते ॥ ५९ ॥ ततः प्राप्तमहानंदा धर्मं जूपप्र

सादतः ॥ यथाकृतार्था जायंते साधवो व्यवहारिणः ॥ ६० ॥

अर्थ ॥ हवे सेवटेक्षेपरूपहाथीयेवेगो तथा रागरूपसिंहेंसहित एहवो मोहराजां

तेनेपण धर्मराजायें हण्यो ॥ ५९ ॥ तेवारपठी साधुरूपी व्यवहारिया धर्मराजानो
प्रसादजेपसाय तेथीकृतार्थयइ आनंदपामी सुखेपोतानो व्यापारकरताथया ॥ ६० ॥

विचिंतयेत्तथासर्वं धर्मध्याननिविष्टधीः ॥ इदृगन्यदपि न्यस्त
मर्थजातं यदागमे ॥ ६१ ॥ मनस श्रेण्डियाणां च जयाद्योनिर्वि
कारधीः ॥ धर्मध्यानस्य स ध्याता शांतोदांतः प्रकीर्तितः ॥ ६२ ॥

अर्थ ॥ एरीतेंसर्वधारीजेवुं तेधर्मध्यानमां जेमुनिनीबुद्धिपेठीठे तेणेएनेतथाएना
जेवा बीजापणजेआगमसिद्धांतमां पदार्थेना समूहस्थाप्याठे तेनुंचिंतनकरवुं ॥ ६१ ॥
जेमननो अनेइंडियनोजयकरीने निर्विकारबुद्धिवालो थयो तेनेधर्मध्याननोथ्याताक
ह्योठे वलीशांतदांतपणो पणतेहनेजहोय ॥ ६२ ॥

परैरपि यदिष्टं च स्थितप्रज्ञस्यलक्षणं ॥ घटते ह्यत्र तत्सर्वं तथा
चेदं व्यवस्थितं ॥ ६३ ॥ प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनो
गतान् ॥ आत्मन्येवात्मसंतुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ ॥ परदर्शनीपण स्थितप्रज्ञबुंलक्षण एमकहेठे अनेतेसर्वइहांघटेठे तेमजइ
हांअवस्थितहोयतेजाणवुं ॥ ६३ ॥ हेअर्जुन जेवारेंकंदर्पनेठोठे अने मननासर्वका
मनेत्यागी आत्मसंतोषीथइने आत्मानेविपेरहे तेप्राणीने तेवारेंस्थितप्रज्ञावंतकहियें

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा ॥ वीतरागजयक्रोध
स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ६५ ॥ यः सर्वत्रानजिस्त्रेह स्तत्तत्प्राप्य
शुभाशुभं ॥ नाजिनंदति न घेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६६ ॥

अर्थ ॥ जेहनेदुःखमां उद्वेगनथी अनेसुखनीइह्वानथी तथाजेहना राग जय
अनेक्रोधगयाठे तेमुनिने स्थितबुद्धिवालो कहियें ॥ ६५ ॥ जेनेविषयउपर स्नेहन
थी जेवुंतेवुं शुभअशुभ मजेतोपण रागदेषनथीहेअर्जुन तेनीबुद्धिरुनीठे एमजाणवुं

यदा संहरते चायं कुर्मोर्गानीव सर्वशः ॥ इंडियाणीं डियार्थेच्य
स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६७ ॥ शांतोदांतो नवेदीह गाल्माराम
तया स्थितः ॥ सिद्धस्य हि स्वप्नावोयः सैव साधकयोग्यता ॥ ६८ ॥

अर्थ ॥ हेअर्जुन जेमकांचवो अंगनेसंहरी संकोचीराखे तेमइंडियोनेविषयथी
पाठीवाजे तेनीबुद्धिमोटीठे ॥ ६७ ॥ तेशांतगुणअने दांतगुणीहोय तेनेआत्माराम

वडे आत्मानारह्यो कहियें सिद्धिनोखजावण एवोजडे अने एवाजेहोयतेनेजसाध
कतापणानी योग्यता कहियें ॥ ६८ ॥

ध्याता यमेव शुद्धस्याप्रमत्तः पादयोर्धयोः ॥ पूर्वविद् योग्ययोगी
व केवली परयोस्तयोः ॥ ६९ ॥ अनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षा ध्यानस्यो
परमेपि हि ॥ जावयेन्नित्य मत्रांतः प्राणाध्यानस्य ताः खलु ॥ ७० ॥

अर्थ ॥ एधणीशुद्ध ध्याननावेपायानो अप्रमत्तथको ध्यावनारथाय पूर्वधरपणे
योगीहोय अथवा अयोगीहोयपण केवलीपणेहोय पठेडोपवेपायाने ध्यावे ॥ ६९ ॥
ध्याननेविरामकालें अनित्यत्वादिजावना वांकेनही विघ्नमरहितपणे नित्यजावनाजा
वे तेध्यानना प्राण जाणवा ॥ ७० ॥

तीव्रादिचेदनाजः स्युर्लेश्यस्तिस्त्र इहोत्तराः ॥ लिंगान्यत्राग
मश्रद्धा विनयः सङ्गुणस्तुतिः ॥ ७१ ॥ शीलसंयमयुक्तस्य ध्यायतो ध
र्ममुत्तमं ॥ स्वर्गप्राप्तिफलं प्राहुः प्रौढपुण्यानुबंधिनीं ॥ ७२ ॥

अर्थ ॥ इहांउत्तरजे पावलीत्रणलेश्याउं एटले तेजो पद्म अने शुद्ध एत्रणलेश्या
जेठे ते तीव्र तीव्रतर अनेतीव्रतम एत्रणचेदनीजजनारीठे तेनाएचिन्हठेजे आगमनी
श्रद्धा विनय रुडागुणनीस्तवनाकरवी ॥ ७१ ॥ शील अने संयमयुक्तप्राणीने उत्तम
धर्मध्यान ध्यातेथके तेहने स्वर्गप्राप्तिफलकळुंठे तेमोटापुण्यानुबंधी पुण्यनेपामे ॥ ७२ ॥

ध्यायेद्बुद्धमथक्कांति मृडत्वाजीवमुक्तिनिः ॥ उद्वस्थोणौमनो
धृत्वा व्यपनीय मनो जिनः ॥ ७३ ॥ सवितर्कं सविचारं सपृथ
क्त्वं तदादिमं ॥ नानानयाश्रितं तत्र वितर्कपूर्वकश्रुतं ॥ ७४ ॥

अर्थ ॥ जेसमतापणे तथानिष्कपटपणे अनेजीवनमुक्तपणे एवीस्थितिराखीने
शुद्धध्याननेध्यावे अनेउद्वस्थपणे आत्मानां मनधरीनेरहे तेवारेंरागद्वेषनेजीते ॥ ७३ ॥
सपृथक्त्व सवितर्कं सविचारं तेमांश्चादनोजेसवितर्कं एनामेशुद्धध्याननो पेहलोपायो
तेनेनानाविध नयेसहित विचारपूर्वक श्रुतेंकरीध्यावडुं ॥ ७४ ॥

अर्थव्यंजनयोगानां विचारोन्त्योन्यसंक्रमः ॥ पृथक्त्वं व्यप
यीय गुणांतरगतिः पुनः ॥ ७५ ॥ त्रियोगयोगिनः साधो वितर्को
यन्वितं ह्यदः ॥ ईपच्चलतरंगाऽब्धेः क्लोजाजावदशानिजा ॥ ७६ ॥

अर्थ ॥ अर्थ अक्षर अने योग एनाजे विचार तेनुं माहो माहे संक्रमण तेनुनाम पृथक् क्व कहिये तेके बुंठे के इव्यगुण अने पर्याय तेमांगतिठे जेनी एबुंठे एपे हे लो जेद ॥ ७५ ॥ त्रणयोगे उपरम्या जे योगी तेसाधुने वितर्कादिक थोडाचंचलतरंगठे जेमां एहवोजे स मुद् तेहो जने जे अजाव तेवी दशासरखुंठे ॥ ७६ ॥

एकत्वेन वितर्केण विचारेण च संयुतं ॥ निर्वातस्य प्रदीपान्नं
द्वितीयं लोकपर्ययः ॥ ७७ ॥ सूक्ष्मक्रियानिवृत्तारख्यं तृतीयं तु
जिनस्य तत् ॥ अर्धरुद्रांगयोगश्च रुद्रयोगे द्वयस्य च ॥ ७८ ॥

अर्थ ॥ एकत्ववितर्कविचारनामे जे बीजोपायो तेपवनरहितजे दीवो तेसरखो ठे एबीजोपायोते एकपर्यायरूपठे ॥ ७७ ॥ सूक्ष्मक्रियानिवृत्तिनामे त्रीजोपायो ते केवलीने होय तेमां बादरजे काययोगतेने अर्धरुद्रांगठे अने मन तथावचन एवेयो गने समस्त रुंधे ते वारे त्रीजोपायो ध्यावे ॥ ७८ ॥

तुरीयं तु समुच्चिन्न क्रियमप्रतिपाति तत् ॥ शैलवन्निःप्रकंपस्य
शैलेश्यं विश्ववेदिनः ॥ ७९ ॥ एतच्चतुर्विधं शुक्ल ध्यानमत्र द्व
योः फलं ॥ आद्ययोः सुरलोकाप्ति रंत्ययोस्तु महोदयः ॥ ८० ॥

अर्थ ॥ हवे चोपापायामां क्रिया उहेदीठे अने पोते पर्वतनी परे अप्रतिपातिययोठे एहवो विश्ववेदी ते जगतना सर्वजावनो जाणजे केवली तेनिःप्रकंप पर्वतनी माफक घनी नूतनयाते शैलेशीकरण करे ॥ ७९ ॥ एचार प्रकारतुं शुक्ल ध्यानठे तेनुं फल कहेठे इहां प्रथम वेपायामां जे काल करेते स्वर्गगतिपामे अने उपरना वेपायामां काल करवाथी मोक्षपामे ॥ ८० ॥

आश्रवापायसंसारानुजावन्नवसंततीः ॥ अर्थे विपरिणामं वा
नुपश्ये बुद्धविश्रमे ॥ ८१ ॥ द्वयोः शुक्ला तृतीये च लेश्या सा
परमामता ॥ चतुर्थशुक्लजेदस्तु लेश्यातीतः प्रकीर्तितः ॥ ८२ ॥

अर्थ ॥ शुक्ल ध्यानने विश्रामे आश्रवना नाश देखे संसारनास्वरूपने जवनी परंपरा देखे अने अन्यपदार्थ आत्मानुं विपरिणामपणुं जुए ॥ ८१ ॥ एशुक्ल ध्यानना प्रथमवे पायामां वे लेश्या तथा त्रीजे पायेतो परम उच्छुष्ट शुक्ल लेश्या कहिठे अने चोपापायो जे ठे तेतो लेश्या परहित कह्योठे ॥ ८२ ॥

लिंगं निर्मलयोगस्य शुद्धध्यानवतोऽवधः॥ असंमोहो विवेकश्च
व्युत्सर्गश्चाभिधीयते ॥ ८३ ॥ अबंधाहुपसर्गेन्यः कपते न वि
जेति च ॥ असंमोहान्न सूदमार्थं मायास्वपि च मुह्यति ॥ ८४ ॥

अर्थ ॥ शुद्धध्यानवालाने निर्मलयोगहोय तेनालक्षणकहेते अहिसकहोय मो
हरहित विवेकीहोय अनेत्यागबुद्धियें युक्तहोय ॥ ८३ ॥ वलीअबंधीथयो माटे उप
सर्गअनेपरिसह तेथीकपेनही तथाबीहेपणनही एअहिसकलक्षणहोय तथासूक्ष्मअ
र्थमांठे वलीमायामामुजायनही एअसंमोहएटले मोहरहिततुं लक्षणकहुं ॥ ८४ ॥

विवेकात्सर्वसंयोगां निन्नमात्मानमीदृते ॥ देहोपकरणासंगो
व्युत्सर्गाज्जायते मुनिः ॥ ८५ ॥ एतद्भ्यानक्रमं शुद्धं मत्वा जगव
दाज्ञया ॥ यः कुर्यादितदान्यासं संपूर्णाध्यात्मविभवेत् ॥ ८६ ॥

अर्थ ॥ सर्वसंयोगथी आत्मानेजुदोदेखे एविवेकतुंलक्षणठे देहतथाउपगर्
एनीत्यागबुद्धियें असंगानुष्ठान वचेंठे एव्युत्सर्गंतुंलक्षणठे एचारलक्षण ६६मां
श्लोकमांकहावे तेनोएअर्थविवरीने कह्यो एलक्षणजेमुनिहोयते ज्ञानपणुपामे
॥ ८५ ॥ एरीतं ध्याननोजेअनुक्रम तेद्युद्धरीतं जाणीनेप्रभुनी आज्ञाप्रमाणे एनी
अन्यास जेकरजे तेसंपूर्णआध्यात्म ज्ञानीथासे ॥ ८६ ॥ इतिध्यानाधिकारःषोडशः

यत्र गच्छति परं परिपाकं पाकशासनपदं तृणकल्प ॥
स्वप्रकाशसुखबाधमयं तद्भ्यानमव ज्वनाशिजजध्वं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ माटेवल्हट परिपक्वध्यान पामेथके मुनिराजतेइंडनीपदवीनेपण तृणपलां
वरोबरगणोमाटे जेथकी आत्माने प्रकाशकारी सुखेज्ञानप्रगटे एतुं संसारतुं नाशक
रनारुंध्यानसेवतुं ॥ १ ॥

आतुरैरपि जडै रपि साक्षात् सुत्यजा हि विषया ननु रागः॥
ध्यानवास्तु परमद्य निदर्शां तस्मि माप्य न तमृच्छति चूयः॥२॥

अर्थ ॥ कामातुरजेप्राणी तथाजडजेप्राणीतेपण प्रगटपणे विषयसुखने सुखेठे
हे पणरागदिशा ठांडवीडुधटठे अनेध्यानवंतमुनितो मात्र परमात्मानुजदरीतीते
तोध्यानमां तृप्त्यामिने फरीथीरागदपने वांठेनही ॥ २ ॥

या निशा सकल नृत्तगणानां ध्यानिनो दिनमहोत्सव एषः ॥

यत्र जाग्रति च तेजनिविष्टा ध्यानिनो जवति तत्र सुषुप्तिः ॥३॥

अर्थ ॥ सर्वप्राणीने निद्रामाजे रात्रीजायते ते ध्यानदिशावालाने एरात्रीते जाग्रतमहोत्सवनो दिवसते अने संसारी जीव विषयमालीन थका जेवे जायें जागेते तेवेला ध्यानवाला मुनिराजने शयनरूपते ॥ ३ ॥

संभ्रुतोदकइवांधुजलानां सर्वतः सफलकर्मकलानां ॥

सिद्धिरस्ति खलु यत्र तद्वच्चै ध्यानमेव परमार्थनिदानं ॥४॥

अर्थ ॥ जे मथवढकुवातुं पाणी मोहोलुंरहेते ते मजेमां सर्वथकी सकलकर्मनाफ लनी सिद्धि एहवोजे ध्यानरूपघट जे जलमां रमतो होय त्यां जलनिर्मल होय माटे सकल क्रियाफलनी सिद्धि ध्यानथीते ध्यानते परम अर्थतुं कारणते ॥ ४ ॥

बध्यते नहि कषायसमुच्चैर्मानसैर्नततन्नूपनमद्भिः ॥

अत्यनिष्टविषयै रपि दुःखैर्ध्यानवान्निन्नृतमात्मनि लीनः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ जे ध्यानवान पुरुषते कषायजनित मनेकरी बंधातोनथी तेहने जो राजानी श्रेणी आवीन मस्कारकरे तो पणते तुंचित डोहो जायनही अने अतिष्टविषयनी प्राप्तिनाडुःखेकरी पणनिश्चलपणु ठोडेनहि तेने आत्माने विषे लीन कहिये ॥ ५ ॥

स्पष्टदृष्टसुखसंनृतमिष्टं ध्यानमस्तु शिवशर्म गरिष्ठं ॥ ना

स्तिकस्तु निहतो यदि न स्या देवमादिनयवाङ्मयदंजाता ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेने प्रगटदीतुं अने मोहसुखे जखुं एवुं जे ध्यान तेष्टते एटले मोहसुखथी पण ध्यान मोटुंते पण जिहांसुधी शास्त्रनादंथकी नास्तिकनावने अतिशयपणे हस्योनथी तिहांसुधीनथी पण नास्तिकनावेंरहित जे ज्ञानते मोटुंते ॥ ६ ॥

यत्र नार्कविधुतारक दीपज्योतिषां प्रसरतामवकाशः ॥ ध्यान

निन्नतमसामुदितात्म ज्योतिषां तदपि चाति रहस्यं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेनी आगल स्वर्गनुंतेज तथा चंद्रमा अने तारातुंतेज वली दीपकनातेजनी प्रकाशअल्पते एवुं जे ध्यान तेणे करीने नेदाणुंते अज्ञानरूप अंधकार जे प्राणीनी एहवा मुदित आत्मावालातुंतेज ते गुप्तपणे पण आत्माने विषे शोचेते ॥ ७ ॥

योजयत्यमितकालवियुक्तां प्रेयसीं शमरति त्वरितं यत् ॥

ध्यानमित्रमिदमेव मतं नः किंपरैर्जगति कृत्रिममित्रैः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ शमतारतिरूप स्त्रीनीसाथें प्राणीनेषणा कालधीवियोगहतो तेहूणोक
मां वियोगजांगीने संयोगमिलावें एहवोध्यानरूप परममित्रते तेध्यानमित्र अमा
रेप्रमाणे एमध्यान करनारप्राणी बोलेते माटेसंसारमां कृत्रिम परमित्रधीसुंथाय
तेकृत्रिममित्रोकरतांतो ध्यानमित्रवणुंअष्टे ॥ ७ ॥

वारितस्मरवलातपचारे शीलशीतल सुगंधिनिवेशीः ॥

वृत्तप्रशमतल्पनिविष्टो ध्यानधाम्नि लज्जते सुखमात्मा ॥९॥

अर्थ ॥ हवे ध्याननेरंगमंदिरनी उपमाआपेते जिहांकामरूपतापनेटाव्योते अने
शीलरूप शीतलसुगंधीपसररीरहीते तेवीवेठकनेविषे शमत्तरूपमोटीतलाइते तेउपर
आत्मावेठोथको पूर्णआनंदपामेते एवुंध्यानरूपमंदिरते ॥ ९ ॥

शीलविष्टरदमोदकपीठे प्रातिहार्यशमतामधुपकैः ॥ ध्या
नधाम्नि ज्वति स्फुटमात्मा हुतपूतपरमातिथिपूजा ॥१०॥

अर्थ ॥ ध्यानमंदिरमां शीलरूपसिंहासने इडियदमनरूप जलनोबाजोटे अने श
मत्तरूप पोलीओ तेएवाध्यानधरमां पवित्रपणे आत्मानेतेडीनेतेनी मधुपकैके० प
रोणागतकरेते ॥ १० ॥

आत्मनो हि परमात्मनिधोऽनू जेदबुद्धिकृत एव विवादः ॥ ध्या
नसंधिकृदमुं व्यपनीय जागजेदमनयोवितनोति ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ आत्मा अने परमात्मानेविषे जेजेदबुद्धिनोविवादहतो एटलेतेमांपंडित
ना विवादरूपजगडाहता तेनेध्यानरूपसंधीपालें एटलेध्यानियुरुपें तेविवादोनेटाव्यो
अनेजलदीथी एवेउनुंअजेदपणुंकरीआप्युं ॥ ११ ॥

कामृतं विपज्जते फणिलोके कक्षयिष्यपि विधौ त्रिदिवे वा ॥

काप्सरौ रतिमतां त्रिदशानां ध्यान एव तदिदं बुधसेव्यं ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ विपथकीजरलोजे नागलोकतिहां अमृतक्यांशीहोय तेमदिनदिनरूप पा
मतोजेचंडमा तेमांअमृतकिहांशीहोय अनेदेवलोकमांअप्सरानायोगें राताजेदेवता
तेमांपणअमृत किहांशीहोय माटेएमात्र ध्यानरूपअमृतसत्यते तेनेजपंमितेसेवबुं
गोस्तनीपु न सितासु सुधायां नापि नापि वनिताधरविंबे ॥ तं

रसं कमपि वेत्ति मनस्वी ध्यानसंज्ञवधृतौ प्रथते यः ॥१३॥

अर्थ ॥ गायनास्तनमांजेरसनथी जेसाकरमांरसनथी अनेजेरसअमृतमांपणनथी

तेमजस्वीनाअधरजेहोठ तेमांपणजेरसनथी तेरसध्यानथीप्रगट्यो अनेसंतोपथी वि
स्तस्यो एद्वोजेकोइकअपूर्वरस तेनेतोकोइक पंडितजजाणेठे ॥ १३ ॥

इत्यवेत्य मनसा परिपक्व ध्यानसंज्ञवफले गरिमाणं ॥ तत्र य
स्य रतिरेन मुपैति प्रौढधामचृतमाशु यशः श्रीः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ एप्रकारें मनेकरीनेपरिपक्वजे ध्यानतेथीप्रगट्युजे फलतेहनेमोटाइपणे
जाणीनेतेमांजेरतिपामे तेमहातेजवंत कांतिवानपुरुषठे अनेतेनेज यशलक्ष्मीवरणे
॥ १४ ॥ इतिश्रीध्यानस्तुत्यधिकारः सप्तदशःसमाप्तः

इतिश्रीमहोपाध्याय श्रीयशोविजयगणि विरचिते अध्यात्म
सारप्रकरणे पंचमपरिच्छेदः तेमां पनरमांना ७३ सोल
मांना ७६ अने सतरमाना १४ मलीने १७३ काव्यठे

आत्मध्यानफलं ध्यान मात्मज्ञानं च मुक्तिदं ॥ आत्मज्ञानाय
तन्नित्यं यत्नः कार्यो महात्मना ॥ १ ॥ ज्ञाते ह्यात्मनि नो ज्ञयो
ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ अज्ञानं पुनरेतस्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थकं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ आत्माने ध्यानतुंफलतेध्यानठे पणआत्मज्ञानहोय तेवारेंजतेनेमुक्ति
आपे माटेज्ञानतेमोदुंठे तोमोटापुरुषें आत्मज्ञाननणी उद्यमकरवो ॥ १ ॥ जेणे
आत्मानेजाण्यो तेनेफरीवीजुंकइजाणवानुंरखुंनथी अनेजिहांसुधी आत्मानेजाण्यो
नथी तिहांसुधी वीजुंसर्वजाण्युं तेनिरर्थकठे ॥ २ ॥

नवानामपि तत्वानां ज्ञानमात्मप्रसिद्धये ॥ येनाजीवादयो ज्ञावाः
स्वप्नेदप्रतियोगिनः ॥ ३ ॥ श्रुतोह्यात्मपराज्ञेदो नुचूतः संस्तुतो
पि च ॥ निसर्गाइपदेशाद्वा वेत्ति जेदं तु कश्चन ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ नवेतत्वतुंपणजे जाणपणुंकरवुंठे तेपणआत्मज्ञान प्रगटकरवानेअर्थेंठे
कारणके अजीवादिकजेनाव तेपणआत्मज्ञानवडेशमायठे ॥ ३ ॥ पोतानोअनेपा
रकोजेनेद तेहेनेनेदरूपेंसांज्यो अनुभव्यो परिचयथयोथको सेहेजे अथवा उप
देशथकी कोइकनेदनेजाण्यो ॥ ४ ॥

तदेकत्वपृथक्त्वान्या मात्मध्यानं हितावहं ॥ वृथैवाग्निनिविष्टा
ना मन्यथा धीर्विभवंता ॥ ५ ॥ एक एव हि तत्रात्मा स्वभाव स
मवस्थितः ॥ ज्ञानदर्शनचारित्र्य लक्षणप्रतिपादितः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ तेसाटेकत्व पृथक्त्वकरी आत्मज्ञानहितकारीथाय नहीतो फोकटपणे
करी मिथ्यात्वीनीबुद्धिविटवनाठे ॥ ५ ॥ तिहाएकजआत्मा स्वभावपणोरह्योठे तेआ
त्मातोज्ञानदर्शन अने चारित्ररूपलक्षणेकह्योठे ॥ ६ ॥

प्रज्ञानैर्मल्पशक्तीनां यथारत्नान्न जिनता ॥ ज्ञानदर्शनचारित्र्य
लक्षणानां तथात्मनः ॥ ७ ॥ आत्मनोलक्षणानां च व्यवहारो हि
जिनता ॥ पृथ्यादिव्यपदेशेन मन्यते न तु निश्चयः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जेमरत्ननीकांति अने निर्मलता एवेवनीशक्तिकांइजुदीनथी तेमज्ञानदर्श
न अने चारित्र्यलक्षणे जेआत्मातेकांइजुदीनथी ॥ ७ ॥ आत्मा अनेआत्मानुंलक्षण
एवेव्यवहारेंजुदाठे तेपटीआदेइइ विजक्तीनेव्यपदेशेंकरीमांजिये पणनिश्चयथीनही

घटस्य रूपमित्यत्र यथाचेदो विकल्पजः ॥ आत्मनश्च गुणानां
च तथा चेदो न तालिकः ॥ ९ ॥ शुद्धं यदात्मनो रूपं निश्चये ना
नुचूयते ॥ व्यवहारो जिदाधारा नुच्चावयति तत्परं ॥ १० ॥

अर्थ ॥ जेमघटनुंरूपतेनोचेदते विकल्पमात्रठे तेमआत्माने अने गुणनेपरमाथें
जेदनथी ॥ ९ ॥ जेआत्मरूपघटठे तेनिश्चयनयकरी अनुजवायठे अने व्यवहारवर्गे
परके० कायातेपणओलखांपठे ॥ १० ॥

वस्तुतस्तु गुणानां तद्रूपं न स्वात्मनः पृथग् ॥ आत्मा स्यादन्यथा
नात्मा ज्ञानाद्यपि जडं भवेत् ॥ ११ ॥ चैतन्यपरसामान्या
सर्वेषां भेदतात्मनां ॥ निश्चिता कर्मजनितो जेदः पुनरुपश्रवः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ वस्तुनावेतोगुणनुं अने आत्मानुंरूपजुंनथी जोजुडकहीपंतो आत्माठे
तेअनात्माथाय ज्ञानादिकेंजडथाय ॥ ११ ॥ चैतन्यपरसामान्यपणे, सर्वआत्मानी
एकताठे अनेनिश्चयथी तोकर्मप्रगट्याजेजेद तेतोविटवनारूपठे ॥ १२ ॥

मन्यते व्यवहारस्तु नूतग्रामादि जेदतः ॥ जन्मादेश्च व्यवस्थातो
मिथोनानात्मना ॥ १३ ॥ नचैतन्निश्चये युक्तं नूतग्रामो य
तो खिलः ॥ नामकर्मप्रकृतिजः स्वभावो नात्मनः पुनः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ जीवसमूहनाजेदथी तथाबालजुवान वृद्ध एथवस्थावडेमाहोमांहे वि
चित्रपणुंजणायडे एमव्यवहारनयवालोमानेडे ॥ १३ ॥ पणएवातनिश्चयनयवालो मा
नतोनथी तेएमकेहेडेके एजीवनेसर्वथवस्था नामकर्मना स्वभावथीप्रगटेडे पणए
आत्मानोमूलस्वभावथी ॥ १४ ॥

जन्मादिकोपि नियतः परिणामोहि कर्मणां ॥ न च कर्मकृतोजेदः
स्यादात्मन्यविकारिणि ॥ १५ ॥ आरोप्य केवलं कर्म कृतां विकृ
तिमात्मनि ॥ भ्रमंति भ्रष्टविज्ञानजीमे संसारसागरे ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जन्मजरादिक परिणाम कर्मनेवशडे अनेआत्मातो अविकारीडे तेथी
कर्मनोजेद आत्मानेसंजवेनही केमकेएआत्मस्वभावनही ॥ १४ ॥ जन्मजरादिक
कर्मप्रकृतिडे अनेकर्मजनित जावनेकेवल आत्मानेविषे आरोपीने च्रष्टज्ञानी जयं
करसंसारसमुड्मां नमसे ॥ १६ ॥

उपाधिजेदजं जेदं वेतइ स्फटिके यथा ॥ तथा कर्मकृतं जेद मात्म
न्येवात्तिमन्यते ॥ १७ ॥ उपाधिकर्मजो नास्ति व्यवहारा त्व
कर्मणः ॥ इत्यागमवचो लुप्त मात्मवैरूप्यवादिनः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ स्फटिकमां जेममूर्खप्राणी जेदमानेडे तेमउपाधिजेदें आत्मानेविषे प्रग
टयोजे कर्मकृतजेदते एमानेडे ॥ १७ ॥ पोतानाव्यवहारथी कर्मजनित जेउपाधी
ते नथीएममानता आत्मविरूपवादी आगमनुंवचन जोपेडे ॥ १८ ॥

एकद्वेत्रस्थितोप्येति नात्मा कर्मगुणान्वये ॥ यथा नव्यस्व
जावत्वा बुद्धो धर्मास्तिकायवत् ॥ १९ ॥ यथा तैमिरकश्चंद्र मप्ये
कं मन्यतेद्विधा ॥ अनिश्चयकृतोन्माद स्तथात्मानमनेकधा ॥ २० ॥

अर्थ ॥ धर्मास्तिकायनीपरें एकद्वेत्रमां रद्योडेतोपण कर्मगुणनासंयोगने पामतो
नथी एवोआत्मा रुडास्वभावथी बुद्धडे ॥ १९ ॥ जेमतिमिरके चंद्रणधेलो एक
चंद्रनेवेचंद्रमानेडे तेमनिश्चयनयनी वातविनानोजे प्राणीते उन्मादममत्वेकरी अ
त्माने अनेकप्रकारें मानेडे ॥ २० ॥

यथा नुच्यते ह्येकं स्वरूपास्तिलमन्वयात् ॥ सादृश्यास्तिल
मप्येक मविरुद्धं तथात्मनां ॥ ११ ॥ सदसघादपिशुनान् संगो
प्य व्यवहारतः ॥ दर्शयत्येकतारत्वं सतां शुद्धनयः सुहृत् ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ जेमअन्वयथी एकस्वरूपास्तिलपणाने अनुजवियेठइयें तेमसरखापणे जे
विद्यमानपणुंठे तेथकीआत्माने एककहियें ॥ ११ ॥ व्यवहारनयथी सदृशसद्वा
दरूपजे चाडियो तेनेनुपावीने शुद्धनयरूपजे मित्रठेतेएकतारूप रत्ननेदेखाडेठे ॥ १२ ॥

नृनारकादिपर्यायै रम्यं तन्नविनश्वरैः ॥ चित्रैर्जहाति नैकल
मात्मज्वल्यं सदान्वयि ॥ १३ ॥ यथैकं हेमकेयूर कुंमलादि
षु वर्तते ॥ नृनारकादिजावेषु तथात्मैको निरंजनः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ नरनारकादि पर्यायजेउपजेठे अनेविणउठे तेचित्रपर्यायकांडरम्यनथी माटे
तेपर्यायैकरिने सदाअन्वयिजे शुद्धवंशीआत्मतत्व तेएकत्वपणाने ठांडतुंनथी ॥ १३ ॥
जेमसुवर्णएकठे पणवाञ्छबंध कंठीकुंडलादिक पर्यायैवर्तते तेमआत्माएकठे पणन
रनारकादिकना नवैकरीचित्रठे पणआत्मातो एकनिरंजनठे ॥ १४ ॥

कर्मणस्ते हि पर्याया नात्मनः शुद्धसाक्षिणः ॥ कर्मक्रिया स्वभावो
य दात्मातु न स्वभाववान् ॥ १५ ॥ नाणूनां कर्मणोवासौ चवस्व
र्गः स्वभावजः ॥ एकैकविरहे चावा चवतत्वांतरं स्थितं ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ जेनरनारकादिकजव तेतो सर्वकर्मना पर्यायठे पणशुद्धसाक्षी निश्चयन
येंआत्मपर्यायठे अनेकर्मक्रियारूपजे स्वभावतेकांडआत्मानो मूलस्वभावनथी आत्मा
तो अज अविनाशीस्वस्वभावीठे ॥ १५ ॥ कर्मनाजेपरमाणु आतेआतंसार स्वर्गस्वजा
विक नथी एकेकउज्वलतानेविषे जावथकी नवतत्वमां रहुंठे ॥ १६ ॥

श्वेतज्वल्यकृतं श्वैत्यं चित्तिजागे यथा द्योः ॥ जाल्यनंतजवत्सत्यं
प्रपंचोपि तथेक्षतां ॥ १७ ॥ यथास्वप्नावबुद्धेयो विबुद्धेन न ह
इयते ॥ व्यवहारमतेस्वर्गो ज्ञानिना न तथेक्षते ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ जेमश्वेतज्वल्यं कीधेलुंजे चित्रामण तेवेजीतना जागमांशोजे तेमअनंतज
वत्सत्यतायें एप्रपंचनेजाणुंठे ॥ १७ ॥ जेमस्वप्नमां दीवेलोअर्थ जाग्यापठेंदेखायनही
तेमव्यवहारें स्वर्गादिकमार्ग श्रेष्ठे पणनियतप्रमाणी ज्ञानीपुरुषने संसार नजणाय

मध्याह्ने मृगतृष्णायां पयःपुरो यदेक्षते ॥ तथा संयोगजः सर्गो
विवेकरव्यातिविह्वले ॥ १९ ॥ गंधर्वनगरादीनां मंत्रेऽमंत्रो य
था ॥ तथा संयोगजः सर्वो विलासो वितथाकृतिः ॥ २० ॥

अर्थ ॥ जेममध्याने मृगतृष्णावर्मे पृथ्वीउपर जलपूरदेखायठे तेमसंयोगेउपनी जे
सृष्टितेविवेकनी रव्यातीयेनाशदेखायठे ॥ १९ ॥ जेमगंधर्व नगरवर्मेआकाशे आमं
बरजणाय तेमसंयोगेप्रगटथाजे सर्वविलासते तेजुगठे ॥ २० ॥

इतिशुद्धनयायत्त मेकत्वं प्राप्तमात्मनि ॥ अंशादिकल्पनाप्य
स्य नेष्टा यत्पूर्णवादिनः ॥ ३१ ॥ एकआत्मेति सूत्रस्याप्यय
मेवाशयोमतः ॥ प्रत्यग्ज्योतिषमात्मानमाहुः शुद्धनयाः खलु ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ एरीतेंशुद्धनयेजे एकत्वपणुंयहुं तेआत्मानेविषे पाम्युंएनेअंशादिकनीजे
कल्पनातेपूर्णवादिने वाहालीनथी ॥ ३१ ॥ सूत्रमाणेआया एवोजेपाठठे तेएजआ
शयेकह्योठे एकप्रगटज्योतिरूपजे आत्मातेजरूपठे एमशुद्धनयवालाकेहेठे ॥ ३२ ॥

प्रपंचसंचयक्लिष्टा न्मायारूपाद्विज्ञेमि ते ॥ प्रसीदन्नगवन्नात्म
न् शुद्धरूपं प्रकाशय ॥ ३३ ॥ देहेन सममेकत्वं मन्यते व्यव
हारवित् ॥ कथंचिन्मूर्ततापत्ते वेदनादिसमुद्भवात् ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ निश्चयनयकहेठेके प्रपंचसंचयवडे संक्लिष्टएटले दुःखरूपएवुं जेए
मायारूपठे तेथकी हेनगवन् हेआत्माहुं बीहुंहुं माटेप्रशन्नथाओ अनेशुद्धरूप
प्रकाशकरो ॥ ३३ ॥ कोइकप्रकारेरूपीपणुं पाम्योजे आत्मातेनेवेदनादिक उपजेठे
माटे व्यवहारनयवालो शरीरसाथे आत्मानुंएकत्वपणुं मानेठे ॥ ३४ ॥

तन्निश्चयो न सहते यद्मूर्तो न मूर्ततां ॥ अंशेनाप्यवगाहेत
पावकः शीततामिव ॥ ३५ ॥ उष्णस्याग्नेर्यथा योगाद् धृतमु
ष्णमिति भ्रमः ॥ तथामूर्तांगसंबन्धादात्मा मूर्त इति भ्रमः ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ पणतेवातनिश्चयवालो सहीशकतो नथी जेमअग्निशीतलता पामतो नथी
तेमजेअरूपीआत्माठे तेअंशेकरिनेपणरूपीपणाने पामतो नथी ॥ ३५ ॥ जेमबल
ताअग्निनेसंयोगे धृतउष्णथयुं एवोत्रमठे तेमरूपीशरीरने संयोगे आत्मापणरूपीदी
सेठे एपणत्रमणाजदेखायठे ॥ ३६ ॥

न रूप न रसो गंधो न न स्पृशो न चाकृतिः ॥ यस्य धर्मो न शब्दो
वा तस्य का नाम मूर्त्तता ॥ ३७ ॥ दृशादृश्यं हृदाग्राह्यं वाचा
मपि न गोचरः ॥ स्वप्रकाशं हि यद्रूपं तस्य का नाम मूर्त्तता ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ केमकेरूप रस गंध स्पर्श अने संस्थान एतज्जावानाआत्मानेनथी एतो
पुज्जनेने तेमज्जावाह्यधर्मपणनथी शब्दनथी तेवारेंआत्मानेशरीरेंरूपीकहेवाया ॥ ३७ ॥
वलीआत्मानजरदेखाय एवोपणनथी मनथीग्रहेवाय एवोपणनथी तथावचने
पणअगोचरते जेतुंरूपपोताने प्रकाशेंते पणवीजाने प्रकाशेंनथी तेनेरूपीकेमकेवाय

आत्मा संत्यश्रिदानंदः सूक्ष्मात्सूक्ष्मः परात्परः ॥ स्पृशत्यपि
च मूर्त्तत्वं तथा चोक्तं परैरपि ॥ ३९ ॥ इंद्रियाणि पराण्याद्बुद्धिं
न्द्रियैः परं मनः ॥ मनसोपि परा बुद्धिर्वोबुद्धेः परमस्तु सः ॥ ४० ॥

अर्थ ॥ आत्मासत्यते चिदानंदमयीते सूक्ष्मथीपणसूक्ष्मते उत्कृष्टमांउत्कृष्टते ते
मूर्त्तपणुंकेमफरते तेमजपरदर्शनमां ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णकहेते हेअर्जुनंशरीरमां इंद्रि
योमोटीते अने इंद्रियोथीमनमोदुंते मनकरतां बुद्धिमहोटीते अनेतेथीआत्मानोटीते

विकले हंत लोकेस्मिन्नमूर्त्तं मूर्त्तता अमात् ॥ पर्यत्याश्रयवद
ज्ञानी वदत्याश्रयवद्वचः ॥ ४१ ॥ वेदना येन मूर्त्तत्वं निमित्ता
स्फुटमात्मनः ॥ पुज्जलानां तदापत्तेः किलशुद्धस्वशक्तिजा ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ हंतइतिखेदे आविकललोकनेविपे अमूर्त्तआत्मानेविपे मूर्त्तपणानात्रम
थकीजेज्ञानीपुरुषते तेअचंचोदेखेते अनेवचनपणअचंचानावोलेते ॥ ४१ ॥ जेमाटे
जीवात्मानेमूर्त्तिनिमित्तवेदना प्रगटपणते एमजोमानिएतो पुज्जनेवेदनाथइजोइयें
तेमाटेएवेदनातो आत्माने अशुद्धशक्तिथी अनुभवथायते ॥ ४२ ॥

अह्नद्वारा यथा ज्ञानं स्वयंपरिणामत्ययं ॥ तथेष्टानिष्टविषय
स्पर्शद्वारेण वेदनां ॥ ४३ ॥ विपाककालं प्राप्यासौ वेदना प
रिणामजाक् ॥ मूर्त्तं निमित्तमात्रं नो घटे दंभवदन्वयि ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ इंद्रियद्वारेंकरी जेम ज्ञानविशा पोतानीमेले परिणमेते तेमइष्टअनिष्ट
विषयस्पर्शद्वारेंकरी वेदनापरिणमेते ॥ ४३ ॥ विपाककालपामीने आवेदनापरि
णामने जेमआत्मानजेते तेथी अमारमते मूर्त्तपणुंतेनिमित्तमात्रयुं अन्वयीके
सहचारीयुं जेमघटनेविपे दंभसहचारीते तेनीपेतेजाणुं ॥ ४४ ॥

ज्ञानाख्या चेतना बोधः कर्माख्याद्विष्टरक्तता ॥ जंतोः कर्मफ
लाख्या सा वेदना व्यपदिश्यते ॥ ४५ ॥ नात्मा तस्मादमूर्तत्वं चैत
न्यं चातिवर्तते ॥ अतोदेहेन नैकत्वं तस्य मूर्तेन कर्हिचित् ॥ ४६ ॥

अर्थ ॥ ज्ञाननामे चेतनातेबोधते अने कर्मनामेद्विष्टरक्तताते तेवडेजीवने कर्म
फलनामेवेदना व्यपदेशपामेते ॥ ४५ ॥ तेमाटेअमूर्तिआत्माते चैतन्यपणाने उ
लंघेनही अनेमूर्तिमान देहसाथेआत्माने कोइप्रकारे एकत्वपणुंतेजनही ॥ ४६ ॥

सन्निकृष्टान्मनोवाणी कर्मादेरपि पुञ्जलात् ॥ विप्रकृष्टा घना देश्च
नाव्यैवं न्निन्नत्मनः ॥ ४७ ॥ पुञ्जलानां गुणोमूर्तिरात्मा ज्ञानगु
णः पुनः ॥ पुञ्जलेभ्यस्ततोन्नित्तमात्मद्रव्यं जगुर्जिनाः ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ एरीते कर्मवर्गणाना मनोवर्गणाना वचनवर्गणाना जेआत्मानेसमीप
वर्ति एकत्वसंगतवर्ति एवातनधनादिक जेपुञ्जलतेतोसर्वआत्माथी न्निन्नके० दूरते
॥ ४७ ॥ केमकेपुञ्जलनोगुणतोमूर्तिमानते अने आत्मातोज्ञानगुणमयते माटेपुञ्जलथी
आत्मद्रव्यजुडंते एमप्रचुकहेते ॥ ४८ ॥

धर्मस्य गतिहेतुत्वं गुणो ज्ञानं तथात्मनः ॥ धर्मास्तिकाया तन्निन्न
मात्मद्रव्यं जगुर्जिनाः ॥ ४९ ॥ अधर्मे स्थितिहेतुत्वं गुणो ज्ञान
गुणोऽसुमान् ॥ ततो धर्मास्तिकायान्य मात्मद्रव्यं जगुर्जिनाः ५०

अर्थ ॥ धर्मास्तिकायनोगुण गतिहेतुते अनेआत्मानोगुणज्ञानते माटेधर्मास्तिका
यथी आत्माजुडोते एमप्रचुकहेते ॥ ४९ ॥ अधर्मास्तिकायनोगुण स्थितिहेतुते अने
आत्मानोज्ञानगुणते माटे अधर्मास्तिकायथी आत्मद्रव्यजुडंते एमप्रचुकहेते ५०

अवगाहो गुणो व्योम्नो ज्ञानं खल्वात्मनोगुणः ॥ व्योमास्ति
कायात्तन्निन्न मात्मद्रव्यं जगुर्जिनाः ॥ ५१ ॥ आत्मज्ञानगुणः सिद्धः
समयो वर्तनागुणः ॥ तन्निन्नं समयद्रव्यादात्मद्रव्यं जगुर्जिनाः ५२

अर्थ ॥ आकाशनोगुणअवगाहते अनेआत्मानोगुणज्ञानते माटे आकाशास्तिका
यथीआत्मद्रव्यजुडंते एमप्रचुकहेते ॥ ५१ ॥ आत्माज्ञानगुणेसिद्धते काल वर्तनारू
पते माटेकालथी आत्मद्रव्यजुडंते एमप्रचुकहेते ॥ ५२ ॥

आत्मनस्त दजीवभ्यो विचित्रत्वं व्यस्थितं॥व्यक्तिनेदेन वादेशा
दजीवत्वमपीष्यते ॥ ५३ ॥ अजीवा जन्मिनः शुद्ध नावप्राणव्य
पेक्षया ॥ सिद्धाश्च निर्मलज्ञाना इव्यप्राणव्यपेक्षया ॥ ५४ ॥

अर्थ॥एप्रमाणेअजीवथी आत्मानुजुदापणं सत्यठ्ठुं पणनेदेंकरी देशथकी अजी
वपणुंपणवंठीयेठइयें॥ ५३ ॥जेमनिर्मलज्ञानवंतसिद्धने इव्यप्राणनी अपेक्षारहितप
णे अजीवपणुंकहियें तेमद्युद्धनावप्राणनीअपेक्षारहित जीवनेअजीवकहियेठैयें

इंद्रियाणि बलं श्वासो ब्रह्मायु सतथा परं॥इव्यप्राणाश्चतुर्भेदाः
पर्यायाः पुञ्जलाश्रिताः ॥ ५५ ॥ चित्रास्ते ह्यात्मनोऽत्यंतं तदेतै
र्नास्ति जीवनं ॥ज्ञानधैर्यसदाश्वास नित्यस्थितिविकारिणिः ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥ इंद्रिय बल श्वासअनेआयुष्य एरीतेंइव्यप्राण चारनेदेंठे एनापर्यायतो
पुञ्जने आश्रीरह्याठे ॥ ५५ ॥ तेआत्माथी अत्यंतजुदाठे माटे एवमें कांइआत्मा
नेजीववुंनथी एपर्यायतो ज्ञान धैर्य तेनास्वासनीजेकांइ नित्यस्थितितेणेकरी बजितठे

एतत्प्रकृतिचूतानिः शाश्वतीनिस्तु शक्तिनिः ॥ जीवतात्मा स
देत्येपा शुद्धइव्यनयस्थितिः॥५७॥जीवो जीवति न प्राणै विना तै
रेव जीवति ॥ इदं चित्रचरित्रंको हंत पर्यनुयुज्यतां ॥ ५८ ॥

अर्थ ॥ एप्रकृतिरूप शाश्वतीशक्ति तेणेकरीने आत्मासदैवजीवेठे एद्युद्धइव्यनय
नीस्थितिजाणवी ॥ ५७ ॥ जीवकांइप्राणेकरीने जीवतोन्थी एजीवतोप्राणविनाजी
वेठे एअचंबानीवात विचित्रकारी चरित्रसांनजी कोणनहखें अनेएवातद्युद्धनयें
कोणनजोडे ॥ ५८ ॥

नात्मा पुण्यं नवा पाप मेते यत्पुञ्जलात्मके॥आद्यवालशरीरस्यो
पादानत्वेन कल्प्यते ॥ ५९ ॥ पुण्यं कर्म शुचं प्रोक्तं मशुचं पाप
मुच्यते ॥ तत्कथं तु शुचं जंतून् यत् पातयति जन्मनि ॥ ६० ॥

अर्थ ॥ आत्मापुण्यनही तेमपापपणनही केमके पुण्यनेपापतो पुञ्जरूपठे प्र
थमवालकालें जेशरीरतेनेउपादाननावेंकल्पठे ॥ ५९ ॥ जेद्युनकर्म तेपुण्यकहियें अ
नेजेद्युनकर्मतेपापकहियें तेवारें तेद्युनकर्मजेठे तेजीवनेसंसारमाकेमपाडेठे ॥ ६० ॥

न ह्यायसस्य बंधस्य तपनीयमयस्य च॥ पारतंत्र्याविशेषेण फ
लचेदोस्ति कश्चन॥६१॥ फलाभ्यां सुखदुःखाभ्यां न चेदः पुण्य
पापयोः ॥ दुःखान्ननिघ्नते हंत यतः पुण्यफलं सुखं ॥ ६२ ॥

अर्थ ॥ एकलोहनीवेदी अने एकसुवर्णनीवेदी तेपणपरवशपणुंते माटेविचारी
येतोफलचेदकांइनथी तेमअशुनकर्मते लोहनीवेडीअनेजे शुनकर्मते सुवर्णनीवेडी
॥ ६१ ॥ सुखनाफल अने दुःखनाजेफलप्रगटेते तेथीपुण्यपापमध्ये कांइचेदनथी जे
थकीपुण्यसुखविलसे एपुण्यनुंफलते तेपणदुःखरूपजते ॥ ६२ ॥

सर्वं पुण्यफलं दुःखं कर्मोदयकृतत्वतः ॥ तत्र दुःखप्रतिकारे
विमूढानां सुखत्वधीः ॥ ६३ ॥ परिणामाच्च तापाच्च संस्काराच्च
बुधैर्मतं ॥ गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखं पुण्यजनवं सुखं ॥ ६४ ॥

अर्थ ॥ माटेसर्वपुण्यनुंफल तेदुःखरूपते केमकेएकर्मनाउदयथीयायते माटेदुः
खनाप्रतिकारनेविषे मूर्खनेसुखबुद्धिउपजेते ॥६३॥ पंक्तिकहेतेके परिणामथी तथाता
पथी अनेसंस्कारथी गुणवृत्तिविरोधी एहवुंजेपुण्यतेथीनीपनुंजेसुखतेदुःखप्रायते॥६४॥

देहपुष्टे नैरामर्त्यं नायकानामपि स्फुटं ॥ महाजपोषणस्येव
परिणामोतिदारुणः ॥ ६५ ॥ जलुकाः सुखमानिन्यः पिवंत्यो
रुधिरं यथा ॥ नुंजाना विषयान् यांति दशामंते ऽतिदारुणां॥६६॥

अर्थ ॥ नरनेराजाने तथा इंद्रादिकनेपण जेसुखमांशरीरनीपुष्टियायते तेमोटाबो
कडानीपेठेते एकथाउत्तराध्यायनमां कहीतेतिहांथीजाणवी जेवारें वधथयो तेवारें
परिणामेअतिदुःखते ॥ ६५ ॥ जेमजलोलोही पीतांथका सुखमानेते तेमविषयनो
गवतांथकाप्राणी सुखमानेते पणतेथीअतें माठीदशानेपामेते ॥ ६६ ॥

तीव्राग्निसंगसंशुष्य त्पयसामयसामिव ॥ यत्रौत्सुक्यात्सदाह्वा
णां तप्तता तत्र किं सुखं ॥ ६७ ॥ प्राक्पश्चाच्चारतिस्पर्शा त्पुटपाक
मुपेयुषि ॥ इंद्रियाणंगेणे ताप व्यापएव न निवृत्तिः ॥ ६८ ॥

अर्थ ॥ आकरीअग्निमां बलतरारयेकरी लोहपाणीपीयेते तेमज्यांसदा इंद्रियोनी
उत्कंठाथीघणीज बलतरारहेते त्यांशुंसुखते ॥ ६७ ॥ पेहेलांअथवापते पणजेथकी
अरतिउपजे तेनेअडकवाथी विपाकपामेथके इंद्रियोना समूहमां ताप व्यापेपणसु

खनथाय एतले पेहेलावांध्याजेकर्म तेजेवारें जोगववामांआवे तेवारेंपण अरतिजेइ
नेजआवे अनेपठे तेकर्मो विपाकेपण दुःखआपे ॥ ६८ ॥

सदा यत्र स्थितो द्वेषोल्लेखः स्वप्रतिपंथिषु ॥ सुखानुभवकाले
पि तत्र तापहतं मनः ॥ ६९ ॥ स्कंधात् स्कंधांतरारोपे चारस्येव
न तत्त्वतः ॥ अह्लाह्लादेपि दुःखस्य संस्कारोपि निवर्तते ॥ ७० ॥

अर्थ ॥ जेहनेसदैवशत्रुपर द्वेषहोठे तेप्राणीजो घरमांसुखेंवेगोहोय तोपण
तेहनेसुखनहोय तेमविषयसुखमां अनुभवकालेंपण जेहनोविषयना तापेकरीमन
हणाणोठे तेहनेसुख क्वांथीहोय ॥ ६९ ॥ जेमएकखंजाउपरथी बीजाखंजाउपर
चारलीधो पणतत्वथी चारउतखोनही एमइंझियोनेआनंदे दुःखनोसंस्कारमटतोनेथी

सुखं दुःखं च मोहश्च तिस्रोपि गुणवृत्तयः ॥ विरुद्धा अपि वर्तते
दुःखजात्यनतिक्रमात् ॥ ७१ ॥ क्रुद्धनागफणाजोगो पमोजो
गोभवोखिलः ॥ विलासश्चित्ररूपोपि नयहेतुविवेकिनां ॥ ७२ ॥

अर्थ ॥ सुखदुःखअनेमोह एत्रणे जोपणविरुद्धे तोपणगुणवृत्तीयेवर्तते के
मकेदुःखनीजातिने उलंघनकरीशकतानथीमाटे. गुणवर्तिक्रमपठे ॥ ७१ ॥ क्रोधी
नागनीफणनां विस्तारसरखो सर्वजोगविलासठे वलीतेजोगविलास यद्यपिविचित्ररू
पठे तथापि विवेकीजनने तेजयनोहेतुठे ॥ ७२ ॥

इत्यमेकत्वमापन्नं फलतः पुण्यपापयोः ॥ मन्यते यो न मूढात्मा नां
तस्तस्य नवोदधेः ॥ ७३ ॥ दुःखैकरूपयोर्निन्न स्तेनात्मा पुण्यं
पापयोः ॥ शुद्धनिश्चयतः सत्य चिदानंदमयःसदा ॥ ७४ ॥

अर्थ ॥ एरीतें फलनीअपेहायें पुन्यपापनुं एकत्वपणुंतेरावुं पणजेमूर्खनमानशे
तेसंसारमांजटकशे अनेजेमानशेतेजवसागरतरीजशे ॥ ७३ ॥ पुन्यअनेपाप एवेहुए
कसरखाडुःखरूपजठे तेथकीआत्मानिन्नठे शुद्धनिश्चयनयथी सदासत्चिदानंदमयठे

तत् तुरीयदशाव्यंग रूपमाचरणा न्वयात् ॥ नात्युष्णो द्योतशी
लस्य घननाशाडवेरिव ॥ ७५ ॥ जायंते जाग्रतो ऽद्वैत्य श्रित्रा
यिसुखवृत्तयः ॥ सामान्यं तु चिदानंद रूपं सर्वदशान्वयि ॥ ७६ ॥

अर्थ ॥ एवाततेचोथीदिशायें जाणवायोग्यठे जेमवर्षाकालमां मेघवरसीरह्या प
ठो चादलनाशयापठे अनेसूर्यप्रजाशोभेठे तेमव्यंगरूपविचित्र एहवोआचरणविशे

पेंकरी चोथीदशामांशोनेठे ॥ ७५ ॥ जागताजीवने इंडियोनीसुखवृत्तिओ नानाप्र
कारनीथायठे पणसामान्यजे चिदानंदस्वरूप तेनेतोसर्वदशामां सरखुंसुखठे ॥ ७६ ॥

स्फुलिंगने र्थया वन्हि दिप्यते ताप्यते थवा ॥ नानुचूति पराचू
ती तथैतान्निः किलाल्मनः ॥ ७७ ॥ साक्षिणः सुखरूपस्य सुषुप्तौ
निरहंकृतेः ॥ यथा ज्ञानं तथा शुद्ध विवेके तदतिस्फुटं ॥ ७८ ॥

अर्थ ॥ तणपेंकरीनेजेम अग्नीदीपेनही तपायनही तेमअनुभवपराजवादिके क
रीने आत्मानेकइंनथी ॥ ७७ ॥ निडावस्थामांजेम सुखरूपनोसारखीजे आत्मातेने
अहंकारेंरहितसुखनो जासनथायठे तेमशुद्धविवेकनेविषे तोप्रगटपणेसुखनासेठे ७८

तच्चिदानंदजावस्य जोक्तात्मा शुद्धनिश्चयात् ॥ अशुद्धनिश्च
यात्कर्म कृतयोः सुखदुःखयोः ॥ ७९ ॥ कर्मणोपि च जोगस्य स्र
गादेव्यवहारतः ॥ नैगमादिव्यवस्थापि जावनीयाऽनया दिशा ॥ ८० ॥

अर्थ ॥ तेमाटेशुद्धनिश्चयनयथकी आत्माचिदानंदजावनो जोक्ताठे अनेअशुद्धनि
श्चयनयथकीकर्मकखांजे सुखदुःखतेनो जोक्ताआत्माठे ॥ ७९ ॥ फुलनीशय्या तथा
फुलनानूपण प्रमुखनेविषेजोगकर्मनी व्यवहारथीप्रवृत्तिठे तेमनैगमादिकनयनी व्य
वस्थापण आवीरीते जाविथेंतेनीचेंलख्याप्रमाणेठे ॥ ८० ॥

कर्तापिशुद्ध जावाना मात्माशुद्धनयाद्विभुः ॥ प्रतीत्यवृत्तिं यशुद्ध
क्षणानामेष मन्यते ॥ ८१ ॥ अनुपल्लवसाम्राज्ये विषजागपरि
क्षये ॥ आत्मा शुद्धस्वजावानां जननाय प्रवर्तते ॥ ८२ ॥

अर्थ ॥ शुद्धजावनोकर्ता आत्माशुद्धनयथी समर्थठे जेवारेंशुद्धपरिणामीठे तेस
मर्थवीर्यवृत्तिनेआश्रयिने शुद्धजावनोकर्ताठे एमशुद्धनयवालोमानेठे ॥ ८१ ॥ उपड
व अंतरायादिकेरहित साम्राज्यपणानेविषे दुष्टजावनोनाशथयेठे आत्माशुद्धस्व
जाव प्रगटकरवाने प्रवर्तते ॥ ८२ ॥

चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितं ॥ तदैव तैर्विनिर्मुक्तं न
वांतइति कथ्यते ॥ ८३ ॥ यश्च चित्तद्विणक्लिष्टो नासावात्मा
विरोधतः ॥ अनन्यविकृतं रूपमित्यर्थत्वं ह्यदः पदं ॥ ८४ ॥

अर्थ ॥ जेरागादिक क्लेषवर्मे चित्तवासितहोय तेसंसारकेवाय अने रागदेषथीसु

कावबुं तेनुं नाम मुक्तिं एमजाणुं ॥ ६३ ॥ रागद्वेषेभ्याप्यो जेमननोक्लिष्ट परिणाम
 ठे तेकांश्चात्मानोनथी आत्मानुरूपतो सत्यार्थपणेअविकारीठे ॥ ६४ ॥

श्रुतवानुपयोगश्चे त्येतन्मिध्या यथा वचः ॥ तथात्मा शुद्धरूपश्चे
 त्येवं शब्दनया जगुः ॥ ६५ ॥ शुद्धपर्यायरूपस्त दात्मा शुद्धस्व
 जावकृत् ॥ प्रथमाप्रथमत्वादि जेदोप्येवं हि तालिकः ॥ ६६ ॥

अर्थ ॥ जेम आत्मानुं उपयोग श्रुतवतंठे एखोदुंठे तेमशब्दनयालाकहेठेके आ
 त्माशुद्धरूपनथी एणखोदुंठे ॥ ६५ ॥ शुद्धपर्यायरूप आत्मापूर्वपश्चात्परिणानो जे
 जेद तेपणे शुद्धस्वजावनोकर्ताठे एमतालिकठे ॥ ६६ ॥

ये तु दिक्पटदेशीयाः शुद्धज्व्यतयात्मनः ॥ शुद्धस्वजावकर्तृत्वं
 जगुस्ते पूर्वबुद्धयः ॥ ६७ ॥ इव्यास्तिकस्य प्रकृतिः शुद्धा संग्रह
 गोचरा ॥ येनोक्ता संमतौ श्रीमत्सिद्धसेनदिवाकरैः ॥ ६८ ॥

अर्थ ॥ दिगंबरएमकहेठेके शुद्धइव्याथे वलीजेमउपयोगविना श्रुतजण्यो तेनुं प
 ण शुद्धस्वजावतुं कर्तापणुंजतुंनथी केमकेतेतेने स्वजावेजपरिणामेठे एमअपूर्वबुद्धिनुं
 केवुंठे ॥ ६७ ॥ इव्यास्तिकनयनीजे शुद्धप्रकृतिठे तेसंग्रहनयउपरचाले केमकेसम्मति
 ग्रंथमां सिद्धसेनसूरियेकबुंठे ॥ ६८ ॥

तन्मते च न कर्तृत्वं जावानां सर्वदान्वयात् ॥ कूटस्थः केवलं तिष्ठ
 त्यात्मा साक्षिलमाश्रितः ॥ ६९ ॥ कर्तुं व्याप्रियते नायमुदासी
 न इव स्थितः ॥ आकाशमिव पंकेन लिप्यते न च कर्मणा ॥ ७० ॥

अर्थ ॥ तेनेमते कर्तापणुंनथी केमकेसदैवजावनो अन्वयठे माटेकूटस्थकेवल
 निर्विक्रियजे आत्मा तेसाह्मीपणाने आश्रोनेरह्योठे ॥ ६९ ॥ करवानोव्यापार करतो
 नथी उदासीनीपठेरह्योठे जेमकरे आकाशजेपातुंनथी तेमकर्मआत्मा जेपातो नथी
 स्वरूपं तु न कर्तव्यं ज्ञातव्यं केवलं स्वतः ॥ दीपेन दीप्यते ज्यो
 ति नित्यपूर्वं विधीयते ॥ ७१ ॥ अन्यथा प्रागनात्मा स्यात्स्वरूपा
 ननुवृत्तितः ॥ नवहेतुसहस्रेणा प्यात्मता स्या दनात्मनः ॥ ७२ ॥

अर्थ ॥ पोतानारूपनेनवीनकरबुंनथी मात्रपोताना रूपनेपोताथकीकेवल जाणी
 ठेवुंठे जेमदीवेथी ज्योतिदीपेठे तेमनित्य शाश्वतआत्मा स्वप्रकाशहोवाथी पोतेपोता

ने प्रकाशते ॥ ९१ ॥ एम आत्माने स्वप्रकाश अने शाश्वत अंगीकार करीएनही अने परप्रकाश तथा कर्तृत्व सिद्धमानीए तो पूर्वअनात्मपणुं अंगीकार करवुंपडगे केमके क्रियावडे उत्पन्नथएलापदार्थनुं पूर्वनुं रूप जुंइज होयते एवोनियमते एवी रीतेंआत्मानी उत्पत्तिनी पूर्वे आत्माने अनात्ममानहुं पडगे अने क्रियावडे आत्मानुं रूपांतरथाएते एममानीएतो आत्मानी आवृत्ति अंगीकारकरवीपडगे आवृत्ति अंगीकारकरीएतो संसारविषयक हजारोरुप्यरूप हेतुवडे हजाराेरूप बदलाशे ल्यारें पूर्व पूर्वनुरूपअनात्म अने उत्तर उत्तरक्रियाजन्यरूप आत्मामानहुं पडगे अने एम कखाथी ठेवटें अनावस्था दोष प्राप्तयगे ॥ ९१ ॥

नये तेनेह नोकर्ता किंवात्मा शुद्धजावचृत् ॥ उपचारात्तु लोके
पु तत्कर्तृत्वमपीप्यते ॥ ९३ ॥ उत्पत्तिमात्रं धर्माणां विशेषग्रा
हिणो जगुः ॥ अव्यक्तिरावृतेस्तेषां नाज्ञावादिति का प्रमा ॥ ९४ ॥

अर्थ ॥ तेमाटेआनयनेविषे कर्तापणुंनथी केमके आत्माशुद्धजावनो धरनारठे अनेलोकमां उपचारथी तेनुंकर्तापणुकेहेठे ॥ ९३ ॥ विशेषग्राही जेज्ञानीपुरुषोठे तेपूर्वोक्तरीतें आत्माने क्रियासिद्ध मानतानथी किंतु आत्मानाधर्मोनी उत्पत्ति मा नेठे आंही कोइने शंकाथगे केजेम आत्माअव्यक्तठे तेमआत्मानाधर्मपण अव्यक्तठे तोज्यारेआत्मानी उत्पत्ति मानतानथी ल्यारेतेनाधर्मनी उत्पत्तिपण केममनाय तेनो समाधानजे केटलीएकअव्यक्त वस्तुठ आकाशनीपठे जेमनीतेमरहेठे अने केटली एक रूपांतरने पामेठे आत्माशाश्वताव्यक्तठे अने तेनाधर्मअशाश्वताव्यक्तठे माटेते ओनी आवृत्तियायठे केमके जेमआत्मानी अनावृत्तिमां घणाप्रमाणोठे तेमआत्माना धर्मनीआवृत्ति नश्वामां कोइप्रमाणनथी तेथीआत्मानी पुनरावृत्ति यतीन थी पणआत्माना धर्मोनीपुनरावृत्तियायठे एवुंसिद्धययुं ॥ ९४ ॥

सत्त्वं च परसंताने नोपयुक्तं कथं च न ॥ संतानिनामनित्यत्वा
त्संतानोपि न च ध्रुवं ॥ ९५ ॥ व्योमाव्युत्पत्तिमत्तत्त दवगाहात्मना
ततः ॥ नित्यता नात्मधर्माणां तद्दृष्टान्तवलादपि ॥ ९६ ॥

अर्थ ॥ आत्मानुंउत्पत्तिरहितपणुं दृष्टान्तवडेदृढकरेठे जेमपितापुत्ररूप परिवारनी उत्पत्तिमां पूर्वपूर्वपितारूप कारणथी उत्तरउत्तर पुत्ररूपकार्यनी उत्पत्तिथया थी पितापणानोअनाव अनेपुत्रपणानोनाव थायठे एमशृंखलाचालतां जेमपिता

नोनाशं तेमपुत्रनोः पणनाशथायते तेमअनात्माथी आत्मानीउत्पत्तिरूप प्रवाहथी
 पूर्वनोअजाव अनेउत्तरनो जावधतां पूर्वनीपते उत्तरनानाशनो पणसंजव सिद्धथा
 यते एथीआत्मा अशाश्वतः अनेनाशरूप उरसे ॥ ९५ ॥ आकाशनादृष्टांतवडे आ
 त्मानुअचलपणं अनेआत्मानाधर्मोनु चलायमानपणं सिद्धकरते जेमआकाशउत्प
 त्तिरहितते तेथीतेनुंरूपांतर थतुंनथी तेमजआत्मापण उत्पत्तिरहित होवाथीतेनो
 रूपांतरथतुंनथी अनेआत्मानाधर्म उत्पत्तिवानते तेथीतेनुं रूपांतरथायते अंहीप
 ण आकाशनुंव्यतिरेकपणे दृष्टांतलेवुं जेवस्तुआकाशनीपेते उत्पत्तिरहित नथीहोती
 तेनुंरूपांतर थायते ॥ ९६ ॥

ऋजुसूत्रनयसूत्रः कर्तृतां तस्य मन्यते ॥ स्वयं परिणामत्यात्मा यं
 यं जावं यदा यदा ॥ ९७ ॥ कर्तृत्वं परजावाना मसौ नाज्युप
 गच्छति ॥ क्रियाद्यं हि नैकस्य इव्यस्याजिमतं जिनैः ॥ ९८ ॥

अर्थ ॥ ज्यारेंआत्मानु रूपांतरथतुंनथी ल्यारेंपरिणामवादनो उच्छेदथसे एवी
 आशंकाकरीनेतेनुं उत्तरकहेते यद्यपिरुजुसूत्रनयवालो ज्यारेज्यारे जेजेजावनापरि
 णामने आत्मापामेते ल्यारेत्यारे तेतेजावरूप कर्मवडे परिणामरूप उत्पत्तिमानेते
 ॥ ९७ ॥ तथापिआत्माने कर्तृत्वपणे बीजाजावनी प्राप्तिथतीनथी केमके एकइ
 व्यमां वेक्रियासंनवेनही एवुंजिननुं अजिमतते ॥ ९८ ॥

नूतिर्या हि क्रिया सैव स्यादेकइव्यसंततौ ॥ न साजात्यं विना च
 स्यात् परइव्यगुणेषु सा ॥ ९९ ॥ न चैवमन्यजावानां न चेत्क
 र्ता परोजनः ॥ तदा हिंसादयादान हरणाय व्यवस्थितः ॥ १०० ॥

अर्थ ॥ नूतिएटले जावअनेक्रिया एवनेनोएक अर्थतेते एकइव्यसंततिनेविपे
 सामान्यविना नथाय अनेइव्यनाशुणनेविपे पणनथाय केमकेकोइपण इव्य अपर
 जावनो कर्ताहोतोनथी ॥ ९९ ॥ एमजआत्मानेविपे अन्यजावनुं कर्तृत्वपणुंनथी
 ल्यारेशिष्यपूठेते के हिंसा दया दानवगैरेनी व्यवस्थाकेम रहेशे ॥ १०० ॥

सत्यं पराश्रयं न स्यात् फलं कस्यापि यद्यपि ॥ तथापि स्वगतं
 कर्म स्वफलं नानिवर्तते ॥ १०१ ॥ हिनस्ति न परं कोपि निश्चया
 न्न च रद्दति ॥ न चायु कर्मणोनाशो मृतिजीवनमन्यथा ॥ १०२ ॥

अर्थ ॥ ल्यारेगुरुकहेते यद्यपिए ताहुंवालेवुं साहुंते केमके कोइनेपण पराश्रयं

फलयतुंनथी तथापिपोतानेविषे रहेलुंजेकर्म तेपोतानाफलनेविषे प्रवर्त्ततुंनथी
॥ १०१ ॥ बीजाकोशने कोशमारतो नथी तेमकोशनेकोश रक्षणकरतो नथी आयुकर्म
नोनाश थायनही अनेमृत्युजीवन अन्यथाथायनही ॥ १०२ ॥

हिंसादयाविकल्पाज्यां स्वमताज्यां तु केवलं ॥ फलं विचित्रमाप्नोति
परापेक्षां विना पुमान् ॥ १०३ ॥ शरीरी स्त्रीयतां मावा ध्रुवं हिंसा प्र
मादिनः ॥ दयैव यज्ञमानस्य बंधेपि प्राणिनां क्वचित् ॥ १०४ ॥

अर्थ ॥ हिंसाअने दयानीपणमात्र कल्पना करवीठे पोतानामतेकरी तोपरनी
अपेक्षाथी पुरुषकेवल विचित्रफलने पामेठे ॥ १०३ ॥ जीवनोघातथाय अथवान
थायतोपण जेप्रमादीजीवठे तेनेनिश्चयेंकरी हिंसाथायठे अनेजे दयावानप्राणीठे
तेनाहाथे कदाचकोशजीवनी यातथइजाय तोपणतेने हिंसाजागतीनथी ॥ १०४ ॥

परस्य युज्यते दानं हरणं वा न कस्यचित् ॥ न धर्मसुखयोर्यत्ते
कृतनाशादिदोषतः ॥ १०५ ॥ जिन्नाज्यां नक्तवित्तादि पुञ्जला
ज्यां च ते कुतः ॥ स्वत्वापत्तिर्यतो दानं हरणं सत्त्वनाशनं ॥ १०६ ॥

अर्थ ॥ कोशबीजाने दानदेतो नथी अनेबीजानी पासेथीकोशकांइ हरणकरी ले
तो नथी धर्मअनेसुखनेविषे पणदानतथा हरणनो संजवनथी केमके कृतनाशअने
अकृतनोप्रसंग इत्यादिदोष प्राप्तथरो जेमदानकखुं तेनुंनशाथाय तेनेकृतनाशकहेठे
अनेजेबीजाने आप्छुंनथी तेनुंहरणकरवुंते अकृतागम प्रसंगकहेवाय एवादोष
आत्मातेविषे प्राप्तथरो ॥ १०५ ॥ केमकेनोजन तथाधनादिकजेपुञ्जल तेतोआत्मा
थीनिन्नठे तोतेमांक्यांथी पोतापणुंआव्युं माटेदानअनेहरणते पोताथीजनाशठे

कर्मोदयाच्च तद्दानं हरणं वा शरीरिणां ॥ पुरुषाणां प्रयासः
कस्ततोपनमति स्वतः ॥ १०७ ॥ स्वागताज्यां तु चावाज्यां केवलं
दानचौर्ययोः ॥ अनुग्रहोपघातौ स्तः परापेक्षा परस्य न ॥ १०८ ॥

अर्थ ॥ वलीतेदान अनेहरणप्राणीने कर्मनाउदयथकीठे त्यांपुरुषनेशोप्रयासठे
तेतोपोतानीमेलेज उदयपामेठे ॥ १०७ ॥ पोतामारह्या एवाजेदानअनेहरणना चाव
तेणोकरीनेएकथी उपगारथाय बीजाथीउपघातथाय त्यांपरनीअपेक्षापरनेनही १०८

पराश्रितानां ज्ञानानां कर्तृत्वाद्यभिमानतः ॥ कर्मणा बध्यतेऽज्ञा
नी ज्ञानवांस्तु न लिप्यते ॥ १०७ ॥ कर्तैवमात्मनोपुष्य पापयो र
तिकर्मणोः ॥ रागद्वेषाशयानां तु कर्तैष्टानिष्टवस्तुषु ॥ ११० ॥

अर्थ ॥ पराश्रितजेजाव तेनोङ्कर्त्ताहुं एमअभिमानथीकहेहुं एवाकर्मैअज्ञानी
बंधायते पणज्ञानीतेवाकर्म लेपातानाथी ॥ १०७ ॥ माटेआत्मातेपुष्यपापरूप क
र्मनोकर्त्ताते रागद्वेषाशयनो कर्त्ताते अनेइष्टअनिष्टवस्तुनेविषेपण आत्माकर्त्ताते
रज्यते द्वेष्टि चार्थेषु तत्तत्कार्यविकल्पतः ॥ आत्मा यदा तदा
कर्म भ्रमदात्मनि युज्यते ॥ १११ ॥ स्नेहाज्यक्ततनौ रंगं रेणुना
श्लिष्यते यथा ॥ रागद्वेषानुविद्धस्य कर्मबंधस्तथा मतः ॥ ११३ ॥

अर्थ ॥ जेवारेंतेतेकर्मनाविकल्पथी आत्माने कोइपदार्थवपर रागदिशा अथवा
द्वेषवपजेते तेवारेंआत्मानां कर्मनोभ्रमजोडायते ॥ १११ ॥ तेललगाडेलाशरीरें जे
म रजनोलेपवलगेते तेमरागीअनेद्वेषी आत्माने कर्मनोबंधविलगेते ॥ ११३ ॥

आत्मा न व्यापृतस्तत्र रागद्वेषाशयं सृजन् ॥ तन्निमित्तोपन
म्नेषु कर्मोपादानकर्मसु ॥ ११३ ॥ लोहं स्वक्रिययान्येति धामको
पलसंनिधौ ॥ यथा कर्म तथा चित्रं रक्तद्विष्टात्मसंनिधौ ॥ ११४ ॥

अर्थ ॥ तिहांआत्मापोते कोइक्रियाकरतोनथी पणरागद्वेषकरतोथको तेनिमित्तेपा
म्या जेकर्म तेनानिमित्तैककर्त्तापणुंकर्मते पणतिहांआत्मातो रागद्वेषरूपकर्मनो मूकना
रोते एटले आत्मानावकर्मनो व्यापारवंतते पणइव्यकर्मनोव्यापारवंतनथी ॥ ११३ ॥
जेमचमकपापाणते लोहने आकर्षे तेणेकरीजोह पोतानीक्रियायें चमकपासेआवीम
ले तेमरागद्वेषीआत्मानापासें कर्मआकर्षणेंआवीमलेते ॥ ११४ ॥

वारि वर्षन् यथाज्जोदो धान्यवर्षानिगद्यते ॥ जावकर्मं सृजन्नात्मा
तथा पुञ्जलकर्मकृत् ॥ ११५ ॥ नैगमव्यवहारौ तु ब्रूतः कर्मा
दिकर्तृतां ॥ व्यापारः फलपर्यंतः परिदृष्टो यदात्मनः ॥ ११६ ॥

अर्थ ॥ जेमपाणीवरसेते तेलोकव्यवहारें धान्यवरसेते एमकहियें तेमजावकर्म
करतोथको आत्मापुञ्जल कर्मनोकर्त्ताकहियें ॥ ११५ ॥ नैगमव्यवहारनयवाला तो कर्मा
दिकनोकर्त्ताआत्माने मानेते जेआत्मानो व्यापार तेफलपर्यंतदेखायते ॥ ११६ ॥

अन्योन्यानुगतानां का तदेतदिति वा जिदा॥यावच्चरमपर्यायं
यथा प्रानीयङ्गधयोः ॥ ११७ ॥ नात्मनो विकृतिं दत्ते तदेषा
नयकल्पना॥शुद्धस्य रजतस्यैव शुक्तिधर्मप्रकल्पना ॥ ११८ ॥

अर्थ ॥ परस्परमव्याएवाजेनय तेहने एवोनिर्णययावत् चरमपर्यायतेपरंतुजातिजे
दकेमजणाय जेमडुधअनेपाणीनासंयोगनीपरेंसंग्रहमाने नैगमने अनेनैगममाने संग्र
हनेएवेनयमाहोमाहेंजलेते एमव्यवहारपण जलेते ॥ ११७ ॥ वलीशुद्धनयवालो वो
लेतेजे आत्मानेविकारनथी आपतोएवीनैगम तथाव्यवहारनयनी कल्पनाते केहेनी
परें तेकहेतेजेमशुद्धरूपानेविपनोधर्म कल्पेतेतेहनीपरें जाणवुं ॥ ११८ ॥

मुषितत्वं यथा पांथगतं पथ्युपचर्यते ॥ तथा पुञ्जलकर्मस्थ्या वि
क्रियात्मनि बालिशैः॥११९॥कृष्णशोणोपि चोपाधेर्नाशुद्धः स्फ
टिको यथा ॥ रक्तोऽष्टिष्ठस्तथैवात्मा संसर्गात्पुण्यपापयोः॥ १२० ॥

अर्थ ॥ जेमपंथीजनने लुंटांलोककहेजे मार्गलुंटाणो एलोकवाक्यते तेममू
खंप्राणी पुञ्जलकर्ममांरही जेविक्रियाकरे तेआत्मानेविषे मानेते ॥ ११९ ॥ जे
मकालो अथवारातो स्फटिकते तेउपाधिथीते माटेतेथीतेने अशुद्धनकहियें तेमपु
ण्यपापना संयोगथी आत्मारानीक्षी कहेवायते ॥ १२० ॥

सेयं नटकला तावद् यावद्विविधकल्पना॥ यद्रूपं कल्पनातीतं
न तु पश्यत्यकल्पकः॥१२१॥कल्पनामोहितोजंतुः शुक्लं कृष्णं
च पश्यति॥ तस्यां पुनर्विलीनाया मशुक्लं कृष्णमीक्षते ॥१२२॥

अर्थ ॥ जिहांसुधीविविध प्रकारनीकल्पनाहोय तिहांसुधीएसर्व नटकलारूपते प
एकल्पनायेंअतीतजेरूप तेनेतो जेअकल्पकहोय तेदेखे ॥ १२१ ॥ पणकल्पनायेंमुं
जाणो जेजीव तेतो धोलानेकालुंदेखेअनेकालाने धोलुंदेखे अनेतेकल्पना जेवारेंजा
य तेवारें तोकालानेकालुंजदेखे अनेधोलाने धोलुंजदेखे ॥ १२२ ॥

तद्भ्यानं सा स्तुतिर्नक्तिः सैवोक्ता परमात्मनः ॥ पुण्यपापवि
हीनस्य यद्रूपस्यानुचिंतनं ॥ १२३ ॥ शरीररूपलावण्य वप्र
अध्वजादिभिः॥वाणितैर्वीतरागस्य वास्तवी नो पवर्णना॥१२४॥

अर्थ ॥ पुण्यपापरहित एहवाजेपरमात्माप्रभु तेनास्वरूपतुं चिंतवतुं तेनेजध्यानक
हियें अनेस्तुतिपणतेज तथाजक्तिपणतेजकहियें ॥ १२३ ॥ पणशरीरनावणें रूपेंकरीजा

वक्ष्यतायेंकरी समोसरणे अनेठत्रेकरीतथा इध्वजादिकेकरी जेपरमात्माने वखाण
वा एहवीस्तुतिने वस्तुतलें करी साचीनकहियें ॥ १२४ ॥

व्यवहारस्तुतिः सेयं वीतरागात्मवर्तिनां॥ज्ञानादीनां गुणानां तु
वर्णना निश्चयस्तुतिः ॥ १२५ ॥ पुरादिवर्णना राजा स्तुतः स्या
उपचारतः ॥ तत्रतः शौर्यगांजीर्य धैर्यादिगुणवर्णनात् ॥ १२६ ॥

अर्थ ॥ केमके एस्तुतितोव्यवहारें पणजेमां वीतरागनांज्ञानादिकगुण प्रशंसवा
तेहनेनिश्चयस्तुतिकहियें ॥ १२५ ॥ जेमदेशनगरादिकेंकरी राजावखाणवो एउपचा
रेंस्तुतिजाणवी पणराजांनुंबल गांजीर्यताधैर्यतानुंबलवतुं तेनिश्चंथीस्तुतिकहियें ॥ १२६ ॥

मुख्योपचारधर्माणा मविज्ञानेन या स्तुतिः॥न सा चित्तप्रसादा
य कविलं कुक्वेरिव ॥ १२७ ॥ अन्यथाजिनिवेशेन प्रत्युतान
र्थकारिणी ॥ सुतीद्विणखद्गधारेव प्रमादेन करे धृता ॥ १२८ ॥

अर्थ॥जेमकोकशास्त्रना कविनीकविताइथी पंडितरीजेनही तेमवाह्यउपचार वेखी
वेहेचणविना नीजेस्तुतिकरियें तेथकी चित्तप्रसन्नयायनही ॥ १२७ ॥जेप्रोतानेंहठ कदा
अहेंकरी मुखउपचारें स्तुतिकरी गुणमानेठे पणतेउलटी अनर्थकारीठे जेमप्रमादें
करीहाथमांजालेली तरवारनीधार तेजोकदाउपडेतोउलटी अनर्थविघातकरेठे ते
नीपरें तेस्तुतिपण अन्यथाजाणवी ॥ १२८ ॥

मणिप्रज्ञामणिज्ञान न्यायेन शुचकल्पना ॥ वस्तुस्पर्शतया
न्याय्या यावन्नान्यजनप्रथा ॥ १२९ ॥ पुण्यपापविनिर्मुक्तं तत्रत
स्त्विकल्पकं ॥ नित्यं ब्रह्म सदाध्येय मेपाशुक्षनयस्थितिः ॥ १३० ॥

अर्थ ॥ मणिरत्ननी कांतिदेखीने जेममणिनुंज्ञानके०ओलखाणथायठे एहृष्टां
ते शुचकल्पनायेंकरी आत्मानुज्ञानहोयठे पठेवस्तुस्पर्शिकवडेकरी योग्यताथायठे प
णजांसुधिनिरंजन प्रधानथीययी त्यांसुधीकर्मठे ॥ १२९ ॥ माटेपुण्यपापरहितपणे त
त्वथीनिर्विकल्पएवो शाश्वतोजे आत्मातेसदायथावो एवीशुक्षनयनीस्थितिठे ॥ १३० ॥

आश्रवः संवरश्चापि नात्मा विज्ञानलक्षणः ॥ यत्कर्म पुजला
दान रोधावाश्रवसंवरः ॥ १३१ ॥ आत्मा दत्ते तु यैर्जोवैः स्वतंत्रः
कर्मपुजलान् ॥ मिथ्यात्वाविरती योगाः कपयास्ते तदाश्रवाः ॥ १३२ ॥

अर्थ ॥ आत्माज्ञानरूपते माटेआत्माने आश्रवसंवरकांइनकहिये एणकर्मपुजन
नुंगहेवुं तथारोधवुंते आश्रवसंवरते ॥ १३१ ॥ जेजावैकरी स्वाधीनपणे कर्मपुजने
आत्माग्रहेतेते मियात्वअविरति कपाय अनेयोगजेआश्रवतेएकरीजाणवुं ॥ १३२ ॥

जावनाधर्मचारित्र परिषहजयादयः॥आश्रवोहेदिनो धर्मा आ
त्मनो जावसंवराः॥ १३३ ॥आश्रवः संवरो न स्या त्संवरश्चा
श्रवः क्वचित्॥अवमोक्ष फलाप्तेदो न्यथा स्याद्धेतुसंकरात् १३४

अर्थ ॥ अनेजावनाधर्मजेचारित्रते जेथकी परिसहनोजयथायते एआश्रवनो उ
हेदकधर्मते एआत्माने जावसंवरकहिये जेआश्रवतेसंवरनथाय अनेजेसंवर ते
आश्रवनथाय हेतुसंकर एवेजोकदापि एकरूपथाय तोसंसारअनेमोक्ष एवेनाफल प
एएकथाय पणतेमांजेदरहेनही एटलेज्यांआश्रवैकरीसंवरनुं संक्रमणथाय त्यांमोक्षफ
लजाणवुं अनेज्यांसंवरैकरी आश्रवनुंसंक्रमणथाय त्यांसंसारफलजाणवुं ॥ १३४ ॥

कर्माश्रवश्च संवृणा नात्मा चिन्नै निजाशयैः॥करोति न परापेक्षा
मलंनूणुः स्वतः सदा ॥ १३५ ॥ निमित्तमात्रनूता तु हिंसाऽहिंसा
दयोखिलाः ॥ ये परप्राणिपर्याया न ते स्वफलहेतवः ॥ १३६ ॥

अर्थ॥आश्रवजावने संवरकरतोथकोजे पोतानीआत्माथीजूदांनथी एवाजे पोता
नाआश्रय तेएकरी परअपेक्षानकरे केमकेतेपोताथी सदायसमर्थते॥३५॥जेहिंसाअ
हिंसादिकसयला परप्राणिनापर्याय तेआत्माने निमित्तनूतते पणपोतानेफलहेतुनथी

व्यवहारविमूढस्तु हेतूस्तानेव मन्यते ॥ बाह्यक्रियारतस्त्वांत
स्तत्वं गूढं न पश्यति ॥ १३७ ॥ हेतुत्वं प्रतिपद्यंते नैवेति नियम
स्पृशः ॥ यावंत आश्रवाः प्रोक्ता स्तावंतोहि परिश्रवाः॥ १३८ ॥

अर्थ ॥ व्यवहारमूढजेआत्मातेपरपर्यायने पोताना फलहेतुमानेते माटेजेतुंम
न बाह्यक्रियामारक्तते तेवाप्राणीगुप्ततत्त्वने देखतानथी ॥ १३७ ॥ जेहिंसादिक त
थाअहिंसादिक परपर्यायहेतुपणुंते तेनेपडिवजे अथवानथीपडवर्जता एहवानिय
म तेतोनिश्चयनाजेफरसनाराते तेहनेजेटलाआश्रवते तेटलासंवररूपथाय॥१३८॥

तस्मादनियतं रूपं बाह्यहेतुषु सर्वथा ॥ नियतौ जाववैचित्र्या
दात्मैवाश्रवसंवरो ॥ १३९ ॥ अज्ञाता विषयासक्तो बध्यते
विषयैस्तु सः॥ज्ञानाधि मुच्यते चात्मा नतु शास्त्रादिपुत्रदात् १४०

अर्थ ॥ तेमाटे सदायबाह्यहेतुनेविषे अनियतरूपे नियतिनेविषे जावना विचित्र पणाथकी आत्मातेज संवर आश्रवरूपे ॥ १३९ ॥ जेअज्ञानीने अने विषयासक्तते तेहिजविषयमां बंधायतेते विषयतो आत्माने आत्मज्ञानथकी मूकाय पणशास्त्रादिक पुज्जलथकी नमूकाय ॥ १४० ॥

शास्त्रं गुरोश्च विनयं क्रियामावश्यकानि च ॥ संवरांगतया प्रा
हुं व्यवहारविशारदाः ॥ १४१ ॥ विशिष्टा वाक्त्तनुस्वांतपुज्जला
स्त फलावहाः॥ये तु ज्ञानादयोच्चावाः संवरत्वं प्रयांति ते॥१४२॥

अर्थ ॥ शास्त्रज्ञणवुं गुरुनोविनयकरवो तथाआवश्यकदिकक्रियाकरवी एनेव्यव
हारमां विचक्षणपुरुषोये संवरनाथंगकहांते ॥१४१॥ जेरुमामनवचनकायार्येकरी प्र
वर्तवुं तेहनाजेपुज्जलतेफलदांते पणजेज्ञानादिकजावते तेसंवरपणानेपामेते॥१४२॥

ज्ञानादिजावयुक्तेषु शुचयोगेषु तज्जतं ॥ संवरत्वं समारोप्य
स्मयंते व्यवहारिणः ॥ १४३ ॥ प्रशस्तरागयुक्तेषु चारित्रादिगु
णेष्वपि ॥ शुचाश्रवत्समारोप्य फलजेदं वदंति ते ॥ १४४ ॥

अर्थ ॥ ज्ञानादिकजावेंयुक्त एवाजेशुचयोगतेनेविषे तज्जतजेसंवरत्वतेनेआरोपीने
व्यवहारें प्रवर्तकजेजीव तेहर्षपामेते ॥ १४३ ॥ रुमारागेंयुक्त एवाजेचारित्रादिक
गुणतेनेविषे पण शुचआश्रवपणं आरोपीने फलजेदकहेते ॥ १४४ ॥

चवनिर्वाणहेतूनां वस्तुतो न विपर्ययः ॥ अज्ञानादेव तज्जानां
ज्ञानी तत्र न मुह्यति ॥१४५॥ तीर्थकृन्नामहेतुलं यत्सम्यक्त्वस्य
वर्ण्यते ॥ यच्चाहारहेतुलं संयमस्यातिशायिनः ॥ १४६ ॥

अर्थ ॥ संसारतथामोहूनोहेतु तेनेवस्तुतलें कांइविपर्यासनथी पणअज्ञाननायोग
थकी तेजगायें विपर्यासपणंथायते पणतिहांज्ञानीपुरुष कांइमुजातानथी ॥ १४५ ॥
जिननामकर्मनोहेतु जेसमकितने वर्णवीएतेंयें तेपणउपचारेंकहेवायते अनेआहार
कशरीरनोहेतु जेअतिशयलब्धिवंत संयमिमुनि तेपणउपचारेंकहेवायते ॥ १४६ ॥

तपःसंयमयोः स्वर्ग हेतुलं यच्च पूर्वयोः॥उपचारेण तद्युक्तं स्या
द् घृतं दह्यतितिवत् ॥१४७॥ येनांशेनात्मनोयोग स्तेनांशेना
श्रवामतः॥येनांशेनोपयोगस्तु तेनांशेनास्यसंवरः ॥ १४८ ॥

अर्थ॥जेपूर्वेकहेला तपअनेसंयम स्वर्गहेतुते तेपणउपचारेंकहियें सर्वपरिणामेढे
पण जेमधीबलेढेउपचारेंढे पणअग्निबलेढे एखरुंढे॥१४७॥जेअंशोकरी आत्मा योग
वर्तीथयो तेअंशेआश्रवकहियें अनेजेअंशेआत्माउपयोगी तेअंशेसंवरकहियें॥१४८

तेनासावंशविश्रांतौ विभ्रदाश्रवसंवरौ ॥ नात्यादर्श इव स्वप्ना
स्वप्नजागद्यः सदा ॥१४९॥ शुद्धैव ज्ञानधारा स्या त्सम्यक्त्व
प्राप्त्यनंतरं ॥ हेतुचेदाद्विशेषे तु योगधारा प्रवर्तते ॥ १५० ॥

अर्थ ॥ तेमाटेआ अंशविश्रांतिनेविषे आश्रवसंवर धरेढे तेमांएकढे मलिन अ
ने एकढेनिर्मल जेमआरिशाना पठवाडानो जागमलिनढे अने आगलोजागनिर्मलढे
तेहनीपरें सदाय निर्मलमलिन एवेजागेंकरीआत्माशोचेढेआरिसानीपेढे॥१४९॥सम
कितपाम्यापठी जेशुद्धज्ञानधाराप्रगटे तेहेतुचेदयकी विशेषेंकरी योगधाराप्रवर्तते॥

सम्यग्दृशो विशुद्धत्वं सर्वास्वपि दशास्वतः ॥ मृद्धमध्यादिजाव
स्तु क्रियावैचित्र्यतोच्चवेत् ॥१५१॥ यदा तु सर्वतः शुद्धिर्जायते धा
रयोर्धयोः ॥ शैलेशीसंज्ञितस्थैर्या तदा स्यात्सर्वसंवरः ॥१५२॥

अर्थ ॥ समकेतिने सर्वदशामां शुद्धपणुंढे एमाटे लघु मध्यम उक्तम एजावजे
ढे तेक्रियाविचित्रताथीढे ॥१५१॥ जेवारेसर्वथी मनवचनकायानायोग तथाउपयो
गएवेधारानी शुद्धिआय तेवारेशैलेशीनामेस्थिरताथी सर्वसंवरहोय ॥१५२॥

ततोर्वाग् यच्च यावच्च स्थिरत्वं तावदात्मनः ॥ संवरौ योगचांचल्यं
यावत्तावत्किलाश्रवः ॥१५३॥ निर्जरा कर्मणोत्सादो नात्मा ऽसौ
कर्मपर्ययः ॥ येन निर्जायते कर्म स्वप्नावस्त्वात्मलक्षणं ॥१५४॥

अर्थ ॥ अनेतेथीपेहेलांहेतला गुणगणेंतोजिहांसुधी आत्माने स्थिरतापणुंढे ति
हांसुधीआत्माने संवरवर्तते अने जिहांसुधीयोगनीचंचलताढे तिहांसुधीनिश्चयेंथी
जाणीयें जेआत्मानेआश्रवपणुंवर्तते एमयावत् शैलेशीकरण सुधीसमज्जुं ॥१५३॥
कर्मनुंजेशाडुं तेनेनिर्जराकहियें पणआत्मापोतें कर्मपर्यायरूपनथी तेमाटे कर्मनिर्ज
रियेंएवोजेस्वप्नाव तेआत्मानुंलक्षणढे ॥१५४॥

तत्तपो द्वादशविधं शुद्धज्ञानसमन्वितं ॥ आत्मशक्तिसमुद्धानां
चित्तवृत्तिनिरोधकृत् ॥१५५॥ यत्र रोधः कषायाणां ब्रह्मध्यानं
जिनस्य च ॥ ज्ञातव्यं तत्तपः शुद्धमवशिष्टं तु लंघनं ॥१५६॥

अर्थ ॥ निर्जरानुकारणते शुद्धज्ञानेसहित प्रगटघो अने चित्तनी चंचलवृत्तिनेरो
कतो एहवो बारनेवेतपठे ॥१५५॥ जिहां प्रभुनाध्यानयुक्त कवायनरोधते. ब्रह्मच
र्यनुंधरबुंठे ते शुद्धतपजाणवो एशिवाय बीजोतपतेमात्रजांघण करवा जेवोठे ॥१५६॥

बुजुद्धादेहकार्य वा तपसो नास्ति लक्षणं ॥ तितिद्वाब्रह्मगुह्या
दिस्थानं ज्ञानं तु तद्वपुः ॥१५७॥ ज्ञानेन निपुणेनैक्यं प्राप्तं चं
दनगंधवत् ॥ निर्जरामात्मनो दत्ते तपोनान्यादृशं क्वचित् ॥१५८॥

अर्थ ॥ शुद्धेतरबुं शरीरनेडबजुंकरबुं एतपनुंजहणनधीपण जिहांज्ञानयुक्तपणे
ब्रह्मचर्यनीगुप्तितथा तितिद्वाके ७शांतिहोय एतपनुं स्वरूपते ॥१५७॥ जेज्ञानसार्थे एक
ताजावनेपांभ्यो एवो जेतपतेनेतपकहिये जेमचंदनसाथे गंध एकताजावनेपांभ्योठे ते
नीपरेंएतपते ज्ञानेयुक्तयकोआत्मानेनिर्झराफलथापे पण बीजीरीते नआपे ॥१५८॥

तपस्वी जिनचत्तया च शासनोभासनोभया ॥ पुण्यं वध्नाति बहु
लं मुच्यते तु गतरुष्टदः ॥१५९॥ कर्मतापकरं ज्ञानं तपस्तत्रैव
वेत्ति यः ॥ प्राप्नोतु स हतस्वांतो विपुलां निर्जरां कथं ॥१६०॥

अर्थ ॥ जेनिरासीजावेतपनोकरनारो तपस्वीजिन. तेज्ञानचक्तिएकरी शासननेदिपाव
वेकरीघणुं पुण्यबांधे कर्मधीमुकाय ॥ १५९ ॥ कर्मनेतापवे एवुंज्ञानठे अनेतेज्ञानमा
जेधणी तपनेनजापे तेतपस्वीनिर्वुद्धिनोधणी विपुलनिर्झराकेमपामे ॥ १६० ॥

अज्ञानी तपसा जन्म कोटिभिः कर्म यन्नयेत् ॥ अंतं ज्ञानतपोयु
क्तस्तत्क्षणेनैव संदरेत् ॥१६१॥ ज्ञानयोगस्तपः शुद्धमित्याहु
मुनिपुंगवाः ॥ तस्मान्निकाचितस्यापि कर्मणो युज्यते ह्ययः १६२

अर्थ ॥ ज्ञानविनाएककोटि नवसुधी जेटलातपकरे तेतपमांजेटलांकर्मह्य न
पाय तेटलाकर्मनेएकहणमां ज्ञानसहित तपेकरीखपावे ॥१६१॥ माटेज्ञानयोगेजे
तपकरवोतेशुद्धते एरीतेंप्रचुकहेठे केमकेतेतपधी निकाचितकर्मनो ह्यथापठे ॥१६२

यदिहापूर्वाकरण श्रेणिःशुद्धा च जायते ॥ ध्रुवः स्थितिह्ययस्तत्र
स्थितानां प्राच्यकर्मणां ॥१६३॥ तस्माद् ज्ञानमयः शुद्धस्तपस्वी
चावनिर्जरा ॥ शुद्धनिश्चयतस्त्वेपा शुद्धाशुद्धस्य कापि न ॥१६४॥

अर्थ ॥ जेतपधीइहांअपूर्वकरण श्रेणिशुद्धथाय वलिएधीपूर्वकर्मनी रहिजेकर्मनी

स्थितिश्चो तेस्थितिश्चोनिश्चैथी ह्यथाय ॥ १६३ ॥ तेमाटेज्ञानमयी जेशुद्धतपसीते
नेनिश्चयथी शुद्धजावनिर्झराथाय पणअज्ञानतपसीनेकांइनथाय ॥ १६४ ॥

बंधः कर्मात्मसंश्लेषो ज्व्यतः स चतुर्विधः ॥ तद्धेतुव्यवसाया
त्मा ज्ञावतस्तु प्रकीर्तितः ॥ १६५ ॥ वेष्टयत्यात्मनात्मानं यथा सर्प
स्तथा पुमान् ॥ तत्तज्जावैः परिणतो बध्नात्यात्मानमात्मना ॥ १६६ ॥

अर्थ ॥ कर्मनीसाथेआत्मानुंजेमलबुं तेनेबंधकहिये तेबंधचारनेवेठे तेहेतुअध्य
वसाये आत्माजावथीकह्योठे ॥ १६५ ॥ जेमसर्पपोतानीमेले पोतेविंढायठेतेमआ
त्मापण तेतेजावे परिणम्योथको पोतेपोतानीमेलेज कर्मसाथेबंधायठे ॥ १६६ ॥

बध्नाति स्वं यथाकोश कारकीटः स्वतंतुजिः ॥ आत्मनः स्वगतैर्जा
वैबंधने सोपमा स्मृता ॥ १६७ ॥ जंतूनां सापराधानां बंधकारी न
हीश्वरः ॥ तद्वंधकानवस्थाना दबंधस्याप्रवृत्तिनः ॥ १६८ ॥

अर्थ ॥ जेमरेशमनोकीडो पोतानीलालेकरी पोतेजबंधायठे तेमआत्मा पोताना
रागादिपरिणामेकरी पोतेजबंधायठे एउपमाकही ॥ १६७ ॥ पणजेईश्वरकर्ताकहेठे
तेवातनिषेधठे अपराधीजीवनेकांइ ईश्वरबंधकर्तानथी तेईश्वरबंधकर्तापणाना निषेध
वाथकी अबंधनीय आत्मानेविषे अप्रवृत्तिठे एटलेखनावेज बंधनिवृत्तिआत्मानेठे
पणईश्वरकर्तानथी ॥ १६८ ॥

तत्वाज्ञानं प्रवृत्त्यर्थे ज्ञानवन्नादेना ध्रुवा ॥ अबुद्धिपूर्वकार्येषु
स्वप्नादौ तददर्शनात् ॥ १६९ ॥ तथा ज्व्यतया जंतु नोदितश्च
प्रवर्तते ॥ बध्नन् पुण्यं च पापं च परिणामानुसरतः ॥ १७० ॥

अर्थ ॥ ज्ञानवंतनी जेप्रेरणाठे तेतत्वज्ञाननी प्रवृत्तिनेअर्थे ध्रुवठे केमकेस्वा
प्नादिक जेअबुद्धिपूर्वक कार्यठेतेनेविषे ए ज्ञाननी प्रेरणाकांइ देखातीनथी तेमाटे
॥ १६९ ॥ तेमज प्राणीज्व्यताये प्रेखोथको परिणामने अनुसारेकरी पुण्यपापने
बांधतोथको प्रवर्तते ॥ १७० ॥

शुद्धनिश्चयतः स्वात्मा न बद्धो बंधशंकया ॥ जयकंपादिकं किंतु
रज्जावह्निपतेरिव ॥ १७१ ॥ रोगस्थित्यनुसारेण प्रवृत्ती रोगि
णो यथा ॥ ज्वस्थित्यनुसारेण तथा बंधोपि वर्ण्यते ॥ १७२ ॥

अर्थ ॥ शुद्धनिश्चयनयथकीतो आत्माबंधकठे पणजयकंपादिकेकरी बंधनीशंका

रहेते जेमदोरहुंवेखी सर्पनीशंकाउपजेते तेनीपरेंजाणवुं ॥ १७१ ॥ रोगनीस्थितिने
 अनुसारेरोगतेएटले जेदिवशेंशरीरउपनुंतेजदिवसथी सर्वरोगनीस्थितीड्यो शरीरमां
 उत्पन्नययलीते अर्थातशरीरकेवल रोगनीस्थितिरूपजते पणतेरोगजेवारेंरोगीने कु
 पय्यसेवेतेवारेंप्रगटथायते तेवारेंरोगीपुरुषजेम रोगनीप्रवृत्तिगणोते तेमजजवस्थितिने
 अनुसारे आत्माने बंधपणकहियेंतैयें ॥ १७२ ॥

दृढाज्ञानमयीशंका मेनामपनिनीपतः ॥ अध्यात्मशास्त्रमिच्छं
 ति श्रोतुं वैराग्यकांक्षिणः ॥ १७३ ॥ दिशाप्रदर्शकं शाखा चंड...
 न्यायेन तत्पुनः ॥ प्रत्यक्षविषयां शंकां न हि हंति परोक्षधीः ॥ १७४ ॥

अर्थ ॥ दृढअज्ञानमय एहवीजेशंका तेहनेटालवानेइत्ततो वैराग्यनो अजिजापी
 थको अध्यात्मशास्त्र सांजलवानेइहेते ॥ १७३ ॥ जेमनिर्मलचक्रुठता ग्रहणपेलाजेवी
 नजरथइजायतोतेऐकरी एकचंडनीपासे बीजोचंडदेखे एन्यायेंकरीजे अध्यात्मशास्त्र
 ते तेपणदिशिनुंदेखाफनारते प्रणपरोक्षबुद्धिकांइ प्रत्यक्षविषयनी आशंकाने टाली
 नशके एटलेअध्यात्मनोविषय प्रत्यक्षपणोनथी परोक्षपणोते माटेस्वभावेंजे अध्यात्म
 शास्त्रते तेपरोक्षबुद्धिने पणअनुनवते साक्षात् प्रत्यक्षपणाने हणीनशके एटले आ
 त्मानुजविपुरुषो पोतानाअनुनवेंकरी आत्मानोप्रत्यक्षअनुनवकरेते ॥ १७४ ॥

शंखश्वेत्यानुमानेपि दोषात्पीतलधीर्यथा ॥ शास्त्रज्ञानेपि मिथ्याधीः
 संस्कारादंधधीस्तथा ॥ १७५ ॥ श्रुत्वा मत्वा मुहुः स्मृत्वा साक्षादनुचवं
 ति ये ॥ तत्र न बंधधीस्तेषा मात्मबद्धः प्रकाशयते ॥ १७६ ॥

अर्थ ॥ जेममधुरानारोगवंतपुरुष तेयद्यपिशंखने उज्वलोतोजाणोते पणरोगेकरीते
 ने पीलावर्णनीबुद्धिथायते तेमशास्त्रेंकरीआत्मानेनिर्मलतोजाणोते पणमिथ्यात्वबुद्धि
 नासंस्कारथकी बंधरूपबुद्धिने एटलेआत्मानेरागी देपीबंधरूपजेदेखेते तेअनुनवविना
 देखेते एनावार्थते ॥ १७५ ॥ गुरुनामुखथी अध्यात्मशास्त्रतुं शांजलवुं तेनेश्रवणकेहेते
 तेसांजलेलाविषयना अनुक्रमेपुनः पुनः अंतःकरणमां विचारकरवो तेनेमननकहेते अ
 नेसांजलीनेविचारकरी संशयतथाविपर्ययनावरहित यइने उक्तअध्यात्मिक विषयरूप
 स्वात्मतत्व अंतर्दृष्टिकरीने जेसाक्षात् अनुनवकरवुं तेनेनिदिध्यासनकहेते एवास्वा
 त्मज्ञातृत्व पुरुषनेबंधबुद्धि होतीनथी केमके बंधनेप्रकाशकरनारतोआत्मा पोतेंज
 ते तेअनुनवथयापटी अज्ञानरूपबंधनो आश्रयकेमकरे ज्यांसुधी आत्माअनुनव

अथवा ज्ञानवडे प्रकाशनेपास्यो नहतो त्यांसुधी तमरूपअज्ञान अनेबंधवानथयो
हतो पणअनुभवशयापढी आत्मानेविषे बंधनथो ॥ १७६ ॥

इव्यमोक्तः कृत्यः कर्म इव्याणां नात्मलक्षणं ॥ जावमोक्तस्तु
तद्धेतु रात्मारत्नत्रयान्वयी ॥ १७७ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रै रात्मैक्यं
लजते यदा ॥ कर्माणि कुपितानीव जवंत्याशु तदा पृथग् ॥ १७८ ॥

अर्थ ॥ जे इव्यकर्मनो कृत्यते इव्यमोक्तते पणतेकांइआत्मानुंलक्षणनथी मात्रते इव्य
कर्मनो कृत्यते मोक्तुं हेतुथायते पणआत्मातोरत्नत्रय परिणतिरूपते तेने इव्यकर्मनो
कृत्यतो उपचारथीमोक्तहेतुकहिये पणवस्तुथीतत्वबुद्धियेकहेवायनही १७७ तेज्ञानद
र्शनचारित्रएरत्नत्रयीवमंकरिने जे वारेंआत्माएकजावपणानेपामेतेवारेंजेकर्महतांतेको
इकसंसारीजीवजेम रीसाइनेधरमांथीजूदोनिकले तेमकर्मपणजीवथीजूदांनिकलीजाय

अतोरत्नत्रयं मोक्त स्तदजावे कृतार्थता ॥ पाषंद्भिर्गणलिंगैश्च
गृहलिंगैश्च कापि न ॥ १७९ ॥ पाषंद्भिर्गणलिंगेषु गृहलिंगेषु
ये रताः ॥ न ते समयसारस्य ज्ञातारो बालबुद्धयः ॥ १८० ॥

अर्थ ॥ एमाटेजेरत्नत्रयी तेथीजमोक्तते पणतेरत्नत्रयीनेअजावें पांखडीसाधुनासमू
हने तथापाखंडी ग्रहीलिंगीने कृतार्थपणुं कांइनथी ॥ १७९ ॥ माटेपाखंडीसाधुना
समूहमां तथापाखंडीग्रहीलिंगीमां जेप्राणीरक्तते तेहनेबालमतिवाला समजवा प
णतेसिद्धांतनासार एटलेरहस्यना जाणनथी ॥ १८० ॥

जावलिंगरता येषु सर्वसारविदोहि ते ॥ लिंगस्था वा गृहस्था
वा सिध्यंति धृतकल्मषाः ॥ १८१ ॥ जावलिंगं हि मोक्षांगं इव्य
लिंगमकारणं ॥ इव्यं नात्यंतिकं यस्मा न्नाप्येकांतिकमिष्यते १८२

अर्थ ॥ अनेजेप्राणी जावलिंगेराताते तेहनेसर्वसारना जाणकहिये तेवेषधारी
साधुलिंगेहोय अथवाग्रहस्थलिंगेहोय तोपणपापकर्मधोइने मोक्तपामे ॥ १८१ ॥ के
मकेजेजावलिंगते मोक्तुंअंगते अनेइव्यलिंगतोअकारणते इव्यलिंगतेकांइ आत्यंति
कनथी माटेजेजावलिंगीते तेइव्यलिंगने एकांतेनथीइहता ॥ १८२ ॥

यथा जातदशांलिंग मर्थादव्यञ्चिचारि चेत् ॥ विपद्बाधका
जावात् तद्धेतुत्वे तु का प्रमा ॥ १८३ ॥ वस्त्रावधारणेहाचेद्वाधिका त
स्य तां विना ॥ धृतस्य न किमस्थाने करादेरिव बाधकं ॥ १८४ ॥

अर्थ ॥ इहांकोइकहेजे नंगनपणेमोहते तेनेउत्तरकहेजे जोएअर्थथी वातख
रीतेतो आत्मानेमोहबाधकते तेमोहनाअजावयाजे अनेजोनगनपणे मोहहोयतो
मोह टालवालुं शुभ्रमाण तेवारेंतोमोहटालवानी कांइजरूररहे ॥ १७३ ॥ वस्त्ररु
णोएटले इहाविनापण जो वस्त्रराखतां मोहनीबाधकताजे तोइहाविनाजे करादिक
एटले हाथप्रमुखअंगधखाजे तेपणमोहना बाधकथाजे एटले दिगंबरलोककहेजेके
वस्त्रराखवाथी मोहनीबाधकताजे तेहनेनिरुत्तरकथां ॥ १७४ ॥

स्वरूपेण च वस्त्रं चै क्वेवलज्ञानबाधकं ॥ तदादिकपटनीत्यैव
तत्तदावरणं भवेत् ॥ १७५ ॥ इदं केवलिनस्तेन मूर्ध्नि क्षिप्तेन के
नचित् ॥ केवलिनं पलायंते त्यहोकिमसमंजसं ॥ १७६ ॥

अर्थ ॥ जोपरमार्थथी जेवस्त्रते तेहिजकेवलज्ञानने बाधकपणेहोयतो दिगंबरनी
रीतें केवलज्ञानावरणीने ठेकाणे वस्त्रावरणी एमथयुंजोइयें तेवस्त्रावरणी कर्मदि
गंबरीयो कहेतानथी एटलीएनीचूकते ॥ १७५ ॥ एरीतेंतो केवलिनमाथे कोइकवस्त्रथो
ढाके तेवारेंकेवलज्ञानने नासीजवुंजोइयें पणकेवलीने वस्त्रओढाढतां केवलज्ञान
नासीजायजे एमतोथतुंनथी माटे अहोइतिआश्रयं सुंजुतुंअसमंजस बोलोतो ॥ १७६

जावलिंगात्ततोमोहो जिनलिंगेष्वपि ध्रुवः ॥ कदाग्रहं विमुच्ये
तद्भावनीयं मनस्विना ॥ १७७ ॥ अशुद्धनयतो ह्यात्मा बंधोमुक्त इ
तिस्थितिः ॥ न शुद्धनयतस्त्वेव बध्यते नापि मुच्यते ॥ १७८ ॥

अर्थ ॥ तेमाटे जावलिंगथीमोहते वेपनोकांइनियमनथी कदापिइव्यथी अन्य
लिंगीनोवेपहोय तोपणनिश्चेमोहते माटेकदाग्रह्वांमीने बुद्धिवंतपुरुषें एरीतेंविचारतुं
॥ १७७ ॥ अशुद्धनयथी आत्माबंधायजे अनेमुंजायपणजे पणशुद्धनयेतो एआत्मा
बंधातोपणनथी अनेमुंजातोपणनथी ॥ १७८ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्या मात्मतत्त्वनिश्चयं ॥ नवन्वयोपि हि तत्त्वे
न्यः कुर्यादेवं विचक्षणः ॥ १७९ ॥ इदं हि परमध्यात्म स्मृतं ह्य
दएव च ॥ इदं हि परमं ज्ञानं योगीयं परमः स्मृतः ॥ १८० ॥

अर्थ ॥ अन्वयव्यतिरेकेंकरीने जेठतेतेठतुं तेहनेअन्वयकहियें अनेजेअठते तेथ
ठतुं तेहनेव्यतिरेककहियें तद्जावेतदजावोअन्वयः तदजावेतदजावोव्यतिरेकः-दंम
घटदृष्टांतेनजाव्यं विचक्षणपुरुषे एरीतेंआत्मतत्त्वनो निश्चयनवतत्त्वंकरीने करवो

॥ १८९ ॥ एहिजउल्कष्यथात्मठे एहिजअमृतोपमठे वलीएहिज परमज्ञानठे अने
एहिजपरमयोगकह्योठे ॥ १९० ॥

गुह्याङ्गुह्यतरं तत्र मेतत्सूद्धमनयाश्रितं ॥ न देयं स्वल्पबुद्धि
नां तद्दयितस्य विडम्बिका ॥ १९१ ॥ जनानामल्पबुद्धीनां नैतत्तत्त्वं
हितावहं ॥ निर्वलानां क्लृधार्त्तानां भोजनं चक्रिणो यथा ॥ १९२ ॥

अर्थ ॥ ठानामांठातुं एतत्वठे माटेसूक्कनयआश्रीने एतत्वअल्पबुद्धिने नसंजलाव
बुं शामाटेकेजे अल्पमतिवाला तेएतत्वनाविडंबकठे ॥ १९१ ॥ माटेअल्पबुद्धिवंत प्राणी
ने एतत्वहितकरेनही जेमचक्रवर्तिनो खीरतुं भोजनते निर्वलजेक्लृधार्थेपीडया प्राणी
होयतेनेपचेनही तेनीपरंजाणबुं ॥ १९२ ॥

ज्ञानांशुर्विदग्धानां तत्रमेतदनर्थकृत् ॥ अशुद्धमंत्रपाठस्य
फणिरत्नग्रहो यथा ॥ १९३ ॥ व्यवहारविनिष्णातो योङ्गीप्सति
विनिश्चयं ॥ कासारतरणाशक्तः सागरं सतितीर्षति ॥ १९४ ॥

अर्थ ॥ तेमखंडखंड पंडिताइयेंकरीने अधवल्याएहवा जेप्राणी तेनेएतत्व अन
र्थकारीठे जेमअशुद्ध मंत्रनापाठवालो पुरुष सर्पनीमणिलेवाजाय तेतेनेअनर्थकारी
थाय तेनीपरंसमजबुं ॥ १९३ ॥ जेप्राणीव्यवहारनयमां कुशलनथी अनेनिश्चयनयने
समजवाजाय तेप्राणीतलावने तरवामांअसमर्थठता समुद्रतरवां वांठेठे ॥ १९४ ॥

व्यवहारं विनिश्चित्य ततः शुद्धनयाश्रितः ॥

आत्मज्ञानरतोऽनूत्वा परमं साम्यमाश्रयेत् ॥ १९५ ॥

अर्थ ॥ व्यवहार अनेनिश्चैकरी शुद्धनयनेआश्रीने आत्मज्ञाने रतथइ जेप्रवर्त्ते
तेप्राणी परमपदनेपामे ॥ १९५ ॥ इतिआत्मनिश्चयाधिकारः अष्टादशसमाप्त

नुत्सर्पद्वयवहारनिश्चयकथाकल्लोल कोलाहल त्रस्यदुर्नयवादिक
उपकुलं भ्रश्यत्कुपक्वाचलं ॥ उद्यद्युक्तिनदीप्रवेशसुजगं स्या
द्वादमर्यादया युक्तं श्रीजिनशासनं जलनिधिं मुक्त्वा परं नाश्रयेत् ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेजिनशासनरूप रत्नाकरनीस्तुति करेठेतेमांप्रथम जिनशासनने समु
द्रीउपमांआपेठे तेजिनशासनरूपसमुद्र केवोठेतेकहेठे पसरतीएहवी व्यवहारत
था निश्चयेंनयनीजेकथा तेरूपजेकल्लोल तेनोजेकोलाहल तेणेकरीने इष्टजननयवा

दिरूपीया काचवानोकुल जेनेविपे त्रासपामेठे एवोठे वलीजेमांथी कुमतिरूपियाप
वत तुटीगयाठेनागाठे वलीजेमांमोहोटी उक्तियुक्तिरूपिणी नदीओनो प्रवेशठे तेणे
करीसुनग एटले मनोहरठेवली स्याद्वादशैली रूपमर्यादायेंयुक्तएवो जिनशासनरूप
रत्नाकरजेसमुद्ग तेनेतजीनेपरदर्शननेकोणसेवे ॥ १ ॥

पूर्णपुण्यनयप्रमाणरचनापुष्पैः सदास्थारसैस्तत्त्वज्ञानफलैः
सदा विजयते स्याद्वादकल्पद्रुमः॥एतस्मात् पतितैः प्रवादकुसुमैः
पद्दर्शनारामचूर्यैः सौरजमुद्गमत्यजिमतैरध्यात्मवार्तालवैः॥१॥

अर्थ ॥ हवेजिनमतने कल्पवृक्षकरिवेखाडेठे जेमांपूर्णपवित्रजे सातनय अने
चारप्रमाण तेहनीजेरचना तेरूपिया फुलमांहेथी सदैव अक्षरूपरसेकरीने तत्वज्ञान
रूपफल नीपनाठेजेमां एवोस्यांदादनामाजे कल्पवृक्ष ते सदाजयवंतोवर्त्तो एकल्प
वृक्षथी खरीपड्यांजे प्रवाहरूपिया फूल तेणेकरीने पद्दर्शनरूप वाडीनी जेधरतीते
नवनवीअध्यात्मनी जेंवार्ताओ तेनाजेलव तेणेकरीने चूर्यैः कहेतांफरीने सुगंधप
णाने प्रगटकरेठे ॥ १ ॥

चित्रोत्सर्गशुभापवादरचनासानुश्रियालंकृतः श्रद्धानंदनचंद
नद्रुमनिजप्रज्ञोत्सत्सौरजः॥आम्यङ्गिः परदर्शनग्रहगणैरासे
व्यमानः सदा तर्कस्वर्णशिलोन्नितो विजयते जैनागमो मंदरः॥३॥

अर्थ ॥ हवेजिनशासनने मेरुपर्वतनी उपमाआपेठे नानाप्रकारनो उत्सर्गमार्ग
अनेरुडोजे अणुपवादमार्ग तेनीरचनावंत रूपशिखर तेनीशोनायें शोणितठे वलीअ
क्षरूपनंदनवनमां चंदननोवृक्ष तेरूपजेबुद्धि तेथकीप्रगटीठे सुगंधजिहां एवोमेरुडु
व्यठे वलीएमेरुपर्वतनीपठवाडे चमताजे परदर्शनरूपीया ग्रहनासमूह तेणेकरी
ने सदायसेवितठे तथातर्कजे शुद्धविचार तेरूपिणीसुवर्णशिला तेणेकरीनेउंचोठे एवो
जैनागमरूपजेमेरु तेजयवंतोवर्त्तो ॥ ३ ॥

स्याद्वोपापगमस्तमांसि जगति क्षीयंत एव ह्यणादध्यानोविशदी
चवंति निविन्ना निजादृशोर्गठिति॥यस्मिन्नभ्युदिते प्रमाणदिवस
प्रारंभकल्प्याणीनी प्रौढत्वं नयगीर्दिधाति स रविजैनागमो नंदतात् ४

अर्थ ॥ हवेजिनशासनने सूर्यनीउपमाआपी वखाणेठे जैनागमरूपसूर्यनाउद
यथकी चोरीजारीइत्यादिदोपटले वलीजेथकी ह्येकमां जगतनेविपें अज्ञानरूपथं

धारुं ह्यथाय जेयकीमार्गनिर्मलयायते वलीचक्रुमांथी प्रमादरूपनिडाजायते तथा
जेमसूर्योदयथी दिवस उग्योएमसिद्धयायते तेमजैनागमना उदयथी प्रमाणनीसिद्ध
तारूपदिवसनीसिद्धतायायते तेजाणियेदिवसनेप्रारंभे लोकप्रजातेमंगलीकबोलेते जे
मसूर्यउदये लोकन्यायमार्गेचाले न्यायनावचनबोले तेमजैनसूर्यउदये नयतथा गमा
नीवाणीते घणीरुमीरीतेप्रौढतापामेते एवोएजिनशासनरूपियो सूर्य तेजयवंतोवर्त्तो

अध्यात्मानृतवर्षिणिः कुवलयोद्भासं विलासैर्गवां तापव्यापविनाशि
जिर्वितनुते लब्धोदयोयः सदा॥तर्कस्थाणुशिरःस्थितः परिवृतः स्फा
रैर्नयै स्तारकैः सोयं श्रीजिनशासनामृतरुचिः कस्यैति नो रुच्यतां॥५॥

अर्थ ॥ हवेजिनशासनने चंडनीउपमाआपी वखाणेते अध्यात्मरूप अमृतनो
जेवरसाद तेणेकरीने कुवलयजेष्टथवीरूपकमल तेनेविकस्वर करेते एहवो वली ग
वांके० वाणीरूपकिरण तेनाविलासैकरीने संसारना तापनोजेसमूह तेनोनाशकरे
ते एहवो वली एचंडमाकेवोते जेतर्कविचार रूपीयोजे महादेव तेनामस्तकेरह्योथ
को उदयपाम्योते एवो वली दीप्ताजेनय तेरूपजेतारामंज तेणेपरिवस्योथको फिरे
ते एवोजिनागमचंड ते आजिनशासन रूपियोजेचंडमाते कोनेरुचिपणाने नउप
जावे अपितु सर्वनेउपजावेज ॥ ५ ॥

बौधनामृजुसूत्रतो मतमन्त्रुधेदांतिनां संग्रहात्सांख्यानां तत एव
नैगमनयाद् योगश्च वैशेषिकः॥शब्दब्रह्मविदोपि शब्दनयतः स
वैर्नयैर्गुंफिता जैनी दृष्टिरितीह सारतरता प्रत्यह्मुधीकृते ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेनाअनेकनयमांथी एकेकानयग्रहणकरीने एटले ऋजुसूत्रनयथी बौद्ध
तोमतप्रगट्यो अनेसंग्रहनयथी वेदांतिकनो मतप्रगट्यो तथासांख्यमतपण संग्रह
नयथीजउपनो अनेनैगमनयथी योगमत अने वैशेषिकमत प्रगट्यो शब्दनयथकी
मीमांसकदर्शन उपनुं अनेजैनशासनतो सर्वनयेकरीने गुंफितते तेमाटेआ जिनशा
सनमां सारमांसारपणुं प्रत्यरूपणे रुडीरीतेदेखीयें ठैये ॥ ६ ॥

ऊष्मा नार्कमपाकरोति दहनं नैव स्फुलिंगावली नाब्धिं सिंधुजल
प्लवः सुरगिरिं ग्रावा न वाज्यापतत्॥एवं सर्वनयैकजावगरिमस्था
नं जिनेजागमं तत्तद्दर्शनसंकथांशरचनारूपं न हंतुं कृमाः ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ उकलाटजे वाफ तेनोजेताप तेसूर्यनेजीतीशकेनही अनेअग्निना कण

याते दावानलने जीतीनशके तथासिंधुनदीतुंजल तेनोजेवेग तेलवणसमुद्ने ठेलीन शके पडरनाजेखंड तेमेरुपर्वतने द्वावीनशके एमसर्वनयना एकताजावनी मोहोटाइतुं स्थानक एहवो तीर्थकरनुजेआगम तेहने तेपरदर्शनीओ हणवानेसमर्थनही शामा टेजे ए जैनतेसर्वदर्शनीठे अनेतेदर्शनीयो जैननाएकेकअंशठे ॥ ३ ॥

दुःसाध्यं परवादिनां परमतद्वेषं विना स्वं मतं
तद्वेषे च कपायपंककलुपं चेतः समापद्यते ॥

सोयं निस्वनिधिग्रहव्यवसितौ वेतालकोपक्रमो
नायं सर्वहितावहो जिनमते तत्प्रसिध्यार्थिनां ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ परदर्शनीजेटलाठे तेएकएकनामतने खंड्याविना पोतानामतने थापी सक्तानथी ए मतमतनोजेकदाग्रह तेनोप्रक्षेपकरतां कपायरूपकादवेंकरीने मनम जिनथायठे एकदाग्रहनो व्यापारतेतो दरिडीनाघरनोनिधान हरवाने वेतालगयो तेप्रायजाणवो एउपक्रम सर्वजिनमतनेविषे हितकारीनथी माटे अर्थीजीवने ए जिनमत ते तत्वरूपं प्रतिद्वे ॥ ७ ॥

वार्त्ताः संति सहस्रशः प्रतिमतं ज्ञानांशबंधक्रमाश्रेतस्तासु ततः प्र
याति नतमां लीनं जिनेंजागमे॥नोत्सर्पति लताः कति प्रतिदिशं पुष्पैः
पवित्रा मधौ ताज्योनैति रतिं रसालकलिकारक्तस्तु पुंस्कोकिलः ॥ ९ ॥

अर्थ॥जेहनोअनुक्रमज्ञाननेमात्रअंशेकरीनेबंधायोठे एहवीपरदर्शनीओनीवार्त्ताठे तेवामतममत्व हजारोगमेवत्तेठे पणतेवातोनेविषे माहारुंचिचजातुंनथी शामाटेजेसि द्वांतोनेविषे माहारुंमनलीनठे माटेचैत्रमासें दिशोदिशेजेफूल तेणेकरीने पवित्र एह वीजेलता तेकेटलीकविकस्वरथाय फुले पणपुंस्कोकिलजे कोइज तेअंबानीमंजरी छुं रक्तएवोथको तेलताओनेविषेरतिनपामे तेनीपरें, महारुंचिचपण सिद्धान्तरूप आं बानीमंजरिये रक्तथयोथको अन्यदर्शनरूप लतायोमां जातुंनथी ॥ ९ ॥

शब्दोवा मतिरर्थ एव वसु वा जातिः क्रिया वा गुणः शब्दार्थः किमि
ति स्थितिः प्रतिमतं संदेहशं कुर्यथा॥जैनेंजे तु मते न सा प्रतिपदं जा
त्यंतरार्थस्थितिः सामान्यं च विशेषमेव च यथा तात्पर्यमन्विञ्चति १ ॥

अर्थ ॥ आशब्दठे किंवा मतिठे केअर्थठे केगुणठे के वस्तुके ऽव्ययठे केजातिठे के क्रियाठे वलीएनो शब्दार्थकेमहसे एवोसंदेहरूपिथो खीजोते मतमतप्रखरंरहयोठे

पण जिनमतमांनथी तेपदपदप्रत्यं जात्यंतरअर्थनी स्थितिठे माटे सामान्यअनेवि
शेष जेवोपदार्थनुं यथार्थनिश्चय तात्पर्यअर्थतेने नजेठे माटेजिनमतमां संदेहरूप
स्वीलोनथी ॥ १० ॥

यत्रानर्पितमादधाति गुणतां मुख्यं तु वस्त्वर्पितं तात्पर्यानवलंबने
न तु नवेद्वोधः स्फुटं लौकिकः॥संपूर्णं त्वन्नासते कृतधियां कृत्स्नाधि
वद्वाक्रमात् तां लोकोत्तरजंगपद्घतिपदं स्याद्वादमुजां स्तुमः ॥११॥

अर्थ ॥ जेस्या द्वादरूपजैनमुजातेमां केवोगुणठे के जेमांवस्तुने अनर्पणकरीठता
पण तेवस्तुगुणतानेप्राप्तिथायठे अनेवस्तुअर्पणकरीठतांते मुख्यताजावनेपामेठे अने
जेनातात्पर्यअर्थने अवलंबनेकरीने तोप्रगटपणे लौकिकबोधथायठे अनेसंपूर्णबो
धतो समग्रविवद्धाना अनुक्रमथकी महानिपुणबुद्धिवालाने प्रकाशथायठे तेमाटेए
लोकोत्तर जंगजालनुठेकाणुं एवीजेस्या द्वादशैलीरूपमुजा तेनेअमेस्तवियेठैये ॥ ११ ॥

आत्मीयानुजवाश्रयार्थविषयोप्युच्चै र्यदीयक्रमो म्लेहानामिव संस्कृ
तं तनुधियामाश्रयमोहावहः ॥ व्युत्पत्तिप्रतिपत्तिहेतुविततस्याद्वा
दवाग्गुंफितं तं जैनागममाकलय्य न वयं व्याह्वेपज्ञाजः क्वचित् ॥१२॥

अर्थ ॥ तेजैनागमकहेबुंठेजेमां पोताना आत्मानो अनुनवकरवाना आश्रयनो
विषयठे एहवोउंचपणेकरीने जेहनोक्रमठे एटलेपरिपाटीठे अनेम्लेहनेजेम सं
स्कृतनाषा आश्रयकरनारी अनेमोहउपजावनारीठे तेनीपरें अल्पबुद्धिवालाने अचं
बोपामी मुंजाववानुंस्थानकठे माटेजैनागमतो व्युत्पत्तिनुं निरूपण करनाराजे हेतुते
णेकरी विस्तीर्णएहवोजे स्याद्वादमार्गतेणेकरी रचेनुंएहबुं जैनागमठे तेनेपामीने
महाराचित्तमां बीजोकोइपण व्याह्वेपपणुं किवारेंपणथतुंनथी ॥ १२ ॥

मूलं सर्ववचोगतस्य विदितं जैनेश्वरं शासनं तस्मादेव समुच्चितैर्नय
मतेस्तस्यैव यत्खंडनं॥एतत्किंचन कौशलं कलिमलहन्नात्मनः स्वा
श्रितां शाखांहेतुमिवोद्यतस्य कटुकोदकाय तर्कार्थिनः ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ माटेसर्ववचनगतसमूहनुंजेमूल एहबुंएजिनशासनकबुंठे एजिनशासन थ
कीज प्रगटथा एहवाजे नयनयना मत तेवामतेकरीनेज दुष्टप्राणी तेज जिनआगमनुं
खंडनकरेठे तेपापिष्ठआत्माओनो आत्मापापरूपमेलेकरीठकाणोठे एवाडुष्टोनुंजेकांइ
किंचितमात्र डाहापणपणुंठे तेजेमकोइकमूर्ख जेवृद्धनीमालें बेठोथको तेजमालकाप

वानेठजमालथाय तेथीकनवाविपाकपामे तेमतेकुविचारवालाने आगलकनवाफल
प्रगटथणे ॥ १३ ॥

त्यक्तोन्मादं विजज्य वादरचनामाकर्ण्य कर्णामृतं सिद्धांतार्थरहस्य
वित्कलजतामन्यत्र शास्त्रे रतिं ॥ यस्यां सर्वनया वसंति न पुनर्व्यं
स्तेपु तेष्वेव यां मालायां मणयो लुण्ठंति न पुनर्व्यंस्तेपु तेष्वेव सा ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ उन्मादकरीनेविवेचनालक्षणजे नयनोवाद् तेहनीजे रचना तेजेणेतज्योठे
एहवोथको वलीमाहोमाहें जगमोतजीने वली कानेअमृतरूप वाणीसांनलीने सिद्धांत
नाअर्थ रहस्यनोजे जाणपुरुष तेबीजाशास्त्रनेविपे रतिकेमपामे अर्थातनजपामे जे
जैनवाणिनेविपे सगलाएनय प्रवेशकरेते पणतेजुदाजुदामतवालाना मतमां सर्वनय
नयां तेथीजैनवाणीकांइतेमांरेहेतिनथी शामाटेजेतेसर्वे व्यग्रचित्तवालाठेमाटेजैनमां
सर्वे नयठे जेममालानेविपे सर्वमणकारमेठे पणतूटामणकपडवाहोय तेनेमालानक
दियें अनेएकमणके सर्वमणका समाणाएमपणनकहीए माटेतेमालासरखुंजैनमतठे

अन्योन्यप्रतिपक्षनावितथान् स्वस्वार्थसत्यान्नयानापेक्षाविषय
ग्रहै विजजते माध्यस्थमास्थाय यः ॥ स्यावादे सुपथे निवेश्य हरते
तेपां तु दिङ्मूढतां कुंदेंडुप्रतिमं यशोविजयिनस्तस्यैव संबद्धते १५

अर्थ ॥ एमएकबीजाने वैरनावेंकरी जूवाजुवाजेपोतपोतानाअर्थ तेनेसाचारकरता
एवामतवालाजे दर्शनी तेपोतानानयनो विषयग्रहणकरी माध्यस्थपणानेस्वीकारी
सारामाठानोविजागकरावीनेजे स्यादादरूपउत्तममार्गनेविपेलोकनुं चित्तस्थापनकरा
वीने जे माध्यस्थपणं ग्रहणकरीतेमनीदिगमूढतानोनाशकरे तेविजयवंतप्राणी कुंदनुं
फूल तथाचंद्रमासरखो उज्वलोजेजश तेणोकरीवृद्धिवंतोथाणे आंहीकवियेंपोता
नुंनामपणसुचव्युंते ॥ १५ ॥ इतिश्रीजैनमतस्तुल्यधिकार एकोनविंशतिसमाप्त ॥

इतिश्रीमहोपाध्याय श्रीयशोविजयगणिना विरचिता
ध्यात्मसारप्रकरणोपष्टप्रबंधः अठारमां अधिकारनाका
व्य १९५ तथा अगणीसमांन १५ मलीने ११० काव्ये

शास्त्रोपदर्शितदशा गलितासद्यहकषायकलुषाणां ॥
 प्रियमनुचवैकवेद्यं रहस्यमाविर्भवति किमपि ॥ २ ॥
 प्रथमान्यासविलासा दालिचूर्णगीव यत्क्षणाद्धीनं ॥ चं
 चलतरुणीविभ्रमसमं सुतरलमनः कुरुते ॥ १ ॥

अर्थ ॥ शास्त्रेबतावीजेदशा तेषोकरीने गलीगइते सारीनरिसी असद्यहकषायक
 पायनी कलुषताजेहनी तेने प्रियएहवोजे एकअनुचव तेषीजणातुं एवुंजेरहस्य ते
 कांइकप्रगटथायते ॥ १ ॥ प्रथमअन्यासरूपी विलासनायोगेंकरीने जेप्राणीपूर्वोक्त
 कांइक रहस्यमां लीनथायते अनेफरीचंचलपणेरहेते जेमचंचलस्त्री पोतानाविलास
 नायोगेंकरी कांइकसुखमां लीनथायते अनेपते जेवीनेतेवी चंचलरहेते तथाजेम की
 डानेजमरी ज्यारेचटकोनरावेते त्यारेतेनाध्यानेकरीने तेतद्धीनथइजायते अनेपतेजे
 वारेंजमरीपोताना चटकानोउद्योगमुकीआपेते तेवारेंतेसर्वचूलीजइ पोतानोमूलजुं
 स्वभाव धारणकरेते तेनीपते जाणीलेवुं ॥ २ ॥

सुविदितयोगैरिष्टं क्षिप्तं मूढं तथैव विक्षिप्तं॥ एकाग्रं च निरुद्धं च
 तः पंचप्रकारमिति ॥ ३ ॥ विषयेषु कल्पितेषु च पुरःस्थितेषु च
 निवेशितं रजसा॥सुखदुःखयुग्बहिर्मुखमायातं क्षिप्तमिह चित्तं॥४॥

अर्थ ॥ योगज्ञानियें पांचनेदें मनकहुंते १ क्षिप्तमन २ मूढमन ३ तेमजविक्षिप्तमन
 ४ एकाग्रमन ५ निरुद्धमन एपांचप्रकारमननाते ॥ ३ ॥ तेमांक्षिप्ततुंलक्षणकहे
 ते पोतानाचित्तनेसन्मुख कल्प्याजेविषय तेनविषे रजोगुणेंकरीने थाप्युंजेमन अनेसु
 खतथादुःखयुक्त तेषोकरीयुक्त एवुंजेबहिर्मुखथयलुंचित्ततेने क्षिप्तएवुंमनकहुंते॥४॥

क्रोधादिनिर्णयमित विरुद्धकृत्येषु यत्तमोनु जाग्रा॥कृत्याकृत्यविना
 गासंगतमेतन्मनोमूढं ॥ ५ ॥ सत्वोजेकापरिहृतदुःखनिदानेषु सु
 खनिदानेषु ॥ शब्दादिषु प्रवृत्तं तदेव चित्तं तु विक्षिप्तं ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेमांबहुलतायें तमोगुणहोय एटलेक्रोधसहित विरुद्धकामनेविषे तल्प
 रहोय अने विवेकरहितपणे कृत्याकृत्यनी वहेंचणविना जे मन तेनेमूढमनकहीयें
 ॥५॥जेथैर्यनाबलथी दुःखनाकारणगतोनथी शब्दादिकविषयमां रूपरसादिकनांका
 रणजाणी कठोरपणेंप्रवर्त्ते एवुंजेचित्ततेने विक्षिप्तमनकहियें ॥ ६ ॥

अक्षेपादिगुणवतां नित्यं खेदादिपट्कपरिहारात् ॥ सदृशप्रत्ययसं
गतमेकाग्रं चित्तमाप्नातं ॥ ७ ॥ उपरतविकल्पवृत्तिकमवग्रहादि
क्रमच्युतं शुद्धं ॥ आत्माराममुनीनां भवति निरुद्धं सदा चेतः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ रागक्षेपादिकैरहित जेगुणवंतपुरुषते अनेसदाय खेदादिकनुंपरिहारकरना
रजेपुरुष तेसदैवरागक्षेपटालवाथी जेनुंमनसर्वकार्यमां सरखुंमळ्युंते तेनेएकाग्रमनक
हियें ॥ ७ ॥ जेनीविकल्पवृत्तिशांतथईते वलीअवग्रहादिक्रमथी पाबुथोसखुंते कष्ट
थीएहबुंधुंमन तेआत्माराममुनीनुंजेअंतःकरणहोय तेनेनिरुद्धमनकहियें ॥ ८ ॥

न समाधावुपयोगं तिस्रश्चेतोदशा इह लजंते ॥ सत्वोत्कर्षात् स्थै
र्याङ्गने समाधिसुखातिशयात् ॥ ९ ॥ योगारंजस्तु भवे द्विद्विते
मनसि जातसानंदे ॥ द्विते मूढे वास्मिन् व्युत्थानं भवति नियमेन ॥ १० ॥

अर्थ ॥ चित्तनीत्रणदशा तेआसमाधिमांकांइ उपयोग पामतीनथीतेवारे पणते
मां वेदिशातो सत्वोत्कर्षथकी तथास्थिरताथकी अनेसमाधिसुखना अतिशयथी उ
पयोगपामेते ॥ ९ ॥ कदाचित्तुद्विद्वित्तनेविषे योगसमाधिमां आनंदितहोय तो
योगारंजसंभवे द्विसमूढमनेतो योगनोविशेष विषयरूप उदयहोय ॥ १० ॥

विषयकपायनिवृत्तं योगेषु च संचरिष्णु विविधेषु ॥ गृहखेलद्वा
लोपममपि चलमिष्टं मनोज्ञ्यासे ॥ ११ ॥ वचनानुष्ठानगतं याताया
तं च सात्विचारमपि ॥ चेतो ज्ञ्यासदशायां गजांकुशन्यायतोऽङ्गं ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ विविधप्रकारना योगनेविषे फरतुं अनेविषयकपायें नखुं एवुंघरमारमता
बालकनीपेरे चपलजेमनतेअन्यासेकरी रुहुंजाणवुं ॥ ११ ॥ वचनानुष्ठानमारंखुं एवुं
जातुंआवतुं अतिचारसहित मनहोयतोपण जोमनअन्यासदशामां वर्त्तोथको हो
यतो जेम हस्तिते अंकुशैकरीरुहुंथाय तेदृष्टांते तेमनपणरुहुंथाय ॥ १२ ॥

ज्ञानविचारान्निमुखे यथा यथा भवति किमपिसानंदं ॥ अर्थैः प्रलोज्य
बाह्यै रनुगृहणीयात्तथाचेतः ॥ १३ ॥ अन्निरूपजिनप्रतिमां विशिष्टपद
वाक्यवर्णरचनां चापुरुषविशेषादिकमप्यतएवालंबनं द्रुवते ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ ज्ञानविचारणानामुखथी जेमकांइक आनंदथाय एहवेबाह्यअर्थैकरी लो
जावीने तेमांचित्तनेथोनावीराखीने ज्ञाननाविचारने सन्मुखकरीयें ॥ १३ ॥ रुडीजि

नप्रतिमां रुडांसि-दांतनापद वचन अक्षर ते पुरुषविशेषजे बहुश्रुतगीतार्थमुनि हो
यतेहने एत्रणआलंबन प्रचुर्येकह्यांठे ॥ १४ ॥

आलंबनैः प्रशस्तैः प्रायोच्चावः प्रशस्त एव यतः ॥ इति सालंबनयोगी
मनः शुचालंबनं दध्यात् ॥ १५ ॥ सालंबनं क्लृणमपि क्लृणमपि कुर्या
न्मनो निरालंबं ॥ इत्यनुभवपरिपाका दाकालं स्यान्निरालंबः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ रुडेआलंबनेकरीने प्रायेरुडोच्चावहोय माटेसालंबनयोगी जे रुमाजीव
होय तेणेशुद्धआलंबन धरवुं ॥ १५ ॥ अनेक्लृणकमां सालंबनमनकरे अनेक्लृणक
मां निरालंबनमनकरे एरीतेंअनुभवनापरिपाकथी तेप्राणीसदाय निरालंबनथाय
आलंबव्यैकपदार्थं यदा न किंचिद्विचिंतयेदन्यत् ॥ अनुपनतेंधनव
न्निवृत्तपशांतं स्यात्तदा चेतः ॥ १७ ॥ शोकमदमदनमत्सरकलहक
दाग्रहविषादवैराणि ॥ क्षीयंते शांतहृदामनुभव एवात्र साक्षात्तः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ पठेएकपदार्थनेअवलंबीने जेवारेंबीजुंकांइ चिंतवेनही तेवारें जेमका
ष्टविनांनी अग्निउपशमेठे तेनीपरेंउपशांतपणुंपामे ॥ १७ ॥ माटेशोक गर्व का
म मत्सर क्लेश हठ विषाद अनेवैर एटलावाना शमतावंतप्राणीनेनहोय एवातनो
साक्षीइहां अनुभवठे ॥ १८ ॥

शांते मनसि ज्योतिः प्रकाशते शांतमात्मनः सहजं ॥ नस्मीन्नवत्यवि
द्या मोहध्यांतं विलयमेति ॥ १९ ॥ बाह्यात्मनोधिकारः शांतहृदामं
तरात्मनां न स्यात् ॥ परमात्मानुध्येयः सन्निहितो ध्यानतो भवति ॥ २० ॥

अर्थ ॥ शांतमननेविषे रहेतायका आत्मानोशांतस्वभाविक सहेजानंदरूप जे तेज
ठेते प्रगटथायतेवारें जेकुविद्याठेते राखयइजाय अनेमोहांधिकार नाशपामे ॥ १९ ॥
बाह्यथकी मननोजेअधिकार तेशांतपरिणामि अंतरआत्मावाला प्राणीने नहोय के
मकेतेहने ध्येयरूपी जेपरमात्मा तेध्यानथी ठुकडोठेमाटे ॥ २० ॥

कायादिर्बहिरात्मा तदधिष्ठानांतरात्मनामेति ॥ गतनिःशेषोपाधिः
परमात्मा कीर्तितस्तद्गैः ॥ २१ ॥ विषयकषायावेशः सत्त्वाश्रद्धा गु
णेषु च द्वेषः ॥ आत्माज्ञानं च यदा बाह्यात्मा स्यात्तदा व्यक्तः ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ कायाअधिष्ठित जेबहिरात्मा तेनोअधिष्ठानजे अंतरात्माठे तेप्रतेंपामे
अनेगइठेसमस्त उपाधिजेहने तेने ज्ञानियेंपरमात्मा कह्योठे ॥ २१ ॥ जेनेविषयकषा

यनोप्रवेश होय तथा तत्त्वनीश्रद्धाहोय अनेगुणीउपर देपधरे अनेजेने आत्मा
नुंओलखाणनथी तेनेप्रगटपणे वहिरात्मा कहियें ॥ २२ ॥

तत्वश्रद्धाज्ञानं महाव्रतान्यप्रमादपरता चामोहजयश्च यदा स्यात्
तदांतरात्मा जवेद्व्यक्तः॥२३॥ ज्ञानं केवलसंज्ञं योगनिरोधः समग्र
कर्मदृतिः॥सिद्धिनिवासश्च यदा परमात्मा स्यात्तदा व्यक्तः॥२४॥

अर्थ ॥ जेनेतत्वनीश्रद्धाहोय ज्ञानपणुंहोय महाव्रतीपणुंहोय तथाअप्रमादीप
णुंहोय एमकरतां जेवारेंमोहनेजीते तेवारेंतेनेप्रगटपणे अंतरात्माकहियें॥ २३ ॥
जिहांकेवलज्ञानहोय अने मनवचनकायाना योगनिरोधी आतकर्मद्वयकरी सिद्ध
मांवेसे तेवारें तेनेप्रगटपणे परमात्माकहियें ॥ २४ ॥

आत्मानंतो गुणवृत्ति विविच्य यः प्रतिपदं विजानाति॥कुशलानुबंध
युक्तः प्राप्नोति ब्रह्मचूयमसौ ॥ २५ ॥ ब्रह्मस्थो ब्रह्मज्ञो ब्रह्म प्राप्नो
ति तत्र किंचित् ॥ ब्रह्मविदां वचसापि ब्रह्मविलासाननुभवामः ॥ २६ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणीआत्मानेअने गुणवृत्तिने माहोमांहेवेहेंचणकरीने ठेकाणेजोडे
तेप्राणीकुशलानुबंधि पुण्यसहित मोरूपदनेपामे ॥ २५ ॥ जेब्रह्ममांरह्यो ब्रह्मनो
जाण तेब्रह्मनेपामे एमांशोअचंबोठे माटेब्रह्मवेत्तापुरुषजेज्ञानी तेनावचनेकरी ब्रह्म
जेमोरुविलासीसुख तेने अमे अनुभवियेंठियें ॥ २६ ॥

ब्रह्माध्ययनेषु मतं ब्रह्माष्टादशसदस्रपदज्ञावः ॥ येनाप्तं तत् पूर्णं
योगी स ब्रह्मणः परमः ॥ २७ ॥ अध्येयं सेव्यं कार्यं चक्तिः सुकृत
धिया सैव ॥ अस्मिन्गुरुत्वबुध्या सुतरः संसारसिंधुरपि ॥ २८ ॥

अर्थ ॥ ब्रह्मअध्ययननेविषे कसुंठेके अठारहजार शिलांगरयेकरी जेब्रह्मचर्य
नेपाम्यु तेनेपूर्णयोगीअनेपरम ब्रह्मकहियें॥ २७ ॥ माटेएनेजय्यावो एहनीजपुण्यवंते
चक्तिकरवी अनेएनेविषे मोटाइपणानी बुद्धिधरीयें तो संसारसमुद्रतरोसहेलठे २८

अवलंबेछायोगं पूर्णाचारासहिष्णवश्च वयं ॥ ज्ञत्तया परममुनी
नां तदीयपदवीमनुसरामः॥२९॥ अल्पापि यत्र यतना निर्दंजा सा
शुचानुबंधकरी ॥ अज्ञानविषयं यत्तद्विचेनं चात्मज्ञानानां ॥ ३० ॥

अर्थ ॥ इष्टायोगतो अमारेंनिर्वलठे प्रोत्थाचारपणअमे पालीशक्तानथी पण

मोटा मुनिनी जक्ति ए करीने तेहनी पदवीने पामरुं ॥ ३१ ॥ थोडी पण जयणा कपट
रहित थरो तो ते शुच अनुबंधकारी ठे पण आत्मा जावनी जे वेदें चण ते अज्ञानने टालनार ठे

सिद्धांततदंगानां शास्त्राणां यः सुपरिचयः शक्त्या ॥ परमालंबनचू
तो दर्शनपक्षोयमस्माकं ॥ ३२ ॥ विधिकथनं विधिरागो विधिमा
गस्थापनं विधेरिच्छा ॥ अवधिनिषेधश्चेति प्रवचनशक्तिः प्रसिद्धांतः ३७

अर्थ ॥ सिद्धांतना असे पक्षी ठे तेना अंग जेशास्त्रतेनो शक्तिप्रमाणे अमारे परिचय
ठे माटे परम आलंबनचूत एवो जे समकित पक्ष ते अमारे रूमो ठे ॥ ३१ ॥ शुद्धनापवुं
विधिशास्त्रनो राग करवो शुद्धमार्गनुं स्थापन करवुं विधिमार्गनी इच्छाराखवी अविधिटा
लवी अने सिद्धांतनी जक्ति करवी ए अमारो सिद्धांत ठे ॥ ३२ ॥

अध्यात्मजावनोज्वलचेतो वृत्योचितं हितं कृत्यं ॥ पूर्णक्रियान्जिलाष
श्चेति द्वयमात्मशुद्धिकरः ॥ ३३ ॥ द्वयमिह शुचानुबंधः शक्यारंजश्च
शुद्धपक्षश्च ॥ अहितो विपर्ययः पुनरित्यनुभवसंगतः पंथाः ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ अध्यात्मनी जावना ये करी उज्वल एहवी जे चित्तवृत्तिते ए करीने उचित कार्य
करवुं तथा हितकारी करणी करवी पूर्णक्रियाना विलासनो अजिलाषधरवो ए अमारे आ
त्मानी शुद्धिकारक ठे एटल एक अंतःकरणनी उज्वलता जे शुद्धिकरवीते अने बीजो आ
द्यथीमांडी अंतपर्यंत पूर्ण शुचक्रिया करवानी अजिलाषा एवेवाना आत्मानी शुद्धिक
रनारा ठे ॥ ३३ ॥ तथा एक करवा योग्य आरंजते शक्य आरंज अने बीजो शुद्धपक्ष एवे
वाना शुचानुबंधी ठे एवे जेहने प्रारंजकालें समर्थ ठे एमाजेनी शक्ति उद्यम अने शुद्धपरु कप
णो ठे तेहने तो हितकारी माने अने एथी विपर्यास जे ठे तेने अहितकारी माने एवीरीतें
अनुभवज्ञानने मलवानो एपंथ ठे एथी मिथ्यात्व टले ॥ ३४ ॥

ये त्वनुभवविनिश्चितमार्गाश्चारित्रपरिणतिभ्रष्टाः ॥ बाह्यक्रियया च
रणान्निमानिनो ज्ञानिनो पि न ते ॥ ३५ ॥ लोकेषु बहिर्बुद्धिषु विपणिका
नां बहिःक्रियासुरतिः ॥ अर्थां विना न चैताः सतां प्रमाणं यतो निहितं ३६

अर्थ ॥ जेहने अनुभवनो निश्चयनथी अने निश्चयमार्गनोजे चारित्रतेथी चष्टे त
था बाह्यक्रियानी आचरणा ठे तेथी लोकमां उग्रविहारी थइ आचारनो गर्वधरे ठे तेने ज्ञा
नीन कहिये ॥ ३५ ॥ बाह्यदृष्टिवाला जे मूर्खलोक ते तेने बाह्यक्रियावंत देखी प्रीतिधरे

तेतो जेमकोइकवाणीयो बाह्यक्रियाणानो व्यापारकरतोदेखियें तेनीपरेंजाणवी माटे
श्रद्धाविनासुं कशोयेप्रमाणनथी ॥ ३६ ॥

बालः पश्यति लिंगं मध्यमबुद्धिर्विचारयति वृत्तं॥आगमतत्वं तु बुधः
परीहृते सर्वयत्नेन ॥ ३७ ॥ निंद्यो न कोपि लोके पापिष्ठेष्वपि नव
स्थितिश्चिंत्या ॥ पूजा गुणगरिमाढ्या धार्योरागो गुणलवेपि ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ माटेजेबालजीवहोयते वेपज्जुइने परीह्वाकरे तथा मध्यमजीवते आचरणा
जोइपरीह्वाकरे अनेपंडिततोज्ञानतत्वदेखी परीह्वाकरे ॥ ३७ ॥ लोकनेविषे कोइनी
निंदाकरियेनही पापीनेविषे महोटी संसारनीस्थिति चिंतवियें जेगुणयुक्तपुरुषहोय
तेनीपूजाकरीयें वडाइकरीयें तथाजेअल्पगुणीहोय तेनाउपर रागधरीयें ॥ ३८ ॥

निश्चित्यागमतत्वं तस्माद्दुस्तज्य लोकसंज्ञां च॥श्रद्धाविवेकसारं य
तितव्यं योगिना नित्यं ॥ ३९ ॥ ग्राह्यं हितमपि बाला दालापैर्दुर्जन
स्य न द्वेष्यं ॥ सत्या वाचः पराशापाशा इव संगमा द्वेष्याः ॥ ४० ॥

अर्थ ॥ तथा आगमनोनिश्चयकरी लोकसंज्ञाढोडीने विवेकनुसारजेश्रद्धा तेनेवि
षे योगीश्वरें सदायउद्यमकरवो ॥ ३९ ॥ बालकथकीपण आलापेकरीने हितनीवात
लेवी दुर्जनउपर द्वेषनकरवो सत्यबोलसुं पारकीआशानेपाससरिखीजाणवी ॥ ४० ॥

स्तुत्या स्मयो न कार्यः कोपोपि च निंदया जनैः कृतया ॥ सेव्या धर्माचा
र्यास्तत्वं जिज्ञासनीयं च ॥ ४१ ॥ शौचं स्थैर्यमदंजो वैराग्यं चात्मनि
ग्रहः कार्यः ॥ दृश्या नवगतदोषा श्रित्यं देहादिवैरूप्यं ॥ ४२ ॥

अर्थ ॥ कोइवखाणेतो गर्वनकरवो कोइनिंदेतो कोपनकरवो धर्माचार्यनी सेवा
करवी तत्त्वनेजाणवानी इहाराखवी ॥ ४१ ॥ पवित्रपणुं स्थिरतापणुं अने निष्कपट
पणुं आदरवुं तथावैरागधरवुं अनेमननेवश्यकरीराखवुं तथासंसारनादोपदेखवा व
ली देहनेविनाशीपणे चिंतववुं ॥ ४२ ॥

नक्तिर्भगवति धार्या सेव्योदेशः सदा विविक्रश्चास्थितव्यं सम्यक्त्वे
विश्वास्थान प्रमादरिपुः ॥ ४३ ॥ ध्येयात्मवोधनिष्ठा सर्वत्रैवागमः
पुरस्कार्यः ॥ त्यक्तव्याः कुविकल्पा स्थेयं वृद्धानुवृत्त्या च ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ प्रभुउपरनक्तिधरवी पद्युपमकादिदोषरहित देशजेस्थानक तेसेववुं सम
कितविशामांस्थिररहेवुं प्रमादरूपशत्रुनोविश्वासनकरवो ॥ ४३ ॥ ध्येयस्वरूपजे आ

त्मबोध तेमारहेवुं सयलेस्थले आगमसिद्धांतने आगलकरवुं कुविकल्पवांमवा जेमा
गेंवृद्धचाले तेमार्गेचालवुं ॥ ४४ ॥

साक्षात्कार्यतत्वं चिद्रूपानंदमेडुरैर्जाव्यं ॥ हितका
री ज्ञानवतामनुजववेद्यः प्रकारोऽयं ॥ ४५ ॥

अर्थ ॥ तत्त्वने प्रगटकरवुं ज्ञानरूपआनंदनरैरहेवुं ज्ञानवंतने हितकारीथइने र
हेवुं एअनुजववंतजीवोना प्रकारे ॥ ४५ ॥ इतिअनुजवाधिकारः विंशतिमसमाप्त ३०

येषां कैरवकुंदवृंदशशचूत्कपूरशुभ्रागुणामालिन्यं व्यपनीय चे
तसि नृणां वैशद्यमातन्वते ॥ संतः संतु मयि प्रसन्नमनस स्ते केपि
गौणीकृतः स्वार्थीमुख्यपरोपकारविधयोत्युतृंखलैः किं खलैः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ चंडविकासीकमलनाफूलनोसमूह चंडमा कपूर एसरपाउज्वला जेहना
गुणतेतथाजे मनुष्यनाचित्तनेविषे मलिनतापणुंटालीने निर्मलताउज्वलतापणाने वि
स्तारेठे एवाजेसज्जन पुरुषोते माहाराउपर प्रसन्नमने सदैवरहेजो जेपोतानोअ
र्थ गौणकस्योठे अनेजेनीमुख्यपणे परउपकारनी बुद्धिठे एवासज्जन जो महाराउपर
प्रसन्नठे तोउन्मत्तएवाखलजे डुर्जनलोक तेना अप्रसन्नताये शुंथवावुंठे ॥ १ ॥

ग्रंथार्थान् प्रगुणीकरोति सुकविर्यत्नेन तेषां प्रथामातन्वति कृपाक
टाहलहरीलावण्यतः सज्जनाः ॥ माकंदद्रुममंजरीं वितनुते चित्रां म
धुश्रीस्ततः सौजाग्यं प्रथयंति पंचमचमत्कारेण पुंस्कोकिलाः ॥ २ ॥

अर्थ ॥ रूमजेकविठे तेअर्थानुपत्तिए नवाग्रंथरचे पणकृपानजरनीजेहरी तेनुंघर
एवाजे सज्जन तेग्रंथनेवखाणीने विस्तारकरेठे तेउपरदृष्टांतकहेठे जेमवसंतलक्ष्मीजेठे
तेआंबानीमंजरीना मनोहरपणाने प्रगटकरेठे पणपोताना पंचम रागनाचमत्कारेक
रीएटलेरागनोटहुको तेणेकरिनेकोयलजेठे तेमंजरीनुं सौजाग्यपणुंजगमांविस्तारेठे

दोषोद्धेखविषः खलाननविलाड्ढाय कोपाज्वलन् जिब्हाहि ननु
किं गुणान्नगुणिनां वा स क्वयं प्रापयेत् ॥ तस्माच्चेत्प्रबल प्रजावचनं
दिव्यौषधी सन्निधौ शास्त्रार्थप्रतिपदिदां शुभहृदां कारुण्यपुण्यप्रथा ३

अर्थ ॥ दोषना विस्ताररूपविषेसहित एहवुं खलप्राणीना मुखरूपजे सर्पनुंघर ते
थीउठीने कोपेवलतोथको एवोडुर्जननीजीनरूपजे सर्प जेशुणिनागुणने ननुके ० नि

श्रेयीरूपपणाने नपमाडेसुं अपितुपमाडेज तेमाटे महाप्रनावनुं पर एहवोजे शाख
नोअर्थ तेनीप्राप्तिनाजाण जेसज्जन तेनीजेकरुणातेपुण्यवार्त्तारुपनीबुटी एटलेजडीते
दिव्यश्रीपधीकहियें तेनेपासेरहेताथका तेने जेरचढेनही ॥ ३ ॥

उतानार्थगिरां स्वतोऽवगमाग्निःसारतां मेनिरे गंजीरार्थसमर्थने वत
खलाः काठिएदोपं दडुः॥तत्कोनाम गुणोस्तु कश्च सुकविः किंका
व्यमित्यादिकां स्थित्युद्धेदमतिं हरंति नियतां दृष्टा व्यवस्थाः सतां ४

अर्थ ॥ दुर्जनमूर्खनीरीतश्री तोजेवारें पोतानीमेले पदवाचतां अर्थसुजे एवाअ
व्यार्थने सुगमपदजो अमेजोडीयें तोखलमाणसएमकहेजे कोइअग्रंथमां सारनथी
एममाने वलीजोअमे गंजीरअर्थसहित पदवांधीएतो खलमाणस कहेजेकेकठणप
व्वांआठे एतुंअर्थकरियें एतोसुंगानीपारसीठे एवेअर्थकोइने गुणनथाय जे आगलबु
द्विविचारे एवाआजेंकोणरुडाकविठे वलीसर्वनेजोगपडे एवांक्यांकाव्यठे एतुंदुर्जनवो
लेमाटेअर्थमर्पादानी स्थितिनेउद्धेद करवानीमतिठे तेनेजेटाले कविनागुणनेजाणे
एवाजेसज्जनपुरुष तेनीव्यवस्था रूढीदीवी ॥ ४ ॥

अध्यात्मामृतवर्षिणीमपि कथामापीथ संतः सुखं गाहंते विपमुजि
रंति तु खला वैपम्यमेतत्कुतः ॥ नेदं चाद्भुतमिडदीधतिपिवाः पीता
श्रकोरा नृशं किं न स्युर्वत चक्रवाकतरुणास्त्वत्यंतखेदातुराः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ अध्यात्मरूप अमृतवृष्टि एवीवार्त्ता तेनोपानकरीने सज्जनपुरुषसुखमानेठे
अनेजेखललोकठे तेएवीवाखीने विपमपदकहीने विपरूपप्रगटकरेठे एमां अुंअर्थ
ठे तेउपरदृष्टांतकहेठे अुंअर्थकोइने गुणनथाय जे आगलबु
द्विविचारे एवाआजेंकोणरुडाकविठे वलीसर्वनेजोगपडे एवांक्यांकाव्यठे एतुंदुर्जनवो
लेमाटेअर्थमर्पादानी स्थितिनेउद्धेद करवानीमतिठे तेनेजेटाले कविनागुणनेजाणे
एवाजेसज्जनपुरुष तेनीव्यवस्था रूढीदीवी ॥ ५ ॥

किंचित्साम्यमवेदय ये विदधते काचेंजनीलाजिदां तेषां न प्रमदाव
हा तनुधियां गूढा कवीनां कृतिः॥ये जानंति विशेषमप्यविपमे रेखो
परखांशतो वस्तुन्यस्तु सतामितः कृतधियां तेषां महानुत्सवः ॥६॥

अर्थ ॥ जेमकांइक सरखापणुंदेखीने काचमां अनेइंजनीलमणीमां अनेदरूपतें
एकपणुंजाणे तेवाअल्पबुद्धिवालाने मोटाकविनी गूढअर्थनीरचना तेहर्षजणीनथा
य जेप्राणीअविपमवस्तुनेविपे एकरेखा उपरेखा अर्धरेखाइत्यादिक अंशंथकी वस्तुनेवि
शेषपणुंजाणेठे एवाकुशलबुद्धिवालासज्जनने अर्थनजाजेनावठे तेमहाश्रीववरूपठे ६

पूर्णाध्यात्मपदार्थसार्थघटना चेतश्चमत्कारिणी मोहबन्धदशां नवे
तनुधियां नो पंडितानामिव ॥ काकुव्याकुलकामगर्वगहनप्रोहाम
वाक्चातुरीकामिन्याः प्रसन्नं प्रमोदयति न ग्राम्यान् विदग्धानिव ७

अर्थ ॥ जेमांपूर्णअध्यात्मपदार्थ तेसहितघटनाचे पण तेजेहनीदशाअज्ञानेकरी
नें अवरणीचे एवाअल्पबुद्धिवालांना चित्तमांतोजेरीते पंडितलोकआवाग्रंथशीरीज
पामे तेरीतनोचमत्कारनउपजावे तेहनोदृष्टांत जेमकामेव्यापीथकी अंतरंगमां
विषयसुखने इहतीथकी तथा बाह्यथी नयशोकधरतीथकी पुरुषनेवद्वन हुंरू
पवती एमगर्वेनरीथकी रुडीवचननीचतुराइ करनारएहवीजे चतुरस्त्रीहोयतेपण गा
मडीआमूर्खने रीऊवीनशके पणपंडितनेतोआनंदपमाडे तेनीपेरेंजाणवुं ॥ ७ ॥

स्नात्वा सिद्धांतकुंडे विधुकरविशदाध्यात्मपानीयपूरैस्तापं
संसारदुःखं कलिकलुषमलं लोचनतृष्णां च हित्वा जाता ये
शुद्धरूपाः शमदमशुचिताचंदनालित्तगात्राः शीलालंका
रसाराः सकलगुणनिधीन्सज्जनांस्तान्नमामः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ सिद्धांतरूपकुंडमां चंद्रसरखुंनिर्मल अध्यात्मरूपपाणीनापूरमांसनानकरीने
नवदुःखरूपजेताप अने पापरूपजेताप तथालोचन तृष्णानेपणढांमीने यथाशुद्धरूपे
करी वलीसमतारूपइंद्रियदमनजे पवित्रतेरूपचंदनेकरी शरीरविलेपितढेजेतुं वलीशी
लरूपधराणेकरीशोभता सर्वगुणनानिधानएवाजे सज्जनतेनेहुंनमुंढुं ॥ ८ ॥

पाथोदः पद्यबंधे विपुलरसजरं वर्षति ग्रंथकर्ता प्रेम्णां
पुरैस्तु चेतःसर इह सुहृदां श्लाघ्यते वेगवन्निः ॥ त्रुट्यंति
स्वांतबंधाः पुनरसमगुणद्वेषिणां दुर्जनानां चित्रं चावज्ञ
नेत्रात् प्रणयरसवशान्निःसरत्यश्रुनीरं ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ जेग्रंथकर्ता मेघसरखाळे तेपद्यबंधेकरीने बहुरसजरे वरसतांथका तेथी
प्रेमरूपपूरते सज्जननाचित्तरूप सरोवरमां वेगेकरीनेनरायढे वलीअसाधारणगुणना
द्वेषीजे दुर्जन तेनातोअंतःकरणना बंधतुढे अने एवाविचित्रकारीजेग्रंथ तेनाजाव
नाजाणजेपुरुषढे तेविनयेंप्रणित रसेंउज्वलाळे तेनानेत्रथी स्नेहरूपआंसुंजरेढे ॥ ९ ॥

उहामग्रं यथावप्रथमं नवयशःसंचयः सत्कवीनां क्षीरा
 विधर्मथ्यते यः सहृदयविबुधैर्मरुणा वर्षनेन ॥ एताडिंडी
 रपिंडीभवति विधुरुचेर्मंडलं विष्णुपस्तास्ताराः कैलास
 शैलादय इह दधते वीचिविद्वोन्नलीलां ॥ १० ॥

अर्थ ॥ रुद्राकविनी उहामके ० प्रौढएह्वीजे ग्रंथनाभावनी रचनातेणेकरीनेउपतुं
 जेयशनोसमूहतेरूप क्षीरसमुद्र तेसङ्कनपंमिते वर्षेवरूपिए मेरूएकरीनेमथ्यो तेथी
 प्रगट्युंजे फीण तेनोउज्वलो चंद्रमाथयो बलीतेनेवलोवतांजे ठाटाउमया तेनातारा
 मंडलथयां तथा कैलासादिक पर्वतथया एरीतेंग्रंथनोजश लीलाएकरी पसखो ॥ १० ॥

काव्यं दृष्ट्वा कवीनां हतममृत मिति स्वःसदा पानशंकी खेदं
 धत्ते तु मूर्ध्ना मृडतरहृदयः सज्जनो व्याधुतेनाज्ञात्वा सर्वो
 पन्नोग्यं प्रसृमरमथ तत्कीर्त्तिपीयुपपूरं नित्यं रक्षापि
 धाना नियतमतितरां मोदते च स्मितेन ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ कविनाकाव्यदेखीने अमृतहरायुं एमविचारीने देवताओ सदायश्चमृ
 तपीवानी शंकाधरताथका खेदधरेठे शामाटेजे मृडसुकोमलठे हृदयजेहनुं एवाजे
 सङ्कन तेमस्तकधूणावीकरीने जेसर्वनेउपन्नोग्यपणे पसरतुएवुं ते कवीनीकीर्त्तिरूप
 अमृततुंपूरं तथा जेनेनिरंतर रक्षारूप टांकणुंअत्यंतपणे दीधुंठे तेनेजाणीने देखी
 ने हसीने हर्षपामेठे ॥ ११ ॥

निष्पाद्य श्लोककुंजं निपुणानयमृदा कुंजकाराः कवींश्च
 दाढर्यं चारोप्यतस्मिन्न किमपि परिचयात्सून्यराक्षार्कज्ञा
 सं ॥ पक्वं कुर्वति बाढं गुणहरणमिति प्रज्वलद्दोषदृष्टिर्ज्वा
 लामालाकराले खलजनवचनज्वालजिह्वे निवेश्य ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ रूढानयरूपमाटीवरुं कवीश्वररूपियांजे कुंजकारते श्लोकरूपघडो निपजा
 वे पठेजेमकुंजकारतेघटने परिचयते हायेंजाली टपणेसमारीतमकेमूके तेमश्लोक
 घटने परिचय विचारीने पदअक्षर आयापाठाहोय तेनेसमारे एवीरीतें तमकेमूके
 पठेंपंडितनेदेखाडी परिपक्करे तेजाणेनीमामोदेखाडेठे ह्वेडुर्जनजाणेजे एपंमित
 ठे तेथीमाहारा गुणहरणथशे एमवलतोथको पंडितनीजोडेली कजामां दोषकाढ

वानी दृष्टिरूप आगमनीज्वालानीश्रेणि तेणेकरी विकरालएवीपोतानी नजररूपथ
ग्नि वलीतेडुर्जननाजेवचन तेजाणियें निंदारूप अगनीनी ज्वाला तेणेकरीघडेलीजी
चातेवेदु अग्निनावचमां ग्रंथरूपघडो मूकीनेपाकोकरेठे अनेनीमाडानीराखथाय
घटमूलपोसायठे ॥ १२ ॥

इक्षुषाद्धारसौघः कविजनवचनं दुर्जनस्याग्निं यंत्रान्ना
नाड्व्यप्रयोगात्समुपचितगुणो मद्यतां याति सद्यः ॥
संतः पीत्वा यडुच्चैर्दधति हृदि मुदं घूर्णयंत्यक्षियुग्मं स्वैरं
हर्षप्रकर्षादपि च विदधते नृत्यगानप्रबंधं ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ शेलनीअने डाषनारसनासमूह सरखुकवीनुंवचनठे पणडुर्जनरूपीयो
अग्निनोजे यंत्रठे तेमध्येनानाप्रकारना ड्व्यनायोगथकी रुडीरीतें गुणपुष्टिने पामतुं ए
हवुंकवीनुंजेवचनते ताजी मदिरापणानेपामेठे तेमदिरानेहर्षेकरी सज्जनपुरुषपानक
रीने हृदयमांहर्षधरेठे तेथीवेआंखोधुमायमानथायठे स्वइष्टायें हर्षनाकळोलथी पण
श्लोकनोनावार्थपामीने नाचेठे गायठे ॥ १३ ॥

नव्योस्माकं प्रबंधोप्यनणुगुणानृतां सज्जनानां प्रजावा
दिरख्यातः स्यादिति सुहितकरणविधौ प्रार्थनीया न किंनः॥
निष्ठाताश्च स्वतस्ते रविरुचयश्वांचोरुहाणां गुणाना
मुह्नासे पेक्षणीया न खलु पर रुचा कापि तेषांस्वजावः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ अमारोग्रंथनवोठे तोपणमहागुणवंतजे सज्जन तेनाप्रजावयकी वि
ख्यातथाजो एरीतेंरुडाहितनेअर्थें अमारे एसज्जनने प्रार्थनाकरवायोग्यनथीतुं
अपितुठेज जेम कमलनागुणने उह्नासकरवाने सूर्यनाकिरणठे एम पोताथकीजे
प्रविणठे एवातेसज्जननाजे स्वजावठे तेक्यांयेंपररुचिजणि निश्चेंउवेखवायोग्यनथी
यत्किर्त्तिस्फूर्त्तिगानावहितसुरवधूचंद्रकोलाहलेन प्रह्लु
ब्धस्वर्गसेतोः पतितजलनरैः क्वालितः शैत्यमेति ॥
अश्रांतभ्रांतकांतग्रहणकिरणैस्तापवान् स्वर्णशैलो भ्रा
जंते ते मुनींश्च नयविजयबुधाः सज्जनव्रातधुर्याः ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हवेपोतानागुरुनो वर्षावकरेठे जेनीपसरतीजेकीर्त्ति तेनेगावाने सावधान

एटलेस्वर्गमां देवतानी अप्सराद्योजेठे तेथ्रीनयविजयजीना गुणगायठे तेनागीतश
 व्दना कोलाहलेंकरीने क्कोचनापामी एहवीजेस्वर्गनदी तेनीपाजजागी तेथ्रीपमयुंजे
 जज तेनासमूहेंकरी पखाव्योजेमेरुपर्वत तेणेकरीमेरुपर्वतपण शीतजतानेपान्योठे
 नहितो अहर्नाश प्रदह्णायेंनमताजे ग्रहमंजल तेनाकिरणेकरी तापवंतमेरुहतो
 तेह्मणाशीतलययोधको शोचेठे एवातेमुनींश् श्रीनयविजयनामा पंफितजे सज्जन
 पुरुषोनासमूहमां वडेराहता ॥ १५ ॥

चक्रे प्रकरणमेतत्तत्पदसेवापरोयशोविजयः

अध्यात्मधृतरुचीना मिदमानं दावहं भवतु ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ तेनाचरणना सेवकउपाध्यायश्रीयशोविजयजी एप्रकरणकरताहवा तेथ
 ध्यात्मनेविपेजेणेरुचिधरीठे एवाप्राणीने रुचितहित एप्रकरणअ्यानंदसुपनुंआपनार
 होजोइति सज्जनस्तुतिअधिकार एकविंशतितमःसमाप्तः

इतिमहोपाध्याय श्रीकल्याणविजयगणिं शिष्यमुख्यपंडित श्रीजान
 विजयगणि शिष्यमुख्यपंडित श्रीजितविजयगणी तच्छिष्यमुख्य
 पंडित श्रीनयविजयगणी चरणकमलचंचरीकेण पंडितश्रीपद्म
 विजयगणिसहोदरेण पंडित श्रीयशोविजयेनविरचिते अ
 ध्यात्मसारप्रकरणे सप्तमप्रबंधःसमाप्तः सर्वकाव्य ६१

इति श्रीमत्तपागठे नटारकश्रीविजयसिंहसूरीश्वरशिष्यपंडित श्रीसत्यविजयगणि
 शिष्यपंडितश्रीकरपूरविजयगणि शिष्यपंडितश्रीरुमाविजयगणि शिष्यपंडितश्रीयशो
 विजयगणि शिष्यपंडितश्रीगुजविजयगणि शिष्यपंडितश्रीवीरविजयगणिनिरध्यात्म
 सारग्रंथस्यवार्तिकरूपोमुनिकीर्तिविजयस्यानुग्रहाय अयंतवार्थःरुतःसंवत् १८८१
 चित्रशुक्लपक्षपूर्णिमायामितिश्रेय.

सर्वमूलकाव्य ९४७ नीसंख्यायेठे तेमां पेलाप्रबंधना १०१ बीजाप्रबंधना
 १०५ त्रीजाप्रबंधना ११७ चोथाप्रबंधना १६९ पांचमांप्रबंधना १८३
 षठाप्रबंधना २१० सातमांप्रबंधना ६१ सर्वमलीने ९४७

सूचना.

—१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-

आ अध्यात्मसार नामनो ग्रंथ श्रीवशोविजयजी उपाध्याये संस्कृतनाषाना पद्यमां रच्योते. ए वाक्यमां आ ग्रंथनुं नाम, तथा तेना रचनारनुं नाम शानलतां अथवा वांचतांज सुद्ध जनोनां मनमां प्रसन्नतायुक्त उत्कृष्टनाव उत्पन्नथयाविना रहे शो नही; केमके ग्रंथना नामप्रमाणे ते शब्दतो अर्थ अध्यात्मनोसार थायते; तेम ग्रंथना रचनारना नामप्रमाणे तेनो अर्थ यशानो विजयकरनार थायते; एबन्नं नाम सार्थकते, एम कह्याथी कांइपण बाधा आवशो नही. आ ग्रंथमां जेवी रीतें अध्यात्मविषयना प्रकारोनो समावेश कखोते, तेवी रीतें बीजे क्वचित स्थलेज दीठामां आवशो. उपाध्यायजीनुं पांमित्य, कविताशक्ति, समयसूचकता, पूर्वपदमंडनता, निजपदमंडनता, वाकपटुत्व पदलालित्य, अर्थगौरव, रस, अने अलंकारसहित एमना रचेला हरेक ग्रंथमां विदत्ता जोतां कोइनेपण आश्वर्थ उत्पन्न थयाविना रहेशो नही; केमके उपाध्यायजीए जेजे विषयोमां ग्रंथो रच्योते, ते ते ग्रंथोमां एवी युक्तिओ करीते के, तेना यथार्थ सूक्ष्मनावार्थने साधारण अन्यासी मनुष्य समझी शके नही. तेम विद्वानोनी बुद्धि पण कांइक श्रमवडे जाण शके; माटे एवुं अनुमान थायते के, ए महापंडित हता एमां संशयनथी. तेमणे अध्यात्मविषयक जे आ ग्रंथ रच्योते, तेनी उत्कृष्टतानुं वर्णन न करतां ए ग्रंथज सज्जनोनी सनमुख राखीए बैये ते वांचीने विचारी लेवुं एटले प्रत्यक्षप्रमाणवडे सिद्ध थशो. एवा ग्रंथनो यथार्थनाव टीकाविना समजवो महाकठिण पडेते; तेथी टीकानो अमे घणो शोध कखो पण ते कयांइ मली आवी नही; ने टीका थइते एवुं पण कोइ तेकाणेशी सांज्यामां आयुं नही, त्यारे ते प्रयत्न रहेवा दइने बालाबोध अथवा टबाविषे शोध करतां मात्र श्रीवीरविजयजीनो करेलो टबो मली आव्यो; ते पण तेमणे पोतानी बुद्धि अनुसार साधारण करेलोते. ए टबाउपरथी स्पष्ट दीठामां आवेते के, अध्यात्म विषयविषे श्रीवीरविजयजीनो अन्यास घणो थोडो हतो, तेथी यथार्थ मूलग्रंथनो नाव प्रदर्शित करी शक्या नथी ए मोटी दिलगिरीनी वात ते. पण एटबाथी बीजो सारो टबो कोइ अमने मल्यो नही, तेथी एमां कांइक सेजसाज अमारी मति अनुसार सुधारो करीने आ पुस्तकमां ठाप्यो ते.

॥ श्रीसर्वज्ञायनमः ॥

अथ

श्रीतत्त्वानुबोधग्रंथ एतले नवतत्त्वपर पंचवीसबोल विचारवा आश्रयीसंक्षेपथी व्याख्यान लखियेंगें

॥ दोहा ॥

सासणपतिश्रीवीरजिन त्रिचुवनदीपकजाण ॥ नवउदधीतारणतारण वाहण
समनगवान ॥ १ ॥ चरणकमलयुगतेहना वंदेइंददिनेंद ॥ चंदनरिंदफनिंदसुर सेवे
सुरनरवृंद ॥ २ ॥ तासुरुपासेंउध्या जीवअसंखसुज्ञान ॥ लहिशिवपदजवउदधित
रि अजरअमरसुखथान ॥ ३ ॥ तसुमुखशीवाणीखरी जिमश्रावणवरसात ॥ अनं
तनयात्मज्ञानथी नविजनडुःखमिटात ॥ ४ ॥ तेवाणीसजुरुमुखें जेनविहृदयध
रंत ॥ स्वपरजेदविज्ञानरस अनुभवज्ञानजहंत ॥ ५ ॥ उन्नमनरजवपायकर शुद्ध
सामग्रीपाय ॥ जोनसुणोजिनबचनरस अफलजमारोजाय ॥ ६ ॥ तेमाटेजविजी
वंकूं अवशउचितएकाज ॥ जिनवानीप्रथमहिश्रावण अनुक्रमग्यानसमाज ॥ ७ ॥ जि
नवाणीकेश्रावणविन शुद्धसम्यक्नहोय ॥ सम्यक्विणआतमदरस चारित्रगुणनहि
जोय ॥ ८ ॥ शुद्धसम्यक्साधनविना करणीफलशुचबंध ॥ सम्यक्करतसाधनथकी
मिटेतिमरसविबंध ॥ ९ ॥ सम्यक्तेदजिनबचनमें नेदपर्यायविज्ञोप ॥ पिणमुख्य
दोयप्रकारहे ताकोजेदअलेख ॥ १० ॥ निश्चैअरुख्यवहारनय एदोनुंपरिमाण ॥ द
धिमथनेघृतकाढवा ॥ तेतान्यायपिठाण ॥ ११ ॥ वेवधर्मशुरुआसता तजेछुवेवकुध
र्म ॥ एव्यवहारसम्यक्तकहि बाह्यधर्मनोमर्म ॥ १२ ॥ निश्चैसम्यक्तनोसही कारणठे
व्यवहार ॥ एसमकितआराधता निश्चैपणअवधार ॥ १३ ॥ निश्चैसम्यक्जीवने पर
परिणतिरसत्याग ॥ निजस्वजावर्मैरमणता शिवसुखनोएजाग ॥ १४ ॥ वेदुसम्यक्त
तइलहे समजेनवतत्वज्ञान ॥ नयनिक्षेपपरमाणुं स्यादवादपरमाण ॥ १५ ॥ इष्य
क्षेत्रइणहीतणा कालजावविग्यानासामान्यविज्ञोपसमजतें होयनयात्मग्याना ॥ १६ ॥

अथवचनिकारूप तत्वानुबोध ग्रंथकहेते तिहांप्रथम नवपदार्थना नामकहेते
गाथा ॥ जीवाजीवपुत्रपावो आसवोसंवरोतहा निङ्गराबंधमोस्कोय नवतत्ताजिणे
नणिया ॥ १ ॥ व्याख्या जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मो
ह एनवपदार्थ श्रीतीर्थकरैकह्यां पणएनवपदार्थनी श्रीगाणांगसूत्रना बीजागाणामां
एकजीवरासी बीजी अजीवरासी एबेरासीकहिठे पणजेत्रीजीरासीकहे तेहने श्रीउ
ववाऽसूत्रमां नन्हवकह्योठे वली जीवमजीवद्वं इतिइव्यसंग्रह हवेए जीव तथा
अजीव बेरासीमां नवपदार्थ केमसमावे तेविचारकहेते प्रथमसामान्ये इव्यबेकहि
येंतैयें अने विशेषशब्दमां ठइव्यकह्यांठे तेसामान्यपदें बेइव्यमां ठइव्यसमायठे ते
ठमांहे १ धर्म बीजोअधर्म त्रीजोआकाश चोथोकाल पांचमुंपुजल एपांचअजीवइ
व्यठे अनेएकजीवइव्यठे तेमांवलीपूर्वोक्त पांचअजीवइव्यना बेजेदठे एकअरूपी
अजीवइव्य अने बीजरूपी अजीवइव्यठे.

एकधर्म बीजोअधर्म त्रीजोआकाश चोथोकाल एचार अरूपी अजीवइव्यठे
अने पांचमुं पुजलते रूपीअजीवइव्यठे तेरूपी पुजलइव्यना वली बेजेदठे एक
चउफरसी रूपीपुजलइव्यठे अनेबीजो आठफरसीरूपी पुजलइव्यठे तेमां चउफर
सी रूपीपुजलतो चक्रुइंडियवमें देखायनही अनेज्ञानवंतदेखे.

हवेतेचउफरसी पुजलकेटलाठे तेकहेते आठकर्मना अठारपापस्थानकना
कार्मणशरीरना मनवर्गणानापुजल तथा वचनवर्गणानापुजल ए सर्व प्रयोगसा च
उफरसी रूपीपुजलजाणवा.

अनेआठफरसी रूपीपुजलजेठे तेमांकेटलाक दृष्टिगोचरमांआवे अने केटलाक
दृष्टिगोचरमांनआवे एटले वायुकायनापुजल तथा अहारकशरीरना धुंधलाते
विस्त्रसापुजल अने ठप्रकारनीइव्यलेश्याना इत्यादिकवस्तु आठफरसीजेठे तेमाहेला
जेपुजलनाखंधमां करकश अने नारीफरसना पुजलघणाहोय तथासुकुमालमूडसुकु
माल अने हलकापुजल घणाहोय तेदृष्टिगोचरमांनआवे उपरांत उदारिकशरीरादि
क प्रमुखसर्वना जेदितामांआवेठे दृष्टिगोचरमांआवेठे एमाटे आठफरसीपुजल दृष्टि
गोचरमां आवे पण अनेनहीपणआवे

अनेजीवइव्य अरूपीठे पणपुजलसाथेंमव्यो आकारवंतरूपीदेखायठे एरीतें ष
इइव्यते बेरासीमां समायठे तेमज नवतत्वपण बेरासीमां समायठे केमके इव्या
र्थिकनयेंकरी बेइव्यठे अनेपर्यायार्थिकनयेंकरी बेइव्यना नवपदार्थथायठे तेकहेते

जीवतत्वतो जीवइव्यतेज अने अजीवतत्व अजीवइव्यमां कह्योजे शेपसात तत्वजेते तेपर्यायार्थिके वेइव्यनापर्यायथी साततत्वनीपना तेवेप्रकारेते एकसु ख्यतायें बीजोगोणतायें तेआवीरीतेंजे.

पुण्य पाप बंध आश्रव एचारतत्व मुख्यतायें अजीवथी नीपनाठे केमकेएचारते कर्मथीनीपनाठे माटेकर्मतत्वठे अनेकर्मनेतो जगवतिमां चोफरसी रूपीपुञ्जकह्यो ठे एन्यायें एचारतत्व अजीवतत्वमां समायठे अने प्रयोगसापुञ्जले माटे व्यवहा रनयनी अपेह्ययें गोणतापणे जीवनापर्यायमां पणजलेठे तेथी पर्यायार्थिकनयें करी एनेपर्याय तत्वकहियें.

पणएचारतत्वना निजस्वरूपविचारतां हेयपदार्थठे केमके कर्मवंतनेठे माटेपरगु णठे जीवनोगुणनथी कर्मनोगुणठे अनेजेकर्मनोगुण ते निश्चयनयथकी अजी वठे माटेएवीरीतेंज्ञान विचारतांतो अजीव पुन्य पाप आश्रव बंध एपांचतत्व अजी वरासीमां समायठे.

अने संवर निर्झरा मोह एत्रण धर्मतत्वठे जीवनोगुणठे पणपरगुणनथी मा टेमुख्यतायें जीवनापर्यायठे परंतुपुञ्जने आत्माथी चिन्नकरवानो स्वभावठे माटेचं ग्रहनयेंकरी पुञ्जना पर्यायमांपणजलेठे तेथीएत्रणे पर्यायतत्वजाणवा परंतुमुख्यप णेवस्तुनी ओलखाणकरतां धर्मतत्वठे निजगुणठे अरूपीठे तेनिश्चयनयनी अपेह्ययें जीवठे जीवनापर्यायठे तेमाटे एकजीव बीजोसंवर त्रीजोनिर्झरा चोथोमोह एचा रजीवतत्वठे तेजीवतत्वमां समायठे इतिहेयं.

ह्वेकोइक एकांतपह्याही आश्रवने जीवकहेठे तेकहेनारपण अजाणदेखायठे पठेतो केवजीवचन संत्यठे पणसूत्रमांजोतांतो आश्रवनेजीवपुणं कहेतुं एमजणा तुंनथी जेकुहेतुलगाडी आश्रवनेजीवकहि जोलालोकोने जरमावेठे तेनीरीत कहेठे.

जीवनाजे अद्युज्जावते आश्रवठे एन्यायें आश्रवने जीवकहियें एमतेकहेठे पण ते जिनमार्गना नयात्मज्ञानना अजाणदेखायठे माटेपह्यापातमूकीने जिनमार्गनी शैलीनी उलखाणकरसो तो आश्रवते प्रत्यक्षअजीवना पर्यायमांजिलेठे तेनोविचा रएमठेजे आश्रवनोगुण कर्मग्रहणकहोठो तेकर्मग्रहणतोजीवविना मात्रकर्मपुञ्ज ज नवाकर्मने केमग्रहणकरीशके तेमजवलीअरूपीवस्तु रूपीवस्तुने पणग्रहणके मकरे तेतोअनादिकालनी कर्मवर्गणासाथेंते तेकर्मवर्गणाथी जीवकर्मग्रहणकरेठे.

माटेजीवना नूडानावनोकत्तापण कर्मजठे तेकर्मविनाजो जीवनाचूडानाव यता होयतो सिद्धनाजीवोनेपण छंडानाचयवाजोइयें पणसिद्धतो अकर्मकठे माटेतेना

तोचुंडाजावनथी तेथीप्रत्यहूदेखायतेजे एआतकर्म अनादिकाजना जीवसाथें जोलिनू तठे तेजकर्मने ग्रहणकरते जेमअग्नीना प्रयोगथी पाणीउल्लथायते पणतेउल्लता नोकर्त्ताअग्निठे पणपाणीनथी तेमजचुंडाजावनो कर्त्ताकर्मठे पणजीवनथी तेमाटे एनोकर्त्ताकर्मठे एमओलखतां तथाकार्यना कारणदेखतां तोआश्रव अजीवतत्वमां समापते पर्यायतत्वठे निश्चैनयदेखतांतो हेयपदार्थठे कर्मथीनीपनोठे परगुणठे ते माटेआश्रवने अजीवसदहणा धारवी.

वलीकोइक शुनयोगने संवरकहेठे तेपण सूत्रथीमिलतोनथी केमके इरियावि हि क्रियाते शुनयोगथीयायते माटेयोगप्रत्ययठे तेपणआश्रवमांठे तथा पहेलागुण ठाणेशुनयोगठे पणसंवरनथीकह्योमाटे शुनयोगने संवरकहेवोतेपण सूत्रथीमजतु नथी तत्वकेवलिंगम्यं

कोइक संवरनेजीवकहेतां आश्रवनेपण जीवइढावेठे तेपणपहूनीताणकरते के मके संवरतो अकंपअवस्थाठे योगनिरुंधनठे तेमादेशथीजे योगनिरुंधणते देशसं वरठे अने सर्वथी जे योगनिरुंधनते सर्वसंवरठे अनेएसर्वजीवनो निजगुणठे धर्मत त्वठे माटेसंवर आश्रवएवेहु एकनीपर्यायनथी तेमांआश्रवते अजीवनीपर्यायठे अ नेसंवरते जीवपर्यायठे इति.

हवेजिनराजना वचनथी नवतत्वनी शुऽसदहणाते सम्यक्तठे अनेकोइक एम पणकहेठे जे नवतत्वना जाणपणाथी संसारतरेनही तेपणसत्यठे पणतेजाणपणुं श्रीउत्तराध्ययनसूत्रनां अठशावीसमां अध्ययनें एकसंक्षेपरुचि बीजीविस्ताररुचि एवेप्रकारेंकहुंठे तेमांजेजीव प्रवचनशास्त्रनो अजाणठे पणमिष्यात्वीना वचननी आसतानथी दृढपणेजिनवचननी आसताठे अने जेश्रीतीर्थकरें तत्वकह्यातेहनेसत्य करीजाणोठे एहवानेजे नवतत्वजुंजाणपणुंठे तेसंक्षेपरुचिकहियें.

अनेजेणे नवतत्वने अनेकरीतें शास्त्रोक्त ओलख्याठे तेविस्ताररुची थी जाणप णुठे उक्तंच उतराध्ययने अठशावीसमें अध्ययने द्वाणसवजावा सवप्यमाणेहि जसउवलऽ ॥ सद्वाहिनयविहिय विहाररुइतिनायवो ॥ १ ॥ इत्यादिक अनेकजातेक हीठे तेएकेक तत्वउपर पचीसपचीसबोल चिंतव्याथी विस्ताररुचीनी सदहणाथा य तेपचीसबोलना नामकहेठे.

१ निश्चैथी २ व्यवहारथी ३ इव्यथी ४ जावथी ५ सामान्यथी ६ विशेषथी ७ ना मनिक्षेपाथी ८ स्थापनानिक्षेपाथी ९ इव्यनिक्षेपाथी १० जावनिक्षेपाथी ११ इव्य थी १२ क्षेत्रथी १३ कालथी १४ जावथी एरीतेंइव्यादिकचारथी तथा १५ प्रत्यहू

प्रमाणथी १६ अनुमानप्रमाणथी १७ आगमप्रमाणथी १८ उपमाप्रमाणथी १९
 नैगमनयथी २० संग्रहनयथी २१ व्यवहारनयथी २२ रुच्छसूत्रनयथी २३ शब्दन
 यथी २४ समनिरूढनयथी २५ एवंजूननयथी एरीतें एपचीसवोजते एकेकातत्वउ
 पर शीसीरीतें विचारियेंतेकहेठे तेमाथीप्रथमजीवादिकनवपदार्यना निश्चें व्यवहार
 एवेवोलकहेठे जीवतुंनिश्चेंपणुंते अस्ख्यात प्रवेशात्मक इव्य अनेकर्मकलंकरहित
 शुद्धोपयोगी सत्त्विदानंदते निश्चेजीवजाणवा तेजीवजे सिद्धालयेंपहोता कर्मव्यव
 हारना अजावथी अकम्मस्स विवहारोनविद्धइ एमअनुयोग इरें अकर्मकमाटे सि
 ङ्गने व्यवहारनथी तेनेनिश्चेथीजीवकहियें.

अनेजे संसारीजीव चेतनावंत ऐकेंडीथीमांडीने पंचेंडियपर्यंत देहधारकजीवो
 पोतपोताना शरीरानुसारें आयुअवगाहनादिकमां प्रवर्त्तें ते व्यवहारजीव विवहर
 तिचिब्यवहार एवचनेकरीजाणवुं.

हवेअजीवनो निश्चेव्यवहारपणुकहेठे अजीवतत्वना पांचइव्यठे तेंपांचेनोजे
 अचेतनपणो तेनिश्चेनयथी जाणवुं अने धर्मास्तिकायमां गमनगुण तेव्यवहार अ
 धर्मास्तिकायमां स्थिरगुण तेव्यवहार वलीआकाशास्तिकायनो अक्काशगुण तेव्य
 वहार अने कालइव्यतुं पुज्जलपरावर्त्तन वर्त्तनागुणतुं प्रवर्त्तन जेप्रवर्त्तवोतें व्यवहा
 रनयजाणवो जेमअसंख्याता लोकाकाशमां अनंतरात्रीगइ वर्त्तमानेएकजायठे अ
 नागतेंअनंतिजासे एहवीजे प्रवर्त्तनाते व्यवहारकालजाणवुं वलीपुज्जलनेविपे पांच
 वरण वेगंध पांचरस अनेआठफरस पांचसंस्थान इत्यादिकतुं ग्रहणगुण तेव्यवहा
 नयपुज्जलठे एअजीवनो निश्चेव्यवहारनयकह्यो.

हवेपुण्यतत्वतुं निश्चेव्यवहारपणुकहेठे जीवनाप्रदेशनेविपेजे शुचपुज्जलनुबंध
 तेशुचपणाने निश्चेनयथी पुण्यकहियें अने तेनो अनुजागजे नोगनोगववारूप प्रदे
 शनेविपेते पुण्यतुंव्यवहारनयजाणवुं.

हवेपापनुनिश्चे व्यवहारकहेठे जेअदत्तदलनीवर्गणा एटले अविरतिने संयोगेंम
 व्याजे कर्म तथा अत्रतिनेसंयोगें वर्त्तमानथका अशुचपुज्जलनोबंध तेनिश्चेथी पापक
 हियें अनेपापवर्गणा उदयावलीमांआवे तद्रूप व्यवहारनुं जेप्रवर्त्तन तेव्यवहारपा
 पपणुकहियें एरीतें पापतुं निश्चेव्यवहारपणुकसुं.

हवेआश्रवतुं निश्चेव्यवहारपणुकहेठे मिथ्यात्व अत्रत प्रमाद विषय कषायना
 जे दल तेनारसंकरी अत्मासकंपमानथाय अनेते मिथ्यात्वादिकना रसंकरी जीवना

अध्यवसाय अशुभथाय तेऽप्राश्रवणं निश्चैपणुंजाणुं अनेजे मिथ्यात्व अविरत्यादि कपांचेना प्रवर्तना गुणथी कर्मग्रहणथाय ते आश्रवणं व्यवहारपणुंजाणुं.

हवेसंवरनो निश्चैव्यवहारपणुं कहेते जेऽप्रात्माना योगरुंधवेकरी स्थिरपरिणा मथाय तेसंवरणुं निश्चैपणु अनेपांचमहात्रत्यादिकनेवेषे प्रवर्तवुं ते व्यवहारसंवर.

हवेनिर्झरानुं निश्चैव्यवहारकहेते जेसम्यक्तचावैकरी शुद्धयोगथी इत्तानिरोधकर वुं आशावांठारहित तपैकरीने जीवनाप्रदेशथी कर्मपुञ्जलनुंखिरवुं नरतचक्रवर्तिनी परे तेनिश्चैथीसकाम निर्झराजाणवी अनेबारनेदे तपनोकरवुं तेतपनीजे सम्यक्तस हित प्रवर्तनरूप करणीते व्यवहारसकाम निर्झराजाणवी.

अनेजे मिथ्यात्वसहित बालतपकरवुं पणतेमां प्रगटपणे आशावांठानहोय ताम लितापसनीपरे तेनिश्चै अकामनिर्झराजाणवी एअकामनिर्झरानोकर्ता शुभयोगीठे पणशुद्धयोगीनथी केमके अंतरंगथी पुञ्जलनर्म गयोनथी आत्मानुं अनुभवरस चा ख्योनथी पणसंसारथी उदासीनताथयीठे तेअकामनिर्झरानुं निश्चैपणुंजाणुं अ नेजे परवशपणे शुषट्पादिकनुं खमवुं तेव्यवहार अकामनिर्झराजाणवी एथीजी वप्रदेश उज्वलथाय पणतेनापरिणाम कर्मबंधहेतुजाणवा इति

हवेबंधनुं निश्चैव्यवहारपणुंकहेते जीवनाप्रदेशनेविषे जे पुञ्जलबंधथयी प्रयोग सापणे परिणामिने सत्तापणेजीवनीसाथेठे तेसमुच्चयजीवआथी शुभ अशुभ अध्यव सायैकरी जेशुजाशुजबंधतेनिश्चैबंधजाणवुं तेमांपण सम्यक्तवंत व्रतनाथणीनो जे शुभ अध्यवसाय तेकर्मनिर्झरानुं कारणे पणशेषपातलाकर्मजेरह्या तेशुजबंधजाणवो पण इहांबंधनुंहेतु सम्यक्तादिकनथीमाटे तेनेनिश्चैबंधकहिये अनेतेशुजाशुजबंधथी आत्मा ना अध्यवसायपलटे तेअध्यवसायनुं प्रवर्तन तेणेकरीबंधजाणीये जेममद्यपानी पुरु षने मद्यपानथी लहेरप्रवर्ते तेम गतिजात्यादिके बंधनुंप्रवर्तवुं तेव्यवहारबंधजाणायठे

हवेमोक्षनो निश्चैव्यवहारपणुंकहेते जीवनासर्वप्रदेशथी समस्तकर्मपुञ्जलनुं मू काववुं तेनिश्चैमोक्षजाणवुं अनेसिद्धनेविषे प्रवर्तनरूप व्यवहारनथी अकम्मस्त ववहारो नविश्रइ तेनिश्चैमोक्ष अनेजे ज्ञान दर्शन चारित्रादिमोक्षमार्ग तेमांहे प्रवर्तवुं ते व्यवहारमोक्षदेखायठे जोपणमोक्षने व्यवहारदेखातुंनथी तोपणज्ञानादि कनुं प्रवर्तनरूप तेव्यवहारपणुं संजवेठे तत्वसर्वज्ञेयं जिनवचन अनंतनयात्म कठे माहराजेवा मंदमतिजीवने समजवुंकठणठे ए नवपदार्थनुं निश्चैव्यवहार कहुं.

एनिश्चैव्यवहारनुं लक्षणकहेते जेपदार्थचिंतविये तेपदार्थनुंजे अन्यंतरगुण एट जेतेपदार्थनोनिजस्वभाव तेनिश्चैजाणवुं जेमजीव सिद्धसमानठे तेअन्यंतरगुणकहिये

तेनिश्चं अनेतेहिज वस्तुनोजेवाद्यप्रवर्त्तन तेनेव्यवहारकहियें तेव्यवहार शुच त थाअशुच मलीवैप्रकारेंठे अने शुद्धाशुद्धव्यवहारनो जेदआगल सातनयमांकहेते.

हवेनवपदार्थना इव्यजावकहेठे तेमां प्रथमजीवनो इव्यः असंख्यात्प्रदेशात्म कं तेइव्यजीवकहियें अनेजीवनोजे ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्यते जावजीवकहियें प एइव्यधिना जावजीवते निन्ननथी इव्यजीवनोजेगुण तेजावजीव जेमशाकरमिश्रि तइव्य तेनोमीगोस्वाद तेहनेजेमजावकहियें जेमशाकरथी मीगासपणुंनिन्ननथी ते मइव्यथी जावनिन्ननथी तेजावजीवनीगाथा श्रीउत्तराध्ययनना अतथावीसमांअध्य यने कहीठे नाणंचदंसणंचेव चरितंचतवोतहा ॥ वीरियंउवउंगोय एयंजीवस्सक णं ॥ १ ॥ एजावयीजीवकह्यो एरीतेंजीवनोइव्यजावकह्यो

हवेअजीवना इव्यजावकहेठे तेअजीवइव्यपांचठे एकधर्म वीजोअधर्म त्रीजो आकाश चोथोकाल पांचमुंपुज्ज एपांचइव्यनुं इव्यपणुं तेआवीरीतें जे धर्म अ धर्म अने आकाश एत्रणइव्य ते एकेकठे तथाकालइव्यएकठे अने अनंतापण कालइव्यठे तथापुज्जलपण अनंताइव्यठे एपांचेअजीवइव्यनुं अचेतनपणुंठे तेइ व्य अने जावथी चारइव्यअरूपी अनेएकपुज्जइव्यरूपीठे एजावजाणवो तथाधर्मा स्तिफायनो गतिसहाय गुणएमइव्यना निजस्वजावनेपण जावअजीवकहियें.

हवेपुण्यना इव्यजावकहेठे जेअशुचयोगसाथें अशुचपुज्ज चौफरसी प्रयोगशाप णो परिणमिरहाठे तेइव्यपुण्यकहियें अनेजे अशुचपुज्जलनोरस जीवतथा शरीरनेपरि णमे तेवारेचोक्ता आढहादपामे चित्तमांहर्पपामे शातामाने तेजावपुण्यकहियें.

हवेपापना इव्यजावकहेठे जेअशुचयोगसाथें अशुचपुज्ज चउफरसी प्रयोग शापणे परिणमिरहाठे तेइव्यथीपापकहियें अनेजे अशुचपुज्जलनुं रस जीवतथा श रीरने परिणमे तेवारेजीव विपादपामें दुःखमाने तेजावपापकहियें जेइव्यतेपुज्ज अने जावते पुज्जलनारसजाणवा.

हवेआश्रवना इव्यजावकहेठे इव्याश्रवते १ मिथ्यात्वमोहनीयकर्मना दलिया ते मिथ्यात्व आश्रवनाो व्यवहार मिथ्यात्वइव्याश्रव अने २ अप्रत्याख्यानिया कपाय नादल तेव्यवहारइव्य अत्रतआश्रवकहियें ३ विषय तथाप्रत्याख्यानी कपायनादल तेइव्यप्रमादाश्रवकहियें ४ कपाय आश्रवनादलते संज्वलनीकपायनादल ५ यो गाश्रवनाो तेइव्यनामकर्मथी नीपना जेमनवचनकायाना योगतेना प्रयोगशा पुज्ज लनादल तेमांहेमोहनीयकर्मना दलमिले तेअशुचयोगाश्रवनुंइव्य ६ नामकर्मनाद

जते शुनयोगाश्रवणुं डव्य इति डव्याश्रवकह्युं तथा मिथ्यात्व अविरतादिक पांचने उदयेकरि जीवना जे नानाप्रकारना शुनाशुन अथ्यवसायथाय तेजावाश्रवकहिये.

हवेसंवरना डव्यजावकहेठे जेदेशथकी योगनुंरुंधवुंते देशसंवरनोडव्य अने जे सर्वथी योगनुंरुंधवुंते सर्वसंवरनोडव्य एमयोगनुंजेरुंधवुं ते संवरनोडव्यकहिये ए टलेयोगरुंधी नवाकर्मनबांधे ते संवरनुडव्य अनेयोगरुंधनथी जीवनीजे अकंपअवस्थाथाय स्थिरपरिणामपणोरहे ते जावसंवरकहिये तेमांपण देशथीअकंपअवस्था ते देशजावसंवर अनेसर्वथी अकंपमान शैलेसीअवस्थानोधरवोते सर्वजावसंवर.

हवेनिर्जरानो डव्यजावकहेठे जेजीवनाप्रदेशथी कर्मनोखिरवोते डव्यनिर्जराक हिये अने कर्मनाप्रदेशखिरवाथी आत्मानेजेजे निजगुणनी लब्धि प्रगटथाय एटले कर्मप्रकृति खिरवाथी जेज्ञानादिकगुणनी लब्धिनुंप्रगटथावुं आत्मानुंउज्वलपणुंप्र गटे तेने जावनिर्जराकहिये.

हवेबंधनाडव्यजावकहेठे जेप्रकृतिबंधादिकचारनीवर्गणा एकेकआत्माना प्रदेशउ पर रोजीनूतथयीरहीठे ते डव्यबंध अने ते डव्यबंधथी जीवना परिणाम गतिजा त्यादिपणे जेम अहंपुरुष अहंस्त्री इत्यादिकतेजावबंध जाणवुंइतिबंध.

हवेमोक्षना डव्यजावकहेठे जेसकलकर्मदलरूप मल कलंक आत्माथीठांडवुं अने कर्मवर्गणाथी आत्माने निन्नकरवुं जेम हेमथीमलशोधवो तेम कर्ममलरहि तथावुं तेडव्यमोक्ष अने कर्ममलखपाव्याथी अनंतचतुष्टयजे निजगुण स्वरूपते जावमोक्ष इति एरीतेडव्यजावथी नवतत्वकह्या तेडव्यजावनुं लक्षणकहेठे जेबा ह्यवस्तुतेडव्य तेडव्यथीजे वस्तुनोनिजस्वरूपते जावकहिये.

हवे सामान्यविशेषपणुकहेठे तेमांप्रथम जीवनो सामान्यविशेषकहेठे जीव नुंसामान्यपणुंते जेम ठाणांगें एगेजीव इतिसामान्य अनेजीवाडुविहा तसाथावरा तथा सिद्ध संसारी वलीजीवा तिविहा इति पुरसा नपुंसगा तथा जीवचउविहा पं चविहा ऋविहाइ इत्यादिक जीवनेविशेषपणाथीजाणवुं ते जीवनोविशेष अनेचेदां तर संक्रमणमां जेजेवचनबोलिये तेतेवचन सामान्य विशेष श्रीअनुयोगदारे कहुं जेमडुविहाजीवा एवचन ते एगेजीवे एवचननुंविशेषपणुं जाणवुं अने डुविहाजी वा तसाथावरा तेमां तसाएसामान्यशब्द अनेते तसा चउविहा बेइंदिया तेइंदिया चउरेंदिया पंचेइंदिया एमकहेवुंते विशेषकहिये तेमज थावरएसामान्य अने थावरापं चविहा एमविवहाकरवीते विशेषजाणवुं एसामान्य विशेषनो धणोविस्तार श्रीअनु योगद्वारसूत्रथी जाणवो इहांअथनोविस्तार धणोवधे माटे सामान्यपणोकहुं.

हवेअजीवना सामान्यविशेषकहेते जेम एगेअजीवे इतिसामान्य तेमज अजीवाडु विहा तिचिहा चउविहा पंचविहा इत्यादिकविशेषपणानो विस्तारजीवनीपरंजाणवो.

हवेपुण्यनासामान्यविशेषकहेते जेम एगेपुत्रे इतिसामान्य अने पुन्ननवविहा ए मकहेवुं इत्यादिकतेपुण्यनुं विशेषपणुंजाणवुं इतिपुण्यनुं सामान्य विशेषकहुं.

हवेपापनुं सामान्यविशेषकहेते जेम एगेपापेइतिसामान्य अने पांचठारसवाणा इतिविशेष एटलेपापने एकप्रकारंमात्रपाप एटलुंजकहेवुंते पापनुंसामान्यपणुं अने पाप अठारप्रकारंबंधाय एमविस्तारसहित कहेवुंते पापनुंविशेषपणुंजाणवुं इति.

हवेआश्रवना सामान्य विशेषकहेते श्रीवाणांगें एगेआस्सवेइतिसामान्य अने वां पांगमांज पंचआस्सवद्वारा एमकहुंते ते आश्रवनुं विशेषपणुंजाणवुं इति.

हवेसंवरनुं सामान्य विशेषकहेते एगेसंवरे इतिसामान्य अने पंचसंवरद्वारा एम कहेवुंते संवरनुं विशेषपणुंजाणवुं इति.

हवेनिर्जराना सामान्यविशेषकहेते एगेनिर्झरें एसामान्य वचनजाणवुं अनेनिर्झ राअणोगविहा सकाम अकाम इत्यादिक विस्तारसहितकहेवुंते विशेषपणुंजाणवुं.

हवेबंधना सामान्यविशेषकहेते एगेबंधे इतिसामान्यवचने बंधजाणवुं अने बंधेच उविहे जेम पंगइबंधे अछकम्म पंगडीठबंधे इत्यादिक वचने विशेषबंधजाणवुं.

हवेमोहना सामान्यविशेषकहेते श्रीवाणांगें एगेमोहे इतिसामान्य अने अछ कम्मपघडीठ खवंति इतिविशेषवचनेकरी बंधनुंविशेषपणुंजाणवुं एसामान्यपणावि शेषपणानुं सुंलक्षणे जेएकवचनमां घणावचन अंतरनूत समावेते सामान्य अनेजे नेदप्रकाशरूपवचन तेविशेषवचनजाणवुं एरीतें नवेंतत्वनुं सामान्य विशेषपणुकहुं.

हवेएकेकापदार्थमां नाम स्थापना इव्य अने जाव एचारचारनिक्षेपा लगाडवा नी रीतकहेते तेमांप्रथम जीवनाचारनिक्षेपाकहेते जेजीवएवुंनामते नामजीव जे मकोश्वस्तुलावीने तेवुंजीवएवुंनाम कहेवुंते नामजीवजाणवुं तथा अजीववस्तुने जीवएवुंनामकहेवुं तेपण नामजीवजाणवुं अने स्थापनाजीवते चित्रामणादिकेंक रीस्थापियें तेस्थापनाजीव तथा जीव अथवा अजीववस्तुनेस्थापिने जीवकहेवुं ते पण स्थापनाजीवजाणवुं.

वजीइव्यजीवते षड्व्यमाहेलुं एकजीवइव्य असंख्यातुप्रदेशात्मकरूप तेइव्य जीव तथाजावजीवते जेजीवना उदय उपशम क्षायक क्षयोपशम परिणामिक ए पांचजावपणे प्रवृत्तेतेजावजीव एमजीवनाचारनिक्षेपाजाणवा.

हवेअजीवना चारनिक्षेपाकहेते अजीवएवुंनामकहेवुं तेनामअजीव थापीनेअ

जीवपणुं देखाडवुं ते स्थापनाअजीव जेजडरूपते अजीवइव्यपांचठे ते इव्यअजीव अनेजे धर्मइव्यप्रमुखना गतिसहाय स्थितिसहाय अवकाशगुण वर्त्तमानगुण पुज्जना वर्णगंधादिकगुणते नावअजीव एटलेइहां पांचइव्यना सज्जावगुण तेसर्व अजीवना नावजाणवा इतिअजीव.

हवेपुण्यना चारनिहेपाकहेठे पुण्यएवुं नामते नामपुण्य अने अहूरादिकें कप्पदिंकादिकें करी स्थापियें ते स्थापनापुण्य अनेजे शुनकर्मप्रकृतिनीवर्गणा जीवनाप्रदेशनी साथें परिणमि तेइव्यपुण्यकहियें तथा पुन्यतेशुनकर्मप्रकृतिना उदयथी जीवआल्हादपणुंपामे शातापणे जीवने आनंदपणे परिणमेते नावपुण्यजाणवुं इति

हवेपापना चारनिहेपाकहेठे जेपापएवोनामकहेवुंते नामपाप अने अहूरादिके कप्पदिंकादिकें करी स्थापियेंते स्थापनापापकहियें तथाजे अशुनप्रकृतिनीवर्गणा इव्यकर्मपणेपरिणमे तेइव्यपापजाणवुं अने अशुनप्रकृतिना उदयथी जेविपवादपणेपरिणमे तेथीजीवना परिणामदूषितथाय दुःखपणे नावपरिणमें तेनावपाप.

हवेआश्रवना चारनिहेपाकहेठे प्रथमआश्रवएवुं नाम कहेवुंते नामाश्रव अनेजे अहूर कप्पदिंकादिक दशप्रकारें स्थापनाते स्थापनाश्रव तथा मिथ्यात्वादिकप्रकृति अप्रत्याख्यानीचतुष्क प्रकृतिआदिक मोहनी तथा नामकर्मनी प्रकृतिनाजेदल आत्मासाथें जोलीनूतथइरहाठे तेमांहे कर्मरूपपुज्जल ग्रहणकरवानी शक्तिठे ते प्रयोगसापुज्जने इव्याश्रवकहियें तथा आश्रववंतजीवना शरीरनेपण इव्यनिहेपें आश्रवनुंइव्यकहियें एरीतेइव्याश्रवना नेदघणाठे अने मिथ्यात्वादिक कर्मप्रकृतिनाउदयथी जेजीवनानावपरिणमें तेनावने नावाश्रवकहियें इतिआश्रव.

हवेसंवरना चारनिहेपाकहेठे संवरएवुं नामकहेवुंते नामसंवर अने स्थापनासंवरते पूर्वआश्रववत्जाणवुं तथा इव्यसंवरते सम्यक्तिदेशव्रतिआदिकविषे जीवना प्रदेशने कर्मप्रकृतीनुंजे आगमन तेनेनिरुंधवुं तेइव्यसंवरकहियें अनेजे आत्मानुं अकंपतापणुं देशथी तथा सर्वथीथाय तेनेनावसंवरकहियें इति.

हवेनिर्जराना चारनिहेपाकहेठे तेमां नाम तथा स्थापना एवेतोपूर्ववत्जाणवा अनेइव्यनिर्जराते जीवनाप्रदेशथी कर्मवर्गणानुं खिरवो तथाकर्मखपावे तेजीवनेपण इव्यनिर्जराकहियें तथानावनिर्जराते आत्माउज्वलथाय तेथीलब्धिउपजे झानलब्धिह्योपशमलब्धि ह्यायकलब्धि इत्यादिकप्रगटे तेसर्वनावनिर्जराकहियें.

हवेबंधतत्वना चारनिहेपाकहेठे तेमांपणनाम तथा स्थापनातो पूर्ववत्जाणवां अनेजे कर्मवर्गणानादल आत्मासाथेंलागाठे तेइव्यबंध तथा तेइव्यबंधथी जी

वनाजावते कर्मनीश्रवस्थापणे परिणमें जेमड्व्यमद्यपानथी जीवनेठाकचढे तेठा कसमान बंधजाणवो तेनेजावबंधकहियें इति.

ह्वेमोहना चारनिहेपाकहेढे तेमां नाममोहू तथा स्थापनामोहूतो पूर्ववत् जाणवां अने निर्मलजीवते ड्व्यमोहूजाणवुं वलीआत्माना निजगुणजेहायकज्ञान दर्शनते जावमोहूजाणवुं इति एरीतेंनवपदार्थनेविपे चारनिहेपा संहेपथीकह्या जे जीवनुंब्याख्यान निहेपाथी वर्णनकरियें एटलेप्रथमनाम पढेस्थापना पढेतेवस्तुना ड्व्यबतावियें पढेतेना निजगुणनो विवरोकहियें एमएकेकपदार्थ चारचारप्रकारें नि हेपियें तेनेनिहेपाकहियें केटलाकअन्यजेदथीपण निहेपाकहेढे तत्वसर्वज्ञगम्यं.

ह्वेनवपदार्थना ड्व्य क्षेत्र काल अने जावकहेढे तेमांप्रथम जीवड्व्यनो ड्व्य क्षेत्र काल जावकहेढे जीवड्व्य ड्व्यथीअनंताड्व्यते क्षेत्रथीलोकप्रमाण का लथीअनादिअनंतते तेनापर्यायजेदथी चारजांगाथायते जावथी अरूपीजाव झा नदर्शन चारित्र तप वीर्य उपयोगमयीढे इति.

ह्वेअजीवते ड्व्यथीसामान्यपदें पांचड्व्यते अनेविशेषपदें धर्म अधर्म आका श एत्रणएकेकड्व्यते अनेकालपुजलएवे अनंता अनंताड्व्यते अनेक्षेत्रथी चारड्व्यलोकप्रमाणते तथा पांचसुं आकाशड्व्य लोकांलोक प्रमाणते कालथी अणाइए अपरुवसिए अणाइएसपरुवसिए एवेजांगा तथापर्यायापेहायें श्रेणीप्रतरापेहायें त्रीजोचोथोनांगोपणते परंतु मुख्यव्यक्तव्यता कालथी अनादिअनंतते तथा जावथी चारड्व्यतो अरूपी अचेतन अक्रियजावपणते अने एकपुजलड्व्य रूपी सवने स गंधे सरसे सफासे अचेतन सक्रियजावते इतिअजीव.

ह्वेपुन्यते ड्व्यथी पुजलड्व्यते तेसामान्यपदेतो एकड्व्यते अनेविशेषपदें अनं ताजीवोना पुण्यप्रकृतिनादल अन्योन्यते एटलेसुदासुदाते तेमाटेअनंताजीवोना अनंतापुण्यड्व्यते तथापुण्यप्रकृतिनारस निन्ननिन्नते तेमाटेविशेषपदें अनंताड्व्य ते अनेक्षेत्रथी एकजीवनीअपेहायें पुण्य असंख्यात प्रदेशीक्षेत्रावगाहीढे अनेसर्व जीवनी अपेहायें लोकाकाशप्रमाण क्षेत्रावगाहीपुण्यते वली कालथी बंधनीस्थिति ने अपेहायें साइएसपरुवसिए तथा जावथीरूपी चौफरसी शुचपरिणामी इति.

पापड्व्यनेपण ड्व्यथी क्षेत्रथी कालथी तो पुण्यनीपरेंकहेढुं अनेजावथीरूपी पांचवणीं वेगंध पांचरस तथाअशुचपरिणामी चारफरसकहेढुं इतिपापतत्व.

आश्रवने ड्व्यथी मिथ्यात्व अविरतप्रमाद कपाययोगनाजेदल जीवनीसाथेंते जे नवाकर्मने आकर्षणकरेते तेआश्रवनुंड्व्यते एमअनंताजीवोनी अपेहायें अनंता

आश्रवणव्यते तथा क्षेत्री लोकाकाशप्रमाण आश्रवणुं क्षेत्रे अनेकालथकी साइए सपञ्जवसिए तथा जावथी जीवनाअव्यवसाय तेअरूपीने जावथीजाणवा.

संवरना इव्यथी अनंतासंवरइव्यते केमके सिद्धनासर्वजीवोमां निश्चेसंवरसंन वेठे ते ह्यायकसम्यक्तनी अपेहायें सम्यक्ततेसंवरठे तेमाटे अनंताइव्यते तथा सम्यक्तसंवरी अशंख्याताजीवइव्यते देशसंवरनी अपेहायेंपण असंख्याताइव्यते वली व्यवहार चारित्रसंवरनीअपेहायें संख्याताजीवइव्यते एसर्वइव्यथी संवरजा एवुं अनेक्षेत्रथी त्रसनाडीप्रमाण संवरनोक्षेत्रठे तथा कालथी साइएसपञ्जवसिए सिद्धनानिश्चेसंवरनी अपेहायें साइएअपञ्जवसिए ठे अने जावथी अरूपी इतिसंवर.

निर्जरी इव्यथीनिर्जराते जीवइव्य तथा निर्जखा जेकर्मपुजल तेप्रकारांतरपणे परिणम्यानही तिहांलगण तेनिर्जखापुजलने इव्यथीनिर्जराकहियें क्षेत्रथीजीवप्रमा ए कालथी साइएसपञ्जवसिए जावथीअरूपी तथा आत्माउज्वलपणेशाय ते.

बंधतत्वमां इव्यथीबंधते आठकर्मनीवर्गीणानापुजल आत्मासाथें बंधथयाते इ व्यथीबंधकहियें क्षेत्रथी असंख्यातप्रदेशावगाहीबंध कालथी साइएसपञ्जवसिए अ नेजावथीबंधरूप पुजलानुंसारजावथाय तेजावबंधकहियें इति.

मोहूतत्व इव्यथीसिद्धक्षेत्रमां बिराजमान आत्माचिद्रूप अनंताइव्य अनेक्षेत्रथी एकसिद्धआश्रयीतो जवन्य एकहाथने आठअंगुल तथा मथ्यम चारहाथने शोलअंगुल उत्कृष्ट ३३३ धनुष्यने ३१ अंगुल क्षेत्रजाणवुं तथासर्वसिद्धोनी अपे हायें पुस्तालीसलाखयोजनलांबो अने पडुलो तथा ३३३ धनुष्य अने ३१ अंगु गुल उंचो एटलोमोहूक्षेत्रठे अनेकालथी साइएअपञ्जवसिए तथासुक्तिक्षेत्रअपेहायें अणाइएअपञ्जवसिए अनेजे ज्ञानदर्शनादिकगुण प्रगटथयाते जावथीमोहूजाणवुं.

हवेनवेपदार्थमाहेला एकेकापदार्थनेविषे १ प्रत्यह २ अनुमान ३ उपमा ४ आगम एचारचारप्रमाणकहेठे जेप्रत्यहआगल वस्तुदेखियें तेप्रत्यहप्रमाण अने अ नुमानेकरी वस्तुनेजाणियें जेमधुमाडाथीअग्नि इत्यादिक अनेकहेतुयेंकरीजाणवुंते अनुमानप्रमाण अनेजेवस्तुने साधर्मिकवस्तुनी उपमाकरीजाणे जेमआसरोवर समु इसरिखोठे पाणीनुंबिंडु मोतीसरिखुं इत्यादिकउपमाप्रमाणजाणवुं पणउपमांवेप्रका रथीकहेवाय एकदेशोपमा बीजीसर्वोपमा तेमांदेशोपमाजेमपुरिससिहाणं पुरिसव रपुंडरियाणं पुरिसवरगंधहृत्तिणं इत्यादिकदेशोपमा अनेबीजीसर्वोपमाते जेम संसा रसायरेधोरे जेणंपडइडुरुत्तरेः इत्यादिकसर्वोपमा अने आगमप्रमाणते जे इंडिय त थामनथी परोहवस्तु ने आगमनावचनथीजाणवी जेमदेशप्रदेशना जांगापरमाणुं त

था साधारणवनस्पतिनो विचारजाणवो तेऽगमप्रमाण एरीतंचारप्रमाणते एकेका पदार्थउपरजाणवानेकहेते.

प्रत्यक्षजीवते चेतनालक्षणपणुं अने अनुमानप्रमाणते बाल युवान वृद्धपणेप्र वृत्ते जेमदशकालिके चतुर्थीध्ययने अजिक्तं पडिक्तं संकुचियं पसारियं रूपं चं त तसियं पलाइयं आगइ गई इत्यादिकत्रसजीवोने जाणवानां अनुमानकह्यांते ते मज्जं स्थावरना अनुमानपण श्रीआचारांगे प्रथमश्रुतस्कंधे शंखपरिज्ञाअध्ययने वं नस्पतिवृक्षादिकना जीवसद्वहवानेअर्थे अंकूरादिकथीलेइ अनुमानप्रमाण गणधरें वताव्या तेअनुमानप्रमाणी जीवजाणियें तथाउपमाप्रमाण ते जीवअरूपीआका शवत् ग्रह्योनजाय जीवअनादिअनंत जेमधर्मइव्यादिक सास्वता तेमजीवपणसास्व ता इत्यादिक उपमायेंकरी जीवनुंठतापणुकहेवुं तेउपमाप्रमाण अनेवली उपमायें करी जीवनोठतापणुं अनादिपणुं हेतुयेंकरी दृढावियेंतेनीरीतकहेते:

ईश्वरवादीकहेते जीवनोकर्त्ता ईश्वरते सयंचुणाकमेलाए इत्यादिकवचनेकरी जी वनोकर्त्ता ईश्वरकह्योते एमकहेवाथी जिनवचननी विरुद्धतायइ कैमके जिनराजें तो जीवनेअनादिकह्योते माटेईश्वरवादीनेपुठवुंजेतमे ईश्वरकर्त्ताकह्योतो तोईश्वरनुं पणकर्त्ताकहेवुंजोते अने ईश्वरनुकर्त्ताजो परिव्रह्मनीज्योति कहेसोतो परिव्रह्मनुंकर्त्ता पण कोइकजोइयें इत्यादिकवचनवणांते तेलिखताग्रंथवधे माटेतेवीजाग्रंथोथीजा णिलेवा जेमपरिव्रह्मनी ज्योतिअनादिते तेमजीवअपणनादिने इत्यादिकउपमायेंक री जीवनुंसास्वतपणुंदेखाडवुं तेउपमाप्रमाणकहियें.

तथाउपमायेंकरी जीवनुंस्वरूपकह्युं जेमतिलमांतेल अने इग्धमांघृत इहुमांर स तेमकायामांजीव इत्यादिकउपमायें जीवनुंठतापणुकहेवुंते उपमांप्रमाणजाणवुं.

हवेजीवनुं आगमप्रमाणकहेते जेमआगममां गणधरेंकह्युं कम्मकत्ताअयंजीवो कम्मठिताविजीवसुरोयवो अरूचीनिच्चअणाइउ अगुरुलद्दुगुणजीवाणं ॥ १ ॥ जी वकर्मनोकर्त्ताते कर्मनोचोक्ताते अरूपीते नित्यते अनादिने अगुरुलधुगुणते एरीतें जीवनांलक्षणकह्यां तेआगमप्रमाणी जीवनुंस्वरूपजाणवुं तथाएकजीवनाप्रदेशे जे आकाशप्रदेशमांअवगाह्या तेहांअनंताजीवना प्रदेशअवगाहे तथासाधारणवनस्प तिमां एकवाजाग्रमात्रअंसमां अनंताजीवते तेमएकशरीरमां अनंताजीवते इत्या दिकआगमप्रमाणी जीवनेसद्वहिये तेआगमप्रमाण जाणवुं इति.

हवेअजीवना चारप्रमाणकहेते अजीवनुं प्रत्यक्षप्रमाण तोजडलक्षणथी जाणु जायते तथा जीवथीविपरीत जमपुञ्जस्वजाव अनेवर्णगंधादिकदेखायते पणहाथमां

आवेनही मिलणविखरण स्वभाव प्रत्यक्षदेखायते तेप्रत्यक्षप्रमाण अनेअनुमानप्रमाणथी नवजीर्णपणुं पलटणस्वभावपणुदेखीने जाणियें जे एपुजलते तथाजीवपुजलने गतिसहाय स्थितिसहाय अवकाशदेवाना प्रमाणथी जाणियेंतैयेंजे एअजीव अरूपीनुंगुणते जेमजीवपुजलने सकंपमानदेखीने अनुमानेथी धर्मइव्यनो स्वभावजणायते अनेअकंपमानदेखीने अनुमानथी जाणियेंतैयें जे एअधर्मइव्यनो स्वभावते तेमज जीवपुजलमाहोमांहे मव्यादेखीने अनुमानेजाणियेंतैयेंजे एआकाशइव्यनोस्वभावते तेमज एकइंधनो वाटको किनारासुधीजरियें जेमां एकबुंदपणबीजुंडुध समायनही एवोठासीनेजरियें पणतेमां साकरवाटीने नाखियें तो समाइजाय एआकाशनोगुण अनुमानेजणायते एमअनुमान प्रमाणथी सर्वअजीवइव्य जाणयाजायते.

तथाउपमाप्रमाणते जेमइंधनुष्य संख्याराग पलटते तेमपुजलनोरंग अस्थिरते पलटनस्वभावते जेमगजकर्ण अथिरते तेमपुजलपण अथिरते इत्यादिक अनेकउपमायेंकरी पुजलनो स्वभावदेखायते तेउपमाप्रमाणथी पुजलनुंस्वरूपजणायते पुजलनोरंगपलटयोदेखीने उपमाआपियेंते उपमाप्रमाणजाणवुं अनेचोथोआगमप्रमाणते जेमअजीवना खंध देश प्रदेश तेचारइव्यनाकह्या अनेपांचमा पुजलइव्यमां परमाणुंआदि खंधप्रवर्तना इव्यगुणपर्यायनाकथन जेमसूत्रमां परुष्या वली परमाणुनीअपेक्षायें एकवर्ण एकगंध एकरस वेस्पर्श अने परमाणुनीरासीमां पांचमर्ण बेगंध पांचरस चारफरस एसोलनापर्यायनी एकगुणथीमांमीने यावत अनंतगुणपर्यंत व्याख्याकरवी तेनेआगमप्रमाणथी पुजलजाणियें.

पुजलनावर्णादिकनीपर्याय पुजलथीजिन्ननथी जेमसाकरइव्य अने साकरनो मीठोरसजिन्ननथी पणइव्यगुणपर्यायना व्याख्यानमां इव्यपर्याय वचनयोगथी जिन्नकहेवामांआवेते जेमसाकरमीठी आंबलीखाटी एसंबंधवचनथी जिन्नदेखायते पण आगम प्रमाणथी इव्यगुणपर्याय तेएकजवस्तुमांते पण जूदाजूदानथी एआगमप्रमाणनो विस्तारघणोते तेनोअधिकार श्रीजगवतिसूत्रना वीसमांसतकमां नांगाकह्याते तिहांथीजोवुं आगमप्रमाणजाणवुं.

हवेधर्मास्तिकायना खंधदेशप्रदेशना इव्यगुणपर्याय आगममांकह्याते जेमधर्मइव्यना एकप्रदेशमां अनंतिपर्यायते केमके अनंताजीवपुजलने गतिसहायआपेते तेमांपट्टगुणहाणीवृद्धिते तथाउत्पादव्ययअनेध्रुवना पर्यायेंकरीसंयुक्तते तेधर्मइव्यनो आगमप्रमाणजाणवुं एमजअधर्मइव्य स्थितिसहायकारीते शेषधर्मइव्यवतुंजाणवुं तेमजआकाशइव्य सदाअवकाशनुंदेवावाळुंते आकाशनो अरूपीपणुं अचेत

नपणु अनंतपणु इत्यादिकआगमथीजाणियें तेआगमप्रमाणकहेवुं वलीकालइव्य
नुपणु एमजअरूपी अचेतनपणु अनंतपणु अप्रदेशीपणुठे पणवस्तुने नचजीर्णथ
वानुं साह्यकारीठे तेएकसमयमां अनंतिपर्यायठे केमकेतेहिजसमय अनंताजीव
पुज्जलंउपरवर्त्ते इत्यादिकविस्तारें अजीवनाचेद आगमप्रमाणथीकह्या इति.

हवेपुण्यना चारप्रमाणकहेठे जेमनोझशब्द मनोझरूप मनोझगंध मनोझरस
मनोझपरस मनसुख वचनसुख कायसुख एआठप्रकारनी सातावेदनीते प्रत्यहप्र
माणे पुण्यजाणवुं तथा अनुमानप्रमाणेतो रुद्धि संपदा रूप वज जाति कुल ई
श्वरता अधिकदेखीने अनुमानथीजाणियेंजे पूर्वेणोपुण्यघणाकस्यांठे जेम विपाक
सूत्रें सुवाहुकुमरनो सौभाग्यदेखीने गौतमादिकसाधुयेंजाणुंजे एकुमरेंपूर्वे महोटापु
ण्यकीधांठे तेपुण्यनुं अनुमानप्रमाणकहियें.

हवेपुण्यनो उपमाप्रमाणते जेमपुण्यवंतजीवनेपुण्यवंतनी उपमाआपियें तेउ
पमाप्रमाणथी पुण्यफलजणाय जेमउचराध्ययनना एकवीसमांअध्ययने पासाएकी
लेईरम्वेदेवोदोगंदगोजहा तथा चंदोइवताराणं नरहोइवमणुयाणं इंदोइवदेवाणं ए
वीउपमा जेहनेआपियें तेनाअधिकपुण्यजाणियें इति.

हवेपुण्यनो आगमप्रमाणते शुचप्रकृतिने शुचयोगथीबांध्या पुण्यबंधथायठे जेम
ठाणांजे चतुर्थस्थाने सुचिन्नाकमा सुचिन्नाफलानवति इत्यादिक आगमवचनथी शु
नबंधने पुण्यकहियें तेआगमप्रमाण तथाआगमवचनथी पुण्यनाचेदजाणियें जेम
पुण्यप्रकृति ते उंचगोत्र शुचवर्णादिक अनेस्थितपुण्यते दीर्घदेवासु मनुष्यासु वलीअ
नुनाग तेपुण्यनारसनीहानिवृद्धि जेमपाणीमां मिश्रीथोमीनाखे तोपाणीथोडोमिगे
थाय अने घणीमिश्रीनाखे तोघणोमीठोथाय तेमपुण्यनापण अनुनाग तथारसमां
पट्टपुण्यहानिवृद्धिठे तेपुण्यप्रकृतिमां अनंतिपर्यायठे पुण्यरूपदलनी वर्गणा अ
नंतिठे जेमदेवासुतेपुण्यप्रकृतिठे पणतेमांकालापेह्यायें चौठाणवलिधांठे माटेजेमजे
म शुचयोगव्यापारनीवृद्धि तेमतेमपुण्यनीवृद्धि इत्यादिक आगमप्रमाणथी पुण्यजा
णवुं तथापुण्यानुबंधीपुण्य जेमतीर्थकरने अने पुण्यानुबंधीपाप हरीकैसीमुनिराजने
पापानुबंधीपुण्य जेमगोशालाने तथाअनार्यराजाथोप्रमुखने तथा पापानुबंधीपाप
जेम नारकीमांनागश्रीठे इत्यादिकचेद पुण्यस्वरूपना आगमप्रमाणथीजाणियें.

हवेपापना चारप्रमाणकहेठे पापनाचारप्रमाणपुण्यथीविपरीतपणे जाणवा एटले
जेजीव आठप्रकारनी अशातानोगवतो देखायते प्रत्यहप्रमाणेपापजाणवुं कोइनेक
एडःखनोगवतो देखीनेजाणेजे एणेपूर्वेपापकीधांठे तेअनुमानप्रमाणेपाप तथा जे

म एनारकीनाडुःख सरिखाडुःखनोगवेठे एमकहियेंते उपमाप्रमाणेपाप अनेकर्म
नो प्रकृति स्थिति अनुनाग अनेप्रदेशबंधते अशुनहोय एटलेपुएथी विपर्ययद
लियाहोयते आगमप्रमाणे पापजाणवुं इति.

हवेआश्रवना चारप्रमाणकहेठे जेयोगनाव्यापारनुं सकंपमानपणुंते प्रत्यरूप
माणे आश्रवकहियें वली अनुमानप्रमाणे अत्यागनावने आश्रवकहियें तथा जे
म तलावने गमनालो तथाहवेलीनेवारणो अने नावानेठिड वली सुइनेनाको ए
चारउपमायें जीवनेआश्रवनुं आववुंथाय तेउपमाप्रमाणे आश्रवकहियें तथा जे
अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ एचारकपायना प्रमाणमली दजरूपस्कंधथ
यीने आत्मानाएकेकप्रदेशें वर्गणा चहोटीठे तेवर्गणाने आगमप्रमाणे आश्रवकहियें.

हवेसंवरना चारप्रमाणकहेठे प्रत्यरूपमाणे संवरते योगनिरुंधनने कहियें ते
मांजे देशथीयोगनिरुंधनते देशसंवर तथासर्वथी योगनिरुंधनते सर्वसंवरकहियें इ
त्यादिकविस्तारघणोठे जेमजेमयोगव्यापार निरुंधनथाय तेमतेम सर्वसंवरगुणपुष्ट
थाय अनेजे सावद्ययोगनोत्यागते अनुमानप्रमाण संवर जेमहवेलीनो बारणोरुंध
वाथी माणसआवतां बंधथाय तेदृष्टांतें जीवनेयोगनिरुंधन करवाथी आवताक
मैरोकाय जेमनावानोठिडरुंध्याथी पाणीआवतुंबंधथाय तेमजीवने पञ्चखाणक
री आश्रवनेरुंधे जेमतलावनी मोरीरुंधवाथी पाणीआवतोबंधथाय तेमजीवना यो
गव्यापार रुंधनकरवाथी कर्मनुंआववुं बंधथयीजाय जेमसुइनेनाको रुंधवाथी मांहे
दोरोआवीशकेनही तेमजीवना योगरुंधवाथी कर्मआवतारहे एमउपमाप्रमाण सं
वरकहियें तथाजेआत्मानुं स्थिरतापणुं अकंपपणुं योगव्यापाररहितपणुं देशथी अ
नेसर्वथी योगरुंधनपणेकरी आत्मानिश्रजपणेशाय आत्मापोतानागुणने संयुक्तथा
य तेआगमप्रमाणसंवर आत्मानेकहियें इति.

हवेनिर्झराना चारप्रमाणकहेठे जेवारचेदेतपस्याकरीनेकर्मनुंवेदकरेतेप्रत्यरूपमा
णे निर्झराकहियें अनेवारचेदेतपस्याकरवाथी कर्मनादलियाखिरे तेथी आत्मानिर्म
लथाय तेनिर्मलपणाथकी ज्ञानदर्शनादिक निजगुणप्रगटे जेम मलिनवस्त्र खारपाणी
तथा अग्निनासंयोगें धोवाथी मलटालीने निर्मलथाय तेमजीवण बारचेदे तपस्या
करीकर्मरूपमलनेटाली निर्मलथाय तथाजेम सुवर्णबीजीधातुना संयोगथी मलिनहो
य तेअग्नि टंकणखार कारीगरनासंयोगथी मेलटले तेमवारचेदे तपस्याकरवाथी
आत्मानांथी कर्मरूपमेलखिरे तथाजेम सूर्य अत्रपटलथी ढांक्यो तेज हीन
थाय पठेवायुना प्रयोगथी वादलामिटीजाय तेवारें सूर्यनोतेजप्रगटथाय तेमएसं

सारीजीवना पोताना अनन्तायुणते कर्मरूपमेलथी ढंकाणते तेवारजेदनी तपस्या रूप वायुनाप्रयोगथी कर्मरूपमेलना पडलमटीजाय तेवारेंपोतानायुण प्रगटथाय इत्यादिक उपमार्येंकरी उपमाप्रमाणे निर्झराकहियें.

अनेजे निर्झराथी ज्ञानदर्शन चारित्ररूप पोतानायुणनी वृद्धिथतिदेखाय तथा देवायुप्रमुखमुंपाममुं तेविकलेंडियादिकथी उज्वलपणुंपामुंकहेवाय एमनिर्झराथी जेह्योपशम वृद्धियाय तेअनुमानप्रमाणे निर्झराजाणवी.

तथाजेपुज्जलनी आशावांठारहित इन्नानिरोधन तपकरे ते आत्माने उज्वलपणे सम्यक्तसहित सकामनिर्झराथाय ते आगमप्रमाणे निर्झराकहियें इति.

हवेबंधतत्त्वनाचारप्रमाणकहेडे तेमांजे जीव अने पुज्जल खीरनीरनीपरें लोळी नूतथयीरद्योडे जीव अजीव वेहुमल्या शरीराकार प्रयोगशा पुज्जलपरिणम्या देखा घटे तेप्रत्यक्षप्रमाणे बंधकहियें.

तथातीर्थकर गणधर केवलज्ञानी अने उग्रस्थ मुनिराजना उपदेशसांजले पण संशय व्यामोह भ्रम इत्यादिक अज्ञानजायनही तेथीअनुमाने जाणियेंजे एने मिथ्यात्वादिक कर्मप्रकृतिनोबंध अतिकठिनठे जेम ब्रह्मदत्त चक्रवर्तिने चित्तमुनीश्वरें कह्यो नियाणमसुहंक्कडं इतिवचनात् एम अनेक हेतुथी अनुमानप्रमाणे बंध जाणियें.

तथा सोलप्रकारथीआयु चारगतिनो बंध कह्योडे तेकृत्यविना अनुमानथी गति मांजावो तेपणअनुमान प्रमाणेबंधजाणियें तथा नरकादिकना आब्याना लक्षण देखीने जाणियें इत्यादिक विस्तारथी अनुमानप्रमाणे बंधकहियें.

हवेउपमाप्रमाणे बंधकहेडे प्रकृतिबंधते स्वनावरसनेन्यायें स्थितिबंधते कालमर्यादानेन्यायें अनुजागबंधते सुखदुःखविपाकपणानी पदगुण हानिवृद्धि तेअनुना गरसनी हानिवृद्धि जेमसेरपाणीमां अल्पमिश्रीनाखियें तो अल्पमधुरपणोथाय अने घणीमिश्रीनाखियें तो घणुंमधुरपणुंथाय तेमद्युजकर्मनोरसपण तीव्रमंदपरिणामनी हानिवृद्धिथी कर्मनारसनो तीव्रमंदपणुजणाय अनेअद्युजकर्मना रसपण हानिवृद्धियुक्तठे तेआवीरीतें जेमसेरपाणीमां थोमोनिंबनाखियेंतो थोडोकटुकपणो थाय अने घणोनिंब नाखतां घणोकटुकपणुंथाय इत्यादिकहेतुथी अनुजागबंध रसजाणजे अनेप्रदेशबंधते जीवनाएकेक प्रदेशउपरें अनन्तिअनन्ति कर्मवर्गणारही ठे जेमसोनारनीपासें जोडलजेथायठे तेनापटल परस्परमिलेजाहोय तेमन्यारापण होय तेमकर्मवर्गणाते जीवनाप्रदेशें प्रदेशेंसंघातेंरहे तेप्रदेशबंध कोइजीवने अल्प होय कोइजीवने बहुत्वहोय इतिप्रदेशबंध एउपमाप्रमाणेबंधकह्यो.

हवेआगमप्रमाण बंधकहेते जीवनाद्युजाद्युज अथ्यवसाय युजाद्युजयोग युजा
द्युजथ्यान युजाद्युजलेश्या युजाद्युजपरिणाम इत्यादिकथी बंधथायते तेनेआगमप्र
माण बंधकहियें एरीतेबंधतत्वना चारप्रमाणकह्या.

हवेमोहना चारप्रमाणकहेते तेमांजे देशथी उज्वलययीने सम्यक्ज्ञान दर्शना
दिक गुणप्रगटथाय अनेद्युजप्रकृतिना स्वजावथी अद्युजप्रकृतिना रूपणथी जीव
उत्तमपदजे तीर्थकरादिकपदपामें तेनेप्रत्यक्षप्रमाणे मोहकहियें जेमयातिकर्मखप्या
थी निश्चैमोहते तेप्रत्यक्षप्रमाणेमोहते.

अने अनुमानप्रमाणथी दर्शनमोहनीयकर्मखप्याथी तथा चारित्रमोहनीयकर्म
खप्याथी मोहते एरीतेंजेजाणवुं ते अनुमानप्रमाण मोहकहियें तथाउपमाप्रमा
णते जेम दग्धबीजने अंकुराउगेनही तथाजेम घृतसिंचवाथी अग्रिमंदपणुंपामेनही
तेमकषायनाह्यथी जीववीतरागपणाथी हायमान परिणामि नथाय इत्यादिकअने
करीतथी उपमाप्रमाणें मोहजाणियें अने आगमप्रमाणमोहते अनंतचतुष्टय प्र
गटथया जेमजेम अनुक्रमें सूत्रोक्तकर्मप्रकृतिखपावे तेमतेमजीवना निजगुणनील
ब्धिप्रगटे तेजेम प्रथममोहनीयकर्मनी मिथ्यात्वमोहनी खपावे पठे अनंतानुबंधिया
कषायनीचोकडीखपावे पठेमिश्रमोहनीखपावे पठेप्रत्याख्यानीयानी चोकडीखपावे
इत्यादिकमोहनीयकर्मनी प्रकृतिखपाव्यापठि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतरायकर्म
एरीतेंजेमजेम गुणस्थान मार्गणा गुणस्थानक्रमारोहथाय तेमतेमजीवने मोह
थाय तेआगमप्रमाणे मोहजाणवो इति.

हवेएकेकपदार्थउपर सातनयकहेते तेमांप्रथम नयनुंस्वरूपदेखाडेते जेएकव
स्तुमांअनंतास्वजावते तेअनंतास्वजावनीजे प्रकृतिस्वजावरूप वचनबोलवुं एटजेव
स्तुनाप्रत्येकप्रत्येक गुणपर्याय अवलंबीने जेवचनबोलवुं तेनेनयकहियें.

दृष्टांत जेमकोइकेपुठयुंजे धान्यशाथीनीपजेते तेवारें एकेकह्योउदकथी बीजेक
ह्योपृथ्वीथी त्रीजेकह्यो हलथी चौथेकह्योबलदथी पांचमेकह्योबीजथी षठेकह्यो रु
तुथी सातमेकह्योनाग्यथी एसर्वएकेक अंशग्राही शब्दबोल्या तेसर्वएकेकादेशेंसत्यते
पणसर्वदेशें सत्यनथी तेमएकनयनोपहते एकदेशवाचकठे अनेजेसातेनयने अनुसा
रेंवचनबोलियें तेसर्वदेशें सत्यजाणवुं एरीतेंजे नयात्मज्ञानसमजवुं ते सम्यक्तठे प
णजिहां एकनयनेअवलंबी खेचकरीरहेवुंते मिथ्यात्वठे एश्रीअनुयोग ६ारमांकह्युंते.

हवेएनयना मूलबेजेदठे तेमांएकव्यवहारनय बीजोनिश्चैनय तेमांव्यवहारनयना
वलीचारनेदठे एकनैगमनय बीजोसंग्रहनय त्रीजोव्यवहारनय चौथोरुजुसूत्रनय

एचारनय व्यवहारनाथे अने एकशब्दनय बीजोसमनिरूढनय त्रीजोएवंचूतनय ए त्रणनिश्चैनयथे. माटेनिश्चैनाजेदमां गणायथे वलीतेमां कोइकवचननी अपेहार्ये ऋजुसूत्रनयपण निश्चैनयमांनलेते तेंपणजिनवचननी अपेहार्येलीधोते हवेजेमां वस्तुनाइव्यनी मुख्यताप्रतिजातेते तेनेव्यवहारनयकहिये अनेजेमां वस्तुनोनिजस्व नाव अन्यंतरगुण प्रतिजासेते तेनिश्चैनयकहिये:

हवेव्यवहारवेकह्याते एकशुद्धव्यवहार बीजोअविशुद्धव्यवहार तेव्यवहारतोजे वस्तुनो बाह्यप्रवर्त्तनरूप तेनेकहिये जेमविवहरतीति व्यवहार हवे वस्तुनोजेबाह्य प्रयोगशुचनपणे प्रवर्त्तनरूप तेनेशुद्धव्यवहारकहिये तथाजे बाह्यप्रयोगनो अशुचनपणेप्रवर्त्तनते अशुद्धव्यवहारकहिये एनोजाणपणुंयद्यपि अतिविस्तारपणोते तथापि इहांअल्पपणे हेतुयेंकरीदेखाडिये ठैयें:

जेमजीवइव्यएकवस्तुते तेनुंबाह्यप्रवर्त्तन तेशरीरइंइय तथा योगनाप्रवर्त्तन ने कहियेठैयें तेमांशरीरथी पडिलेहणाप्रमुख शुचकार्यनुंजेकरवुं तेमवर्ततांथकां शुद्धव्यवहारकहिये अनेएज शरीरथीजे स्त्रियादिकतुं आलिंजन प्रमुखकरवुंते अशुद्धव्यवहारकहिये एवीजरीतें बीजीचक्रुप्रमुख इंइयोनो प्रयोगपणकहेवुं तेआ वीरीतेंजे शास्त्रश्रवण इर्यासुमतिर्येवर्तवुं स्वाध्यायकरवुं शीततापादिक सहनकरवा तेशुद्धव्यवहार अने विकथाश्रवण नृत्यावलोकन तथासुगंधानुराग रसादिकनुगुंधी पणुं सेजादिकेंशयनकरवुं मैशुनादिकतेववा इत्यादिकसर्व अशुचनव्यवहारते एमज जे शुचनअशुचनयोगतुं प्रवर्त्तनते शुचाशुचनव्यवहारते पणइहां कारणनु कार्यनेविपे उ पचारते तेमाटे शुद्धअशुद्धव्यवहारते शुचनअशुचनपणानेज बताव्योते.

पणशुद्धव्यवहारतो वीतरागअवस्थानेते तेपाठलात्रण पर्यायार्थिकनयते ते मांसमायते तत्वकेवलिगम्यं एवीजरीतें व्यवहारनयमांपण शुद्धअशुद्धपणुं देखा ड्युंते जेमशुद्धनैगम अनेअविशुद्धनैगम इत्यादिकविस्तारें कहेवुंजोइयेंपण अल्पतु दिने ग्रंथनुंगौरव समजवुंजुर्लेनयाय तेमाटेसंक्षेपेंकह्युंते.

इहांकोइपुठेजे वस्तुतो इव्यगुणपर्यायरूप त्रणप्रकारेंकहिये पणनयाधिकारेंतो एकइव्यार्थिकनय अने बीजोपर्यायार्थिकनय कह्योते पणत्रीजो गुणार्थिकनय के मकह्योनथी हवेगुरुवत्तरकहेते जेजीवादिकपदार्थना इव्यगुणपर्यायत्रणकह्या अ नेनयमां इव्यपर्यायवेकह्या माटेएसातनयमांजे पर्यायार्थिकनयते तेहिजगुणार्थि कते केमके पर्यायमां गुणअंतरचूततेमाटे इव्यपर्याय वेजकह्या एरीतेंएसातनयनो विस्तारें नेदविज्ञान नयचक्रग्रंथथीजाणुं. इति.

ह्वेजीवादि नवपदार्थने सातनयेंकरी शरीरेंसर्द्धहियें इहांससंज्ञगीनो विस्तारुते तेजाणवाथी सातेनयेंकरी जीवबोलियें पणइहां एकनयनावचन कहेनारने बी जानयवालो मानेनहीतो पणतेनेजूठोकहेनही केमके नयात्मज्ञाननुं एहिजस्वरूपठे निजनिजनय पोतपोताने अनिप्रायेंसत्यठे तेनोदृष्टांतकहिदेखाडेठे जेमस्त्रीने कोइ बेनमानेठे कोइदीकरीमानेठे कोइमातामानेठे कोइस्त्रीमानेठे इत्यादिकविकल्प सर्वे स्त्रीमां संजवेठे केमके पुत्रनीअपेहायें मातापणठे अने जाइनीअपेहायें वेनपणठे पितानीअपेहायें पुत्रीपणठे नर्तारनीअपेहायें नार्यापणठे.

एमजजीवादि नवपदार्थनेविषेपण निजनिजअनिप्रायें प्रत्येकप्रत्येकजे विकल्प संजवेठे तेनयजाणवा एसातनयना सातसोचेद श्रीअनुयोग षारसूत्रें परुप्याठे ते जीवपदार्थने नयानुसारवचनमां अजीवजेपुजलठेतेने जीवकह्यांठे तेकेवीरीतेंजे श्रीगणों समयतिवा आवलियातिवा जीवातिवा अजीवातिवा प्यबुञ्चति एरीतें समय आवलिकाप्रमुखने जीव अजीवकह्यांठे तथा प्रयोगशा पुजलने जीवकहियेंठैयें एरीतेंबोजनारना जे अनिप्राय तेहनीनिश्रायेंजे वचनठे ते नयअपेहायें वचनठे ते एोकरी सातनयेंकरी जीवबोलायठे तेकहेठे.

ह्वेएसातनय जीवतत्वउपरकहेठे तेमां नैगमनयनिमतें पर्याय प्राणसहित शरीरठे तेप्रयोगशा पुजलठे तेशरीरावगाही धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायना देशप्रदेशनेपण अवगाहीरह्याठे तेसर्वनोपिंमठे तेहनेजीवकही बोली येंठैयें जेआमनुष्यठे आवृषणादिकठे तेजीवठे तेनैगमनयनो वचनठे जेएकअंश ने संपूर्णवस्तुमाने तथाकारणनेकार्यमाने तेनैगमनयकहियें.

बीजोसंग्रहनयनेमतें असंख्यातप्रदेश अवगाहनावंतने जीवकहेठे इहांपण धर्म अधर्म तथापुजलने जीवमांगणिलीधा पण एकआकाशटाव्यो आकाशना असंख्या त्प्रदेशें जीवरहेठे तेआकाशखेत्रीठे तेमांजीवठे एवचनेआकाशटाव्यो.

व्यवहारनयनामतें इंडियनीवासनाने जीवकहेठे पणमहोटा शरीरसंबंधी पुजल तथा धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय टालीनारख्या पणइव्यजेइया इव्ययोग जे मजप्रमुखतेसर्व पुजलास्तिकायठे पणजीवनो व्यवहारठे केमके वासनाजीवठ तोठे जीवशरीरधी नीकव्यापठे तेपुजलो इंडियाकारतोठे पणजीववासनानधी माटे इंडियविकारने व्यवहारनयजीवकहेठे पणनिश्चैथीतो पांचलेश्यायोगइंडियोते जीव थीन्याराठे पणव्यवहारदेखीने जीवकहेवामांआवेठे तेव्यवहारनयजाणवुं.

ऋजुसूत्रनयनेमतें उपयोगने जीवकहेते इहां इंद्रिय क्षेत्र्या तथायोगना व्यवहारी कपुञ्जल सर्वटाळीनारख्या पणद्युद्ध अद्युद्ध एवेउपयोगने जीवकहेते तेमां अज्ञानउपयोगते मिथ्यात्वमोहनीयकर्मनी वर्गीणानाप्रयोगथीते तेअज्ञानीपणुतोउदैकठे तेमाटे कर्मनोपरिणाम मिश्रितथी अज्ञानीपणु जीवनेते तेअज्ञानतो अद्युद्धउपयोगते पण ऋजुसूत्रनयानुसार कर्मवर्गीणाना दलनेअनुसारेंजे उपयोगतेते जीवमांगणीजीधोते.

शब्दनयनेमते जिहांजीवशब्दनो अर्थमलेतेने जीवकहेते जेम जीवञ्जीवितजीव स्सइ एटलेपूर्वेंजीवतोहतो हमणाजीवेते अनेआगलेजीवसे एहवोअर्थमले तेनेजीवकहेते एणोइव्यथात्माने जीवसईहो पण तेजस कार्मणाना प्रयोगशा सूक्ष्मपुञ्जलतेजीवने अनादिना संगीते केमके अतीतकालें जीवनीसाथेंजरह्याठे तेनेपणजीवमां गणीजीधा तेशब्दनयजाणवुं.

समनिरूढनयनेमतें शुद्धसत्ताधारक निजगुणरमणरूप सम्यक्दृष्टिवंत अनुभव रसआस्वादितने जीवसईहे एटले द्वायकसम्यक्त्तिने जीवसईहो.

एवंचूतनयनेमतें सिद्धनेजीवकरी सईहे निश्चेंजीवते कर्मकलंकरहित परमात्मारूपनिर्मलज्ञानदर्शनने जीवसईहे एरीतेंजीवनेसातनयेकरी अपेक्षार्येंकहियेंतैयें.

हवेअजीव सातनयेंकरीबोलीयेंतैयें तेमानैगमनयानुसारें अजीवनाप्रवेशने अजीवकहे ते अजीवना पांचप्रकारते तेमांप्रथम धर्मास्तिकायना सातनयकहेते इहां नैगमनयते कारणनेकार्यमाने तेथी धर्मइव्यना एकप्रदेशने धर्मास्तिकायमाने के मकेनैगमनयवालो एकअंसनेवस्तुमानेते तेमाटे इहां धर्मास्तिकायना एकप्रदेशमां पण चलणसहायधर्मते तेमसर्वधर्मास्तिकायमांपण चलणसहायधर्मते माटेनैगमनय एकप्रदेशनेपण धर्मास्तिकायमाने.

संग्रहनयें धर्मास्तिकायनेप्रयोगें जडचेतनचलणधर्मते तेएकजधर्मइव्यते इहांदेशप्रवेशनीविवहाकरीनही तेसंग्रह वलीव्यवहारनयें चलणसहायधर्मइव्यथी जीवतथापुञ्जलते गतिगमनकरेते पणतेमां षडगुणहानिवृद्धिते तेधर्मइव्यनोव्यवहारते तथाऋजुसूत्रनयनेमतें जीवपुञ्जल जेवर्तमानकालें गतिगुणकरे तेनेधर्मइव्यकहे पणअतीतअनागतकालें विनाशथया तथानथीआव्या तेने ऋजुसूत्रलेखामांगणो नही अनेशब्दनयनेमतें धर्मास्तिकायनागुणने स्वभावने धर्मास्तिकायकहे इहांदेशप्रदेशा विकने मानेनही एमस्वभावनीमुख्यतालेइनेकहे तेशब्दनयजाणवुं वलीसमनिरूढनयते गुणनेप्रवर्ततादेखीने जाणेजेए धर्मास्तिकायनोगुणते एमज्ञानाविकना उपयोगने धर्मइव्य माने तेसमनिरूढनयजाणवुं अने एवंचूतनयनेमतें धर्मास्तिकायइव्य

नासप्तजंग सप्तनय अने चारप्रमाणनाज्ञानने धर्मास्तिकायकहे जे ज्ञातावस्तुनेमाने तेधर्मास्तिकायकहे एजरीते धर्मास्तिकायनीपरें अधर्मास्तिकायनापण सातनयकेवा.

अनेआकाशास्तिकायने नैगमनय एकआकाशप्रदेशने आकाशास्तिकायकहे तथा संग्रहनय एगेलोए एगेअलोए एमकहेपण खंध देश प्रदेशनी विवक्षाकरेनही अनेव्य वहारनय उंचानिचा तथातिर्ह्वालोकाकाश अनेअलोकाकाश इत्यादिकने आकाशक हेवली रुजूसूत्रनयें आकाशप्रदेशजे जीवपुञ्जने अवकाशआपे अनेतेमां जेषट्गुण हानीवृद्धिपरिणामरूपक्रियाकरें तेआकाशइव्यकहियें तथाशब्दनय अवगाहलक्षण पोलाडने आकाशकहे अने समनिरूढनय आकाशनो विकाशगुण जीवपुञ्जनेकरे तेआकाशएटले आधेयवस्तुने आकाशकहे अनेएवंनूतनयतो आकाशना इव्यगुणपर्याय व्यय ध्रुव उत्पादनाज्ञायकने आकाशइव्यकहे इति.

हवेकालइव्यउपर सातनयकहेते तेमानैगमनय समयनेकालकहे केमकेत्रणेंकालना समयनोगुणएकठेमाटे. तथासंग्रहनयनेमते समयादिकथीमांमी अवसर्पिणी उत्सर्पिणीपर्यंत कालवर्तण स्वभावरूपएकठे अनेव्यवहारनयथीकाल तेदिवस रात्री पक्ष मास संवत्सर प्रमुख अढीढीपमांठे अनेअढीढीपथी बाहेरव्यवहारकालनथी के मकेतिहांदिवसरात्रीनी संख्यानथी अनेअढीढीपमां दिवसरात्रीनी संख्याठेतेव्यवहारनयकाल जाएवो.

रुजूसूत्रनयवर्तमान समयनेकालकहे केमके अतीतकालविनाशपान्थो अने अनागतकाल आव्योनथी माटेवर्तमाननेकालकहे शब्दनय जीवअजीवउपर कालअनंतपर्यायरूपवर्तेते तेनेकालकहे अने समनिरूढनय जीवपुञ्जनीस्थिति पूरणकरवानेसन्मुखथयोतेनेकालकहेएवंनूतनय कालना इव्यगुणपर्यायना ज्ञायकनेकालकहे.

हवेपुञ्जलइव्यउपर सातनयकहेते नैगमनयनेमते खंधनाएकगुणनी मुख्यतालेइवोले जेमएकगुणा कालापुञ्जलठे तिहां गंध रस स्पर्शपणठे परंतुएकअंसंकरीबो लियें तेनैगमनय वलीसंग्रहनयनेमते एकपुञ्जलठे एवुंबोलवुंते संग्रहनयनोवचनठे जोपणपुञ्जलइव्य अनंताठे तोपणसंग्रहनयना वचनमां एकपुञ्जलइव्यबोलायठे अने व्यहारनयनामते एकविश्रशा बीजामिश्रशा त्रीजाप्रयोगशा ए बाह्यव्यवहारदेखेते रीतेकहे वलीरुजूसूत्रनय वर्तमानकालें पूरणगलनहोय तेनेपुञ्जलकहे तथाशब्दनय पूरणगलननी क्रियानेपुञ्जलकहे तथासमनिरूढनय पुञ्जलनी षट्गुणहानिवृद्धि तेउत्पादव्यय ध्रुवमांठे तेनेपुञ्जलकहे तेमज एंवन्तनयतो पुञ्जलनास्वइव्य स्वहेत्र स्वकाल स्वभाव ना इव्यगुणपर्यायना ज्ञायकने उपयोगमाटे पुञ्जलकहे इति.

हवेपुण्यउपर सातनयकहेते पुण्यरूपकार्यनो कारणते शुचपुञ्जलनो संयोगते जे मवस्त्रनुषण गज अश्वप्रमुख देखीनेजाणिये तैयेजे एजीवपुण्यवंतते एटलीवस्तुएने स्वाधीनते तेकारणने कार्यमानता नैगमनयनुवचनजाणिये एशुचपुञ्जलने पुण्यकहे.

संग्रहनयनेमतें शरीरादिकसुंदरहोय जाल्यादिकउत्तमहोय वंचगोत्र शातावेदनी प्रमुख जेवर्गणाते तेप्रयोगशा पुञ्जलते तेनेपुण्यमाने इहांजीवपुञ्जल जेलागणीलीधा व्यवहारनयनेमतें शारीरी मानसी सुखमारमणते अने आरोग्यता उत्कंठाप्रमुख जे अथवस्थाओ धारेते तेपुण्यप्रकृतिनो व्यवहारते जे इंडियना मनोइविषय पूर एकरतादेखाय तेनेव्यवहारनयनेमतें पुण्यकहियें.

ऋजुसूत्रनयानुसारें शुचकर्मना जोगवनारजीवने पुण्यकहियें जेम आजीव पुण्यने प्रजावें आवासुख जोगवेते एट्टांतेजाणवुं एटलेएनेसंपूर्ण मनोइवस्तुतेपुण्यने संयोगते एजिहांजिहांजायते तिहांतिहांएनेस्वयमेव सुखमलेते एहवो एपुण्यवंतजीवते एमजेकहेवुं तेऋजुसूत्रनयनुं वचनते इहांजीवनां कर्मणशरीरने पुण्यमानेते.

शब्दनयानुसारें वर्त्तमानकालें सातानोगवताने पुण्यकहियें इहांकोइपुढेजे ऋजुसूत्रनय अने शब्दनयमां शोफेरते तेनेकहेवुंजे ऋजुसूत्रनयवालो त्रणकालनासुखने पुण्यकहेते अनेशब्दनयवालो वर्त्तमानकाल ग्राहीते एटजेवर्त्तमान सुखने पुण्यकहेते तेनुंएट्टांत जेमचक्रवत्यादिक कोइपुण्यवंतजीव वर्त्तमानकालेंनिडामांसुतोते पणअतीतकाले अनागतकालें सुखनुजोगवनारते तेपुण्यवंतजीवसुतोते एमऋजुसूत्रनयनुं बोलवुंते अने शब्दनयग्राही पुरुपतोसुतेजाप्राणीने पुण्यवंतनकहे केमकेएनिड्यापितते तेनिडातो पापप्रकृतिते तोएशोपुण्यजोगवेते तेमाटेसुखजोगववाने वखतेंज तेने पुण्यवंत कहे एमशब्दनयनुं बोलवुंते एनयपण सुखजोगववाने समयें आत्मा पुञ्जलिकसुखथीसातामानेते तेनेपुण्यकरिमानेते.

समनिरूढनयनामतें पुण्यप्रकृति प्रयोगशापणे परिणामिने आनंदमांलीनथयो तेनेपुण्यकहे तथा एवंचूतनयनेमतें पुण्यनाजोक्ताने ज्ञायकने पुण्यकहियें

हवेपापउपर सातनयकहेते पापनी सातेनयेंकरी वक्तव्यता पुण्यनीपरेंजाणवी पणएपापतेपुण्यनो प्रतिपहीते माटेपापनी वक्तव्यता पुण्यथी विपर्यासपणेजाणवी.

हवेआश्रवउपर सातनयकहेते नैगमनयानुसारें कर्मरूपपरिणमनयोगजे पुञ्जल तेने आश्रवकहे वलीसंग्रहनय मिथ्यात्वादिककारणना पुञ्जलप्रयोगशापणे परिणमनरूपवजने आश्रवकहेते तथा व्यवहारनय अत्यागजावने आश्रवकहे एटले मिथ्यात्वादिकना उदयेंवर्त्तता अपञ्चखाणने आश्रवकहें एव्यवहारनयानुसारें मिथ्या

त्वादिकचारकारणमांजे शुजाशुनयोगवर्त्ते तेनो व्यापारते शुजाशुनआश्रवते अने एक लोशुनयोगनोव्यापारते शुजाश्रवते तथा एकलोअशुनयोगनोव्यापारतेअशुजाश्रवते.

ऋजुसूत्रनयानुसारें जे वर्त्तमानकालें शुनअथवा अशुनयोगनो वर्त्तवो तेव्यव हाराश्रव पणअतीत अनागतना अशुनयोगेवर्त्तताने ऋजुसूत्रनयनी अपेक्षायें आश्रवकहेनही मात्र वर्त्तमानकालना योगव्यापारनेज आश्रवकहे इहांशिष्यप्रश्नकरेते जे मात्रयोगनाव्यापारनेज आश्रवकहियें तो मिथ्यात्व अत्रत प्रमाद अने कषाय एचारआश्रवकहेवानो शोप्रयोजनते तेनेगुरुउत्तरकहेते जे मिथ्यात्वादिकचारआश्रवजेते ते तो निमित्तकारणते अने मनवचनकायाना योगजेते ते उपादानकारणते केमके मिथ्यात्व अत्रत प्रमाद अने कषायमां जेवोजेवोयोगनो व्यापारप्रवर्त्ते तेवोते वोआश्रवकहियें तेशी आश्रवते योगदारेंजते माटेमुख्यपणे योगनेजग्रहणकीधुंते पण एकला मिथ्यात्वादिकचारथीज जीवकर्मपणे पुजलोने आकर्षणकरीशकेनही पणएमिथ्यात्वादिकचारेंमांहे योगनामलवाथी कर्मरूपपुजलतुं आकर्षणथायते.

फरीशिष्यपुठेतेजे आत्मा योगदारें कर्मरूपपुजलने आकर्षेते पणतेपुजलतो आत्माथी अंतरालवर्त्तियेंते तेहने आकर्षेते किंवानथीआकर्षतो तेवारेंगुरुकहेते आत्माथी अंतरालवर्त्ति पुजलोने चिपटाइने खंचवानीशक्तिनथी पणआत्मावगाही पुजलपरमाणुते तेहने आकर्षिनेग्रहणकरेते.

इहांप्रस्तावें लिखियेंतैयें एशुजाशुनयोगमां पडगुणहानिवृद्धिजे शुनपणेवृद्धि पामतायोगते तेहांमुख्यतामां शुनयोगीते पणअशुनयोगें मिश्रितते एमज अशुन योगनी वृद्धिपामता योगमां अशुनयोगनी मुख्यताते पण शुनयोगेंमिश्रितते इहां जेमजेम शुनयोगना पर्यायघटेते तेमतेम अशुनयोगनीवृद्धिथायते तथाजेमजेम अशुनयोगनी हानिथाय तेमतेम शुनयोगनी वृद्धिथाय एरीतें जिहांशुजाशुननी हानिवृद्धिते तिहां एकांतेशुनयोग अथवा एकांते अशुनयोगकिहांपणदेखातान थी केवलीनेशुद्योगते अने सकषाइने शुनयोगते तेदीर्वृष्टियें विचारजो इहांकोइ पूठेजे शुजाशुनबेहुयोगकेमतेरे केमकेएकसमयमां बेयोगकह्यानथी तेसत्यते मुख्य तामांताएकते पणअंशनव्योते तेगौणतापणेते इहांहेतुघणाते विधिनिषेधपणघणा ते श्रीगणांगनी टीकाकारेंपण त्रीजेगणेफलाव्योते तिहांमूलपाठमां तिविहेववसाए धम्मिएववस्साए अधम्मिएववस्साए धम्माधम्मिएववस्साए तथासुयगडांगमां अने पन्नवणामांपण मिश्रयोगकह्याते इमसर्दहियेंतैयें तत्वतोकेवलीवाक्यप्रमाणते इत्या दिकशुजाशुनयोगना व्यवहारने व्यवहारनयेंआश्रवकह्यो.

अने ऋजुसूत्रनयनामते वर्तमानकालें पुण्याश्रवणे अथवा पापाश्रवणे तेमांसु ख्यतापणे योगव्यापारनीक्रियाने आश्रवकहिये.

शब्दनयें जेस्थानकथीआश्रवणावे तेनाठेकाणाने आश्रवकहे एजीवना मिथ्या त्वादिक परिणामने आश्रवकहे तथासमनिरूढनय कर्मग्रहणकरवानुंजे गुणते ते ने आश्रवकहे अने एवंचूतनयतो आत्माना सकंपपणाने आश्रवकहे इहांग्रंथना गौरवपणाथी विस्तारसंकीचीलखुंठे गीतार्थसुधारसं एरीतें आश्रवनासातनयकह्या.

हवेसंवरउपर सातनयकहेते नैगमनयनेमतेजे शुजयोगते संवरनुंकारणते मा टे नैगमनयकारणने कार्यमानेते तेन्यार्येशुजयोगने संवरकहे अने संग्रहनयस म्यक्तादिक परिणामने संवरकहे वलीव्यवहारनयें चारित्रनाव्यवहारजे पांचम हाग्रत तेनेसंवरकहे तथाऋजुसूत्रनयवर्तमानकालें नवाकर्मनआवे तेनेसंवरकहे व ली शब्दनय सम्यक्तादिक पांचनेसंवरकहे तिहां शब्दनयपोपता चोथागुणगणे व र्त्तनारो जीव देशसंवरीठे केमके संवरनापर्यायमांठे तेमिथ्यात्वसहचारणी प्रकृती नोअनाश्रवणे अणग्रहवोठे तेन्यार्येकरी शब्दनयें संवरकह्यो तथासमनिरूढनयवा लो सम्यक्तादिक पांचसंवरेंकरी जे कर्मवर्गणायें अलिप्तपणोहोय अनेमिथ्यात्वादि क पांचकारणनी स्निग्धतामंदकरवी तथारूढपरिणामथी कर्मनीस्थितिने अलिप्त प्रणो तेसमनिरूढनय संवरकह्यो अने एवंचूतनयनामते शैलेशीअवस्था आत्मानो स्थैर्यरूप अकंपमानथावो एचउदमांगुणगणानुं संवरजाणवो इहांआत्माने संवर कह्योठे जेमजगवतिना पहेलाशतकना नवमाउदेशामां कालासवेसिय आयासंवर आयासंवरइसअठे इतिवचनात् एम आत्माना शैलेशीपणाने संवरकह्योइतिसंवर.

हवेनिर्जराना सातनयकहेते नैगमनय शुजयोगने निर्जराकहे संग्रहनय कर्मव गीणाखिरे तेहनेनिर्जराकहे इहांअकामनिर्जरा तथा सकामनिर्जरा सर्वगणीलीधी तथाव्यवहारनय बारनेदेंतपने निर्जराकहे केमकेतपते निर्जरानोव्यवहारतेमाटे व लीऋजुसूत्रनयें जेवर्तमानकालें शुजथ्यानेकरी तपस्यामां प्रवर्तेते तेनेनिर्जराकहे त था शब्दनयें तो ध्यानाग्निना प्रयोगथी कर्मरूपइंधणने वाले तेनेनिर्जराकहे इहांसु ख्यतायें शुजथ्यानने निर्जराकहे केमके शुजथ्यानथी निश्चंकीसकामपणें कर्मनिर्जरा थायते अने समनिरूढनयेंजे आत्माना उज्वलपणाने सन्मुखथयो अनेशुक्लध्याना रूढथयो तेनेनिर्जराकहे इहांहिणमोहगुणगणावर्त्तिनी प्रेरणाजाणवी तथा एवंचू तनयें सर्वकर्मकलंकरहित शुद्धात्माने निर्जराकहे इतिनिर्जरा.

हवेबंधतत्वना सातनयकहेते नैगमनयनेमते बंधनाकारण पञ्चासीप्रकारेंतेने

बंधकहेठे संग्रहनये मोहनीयने बंधकहे जेम रागबंधन हेपबंधन इत्यावश्यकवच
नात् तथाव्यवहारनय जीवनीसाथे पुञ्जनोसंयोग खीरनीरनीपरेश्याय तथा राग
हेषादिकबंधनमां संसारीजीवखुतोठे तेनेबंधकहे वली ऋजुसूत्रनये मांसनरुणादि
क तथा अशुनकार्यनेविषे वर्त्तताने बंधकहे जेमएजीव पोतानाकर्मोथी सुखदुःख
वेदेठे एमकहियेते बंध अने शब्दनये अज्ञानताथी ग्रथिलवत् व्यामोहपणाथी का
र्याकार्यनेविचारे तेकर्मनोगुणठे तेनेबंधकहे इहांजीवविपाकी प्रकृतिनेबंधगण्यो व
ली समनिरूढनय आत्मानानिजगुणने ढाक्यां तेनेबंधकहे इहांयातिकर्म मुख्यता
सांगल्या अने एवंचूतनय ते आत्माना अशुद्ध अथ्यत्रसायथी जावकर्मथी जेकर्म
नो संचयथयो तेनेबंधकहे इति.

हवेमोहृतत्व उपर सातनयकहेठे सर्वमोहने व्यवहारनथी पणपर्यायार्थिकनये
नेदप्रकाशरूप कहियेठैये नैगमनयानुसारजे गत्यादिकबंधनथकी बुटातेने मोहकहेठे
अने संग्रहनयजे पूर्वकृतकर्मथीबुटाथया अनेदेशथी उज्वलथया तेनेमोहकहे व
ली व्यवहारनये परित्तसंसारी तथासम्यक्तिने मोहकहे ऋजुसूत्रनयवालो रूपकश्रे
णीचढधाने मुक्तिकहेठे अने शब्दनय सयोगीकेवलीने मोहकहेठे समनिरूढनय शै
लेशीकरणगुणने मोहकहेठे एवंचूतनय सिद्धक्षेत्र पढोताने मोहकहेठे.

एरीतेंएकेकातत्वउपर पचीसबोल चिंतव्याथी शुनस्थानके ध्यानथायठे इहांध
र्मध्यानतुं तथाशुक्लध्यानना पहेजापायानुं अंशपणनलेठे तेमाटे एपचीसबोलनी
शुद्धमनेकरी ओलखाणकरवी उचितठे एपचीसबोलनो विस्तारघणुकठीणठे तेमां
थी दुमंदमति अल्पबुद्धि आलसु हिनाचारीठतां कांश्कलेशमात्र मार्गवताव्योठे
माटेबुद्धिवंतपुरुषोए शुद्धकरीलेबुं ज्ञातापुरुषो एग्रंथनेसुधारीने घणानव्यजीवोने
शीखावशे संजलावशे तेथीज्ञानवृद्धिनो कारणथसे.

दोहा. किमाजिमबालककरे पसुनगरकरआप ॥ तेविधहुंपणबालवत् कस्योग्रंथ
आलाप ॥ १ ॥ जिनवाणीनास्वादनो मतकरजोकोइहास्य ॥ स्याद्वादनयशुद्धकरो एहमे
रीअरदास ॥ २ ॥ गुरुकारीगरसमकह्या गुणनिधितपमाजोय ॥ श्रीहरजीमल्लिजी
दीपतां तासकृपामुजहोय ॥ ३ ॥ रत्नचंदशिष्यतेहनो शुद्धीयशअरदास ॥ एअने
कांतपहने बुद्धजनहीयेविमास ॥ ४ ॥

इतिश्रीनवतत्वउपरपचीसबोलचिंतववानोविचारसमाप्तः

॥ श्रीजिनायनमः ॥

अथ श्रीसमाधिशातक श्रीयशोविजय उपाध्यायजीकृत प्रारंभः

॥ दोहरा ॥

समरी नगवति नारती । प्रणमी जिन जग बंधु ॥ केवल आतम बोधको । करशू सरस प्रबंध ॥ १ ॥ केवल आतम बोध है । परमारथ शिव पंथ ॥ तामें जिनकूं म गनता । सोइ नाच निगरंथ ॥ २ ॥ जोग ज्ञान ज्युं बालको । बाह्य ज्ञानकी दार ॥ तरुण जोग अतुनव जिस्थो । मगन नाच कहु और ॥ ३ ॥ आतम ज्ञाने मगन जो सो सब पुजल खेल ॥ इंजाल करि लेखवै । मिलै न तहँ मन मेल ॥ ४ ॥ ज्ञान बिना व्यवहारको । कहा बनायत नाच ॥ रत्न कही को काचकूं । अंत काच सो का च ॥ ५ ॥ राचै साचे ध्यानमें । जाचै विषय न कोइ ॥ नाचै माचै सुगति रस । आ तमज्ञानी सोइ ॥ ६ ॥ बाहिर अंतर परम ए । आतम परिणति तीन ॥ देहादिक आतम जरम । बाहिरात्म बहु दीन ॥ ७ ॥ चित्त दोष आतम जरम । अंतर आ तम खेल ॥ अति निर्मल परमात्मा । नाहि कर्मको जेल ॥ ८ ॥ नर देहादिक दे खिके । आतम ज्ञाने हीन ॥ इंद्रिय बल वहिरात्मा । अहंकार मन लीन ॥ ९ ॥ अलख निरंजन अकल गति । व्यापी रह्यो शरीर ॥ लखै सु ज्ञाने आतमा । खीर लीन ज्युं नीर ॥ १० ॥ अरि पुत्रादिक कल्पना । देहातम अनिमान ॥ निज पर त नु संबंध मति । ताको होत निदान ॥ ११ ॥ देहादिक आतम भ्रमी । कल्पै निज परनाच ॥ आतम ज्ञानी जग लहै । केवल शुद्ध स्वभाव ॥ १२ ॥ स्वपर विकल्पै वासना । होत अविद्या रूप ॥ तातें बहुरि विकल्पमया जरम जाल अंध कूप ॥ १३ ॥ पुत्रादिककी कल्पना । देहातम भ्रम नूल ॥ ताकूं जब संपति कहै । हहा मोह प्र तिकूल ॥ १४ ॥ या भ्रम मति अब गंभि दौ । देखौ अंतर दृष्टि ॥ मोह दृष्टि जो ठोडिये । प्रगटै निजगुण सुष्टि ॥ १५ ॥ रूपादिकको देखिचो । कहन कहावन कू ट ॥ इंद्रिय जोगादिक बलें । ए सब छटाछट्टु ॥ १६ ॥ पर पद आतम इव्यकूं ॥ कहन सुनन कहु नाहि ॥ चिदानंद धन खेलही । निज पद तो निजमांहि ॥ १७ ॥ ग्रहण अयोग्य ग्रहै नही । ग्रहो न ठोमै जेह ॥ जानै सर्व स्वभावने । स्व पर प्रका

शक तेह ॥ १८ ॥ रूपेके चम सीपमें । ज्युं जड करे प्रयास ॥ देहातम चमतें न
 यो । ल्युं तुज कूट अच्यास ॥ १९ ॥ मिटै रजत चम सीपमें । जन प्रवृत्ति जिम
 नाहि । नरमें आतम चम मिटै । ल्युं देहादिक मांहि ॥ २० ॥ फिरै अबोधे कंत
 गत । चामीकरके न्याय ॥ ज्ञान प्रकाशे सुगति तुज । सहज सिद्ध निरुपाय ॥ २१ ॥
 याबिन तूं सूतो सदा । योगे नोगे जेणि ॥ रूप अतींद्रिय तूंठतें । कही शकै कहु
 केणि ॥ २२ ॥ देखै जाखै औ करै । ज्ञानी सबहि अचंन ॥ व्यवहारे व्यवहारसुं
 निश्चयमें थिर थंन ॥ २३ ॥ जग जाणै उन्मत्त औ । औ जाणै जग अंध ॥ ज्ञानी
 कूं जगमें रह्यो । थूं नहि कोइ संबंध ॥ २४ ॥ या परगाही ज्ञानकी ।
 व्यवहारै छुं कहाइ ॥ निर्विकल्प तुजरूपमें । द्विधा जाव न सहाइ ॥ २५ ॥
 थूं बहिरातम ठांडिके । अंतर आतम होइ ॥ परमातम मति जावइ । जहां विकल्प
 न कोइ ॥ २६ ॥ सोमैं या दृढ वासना । परमातम पद हेत ॥ इजिका नमरी थ्या
 न गत । जिन मति जिनपदहेत ॥ २७ ॥ नारे नय पद सोइ है । जहँ जडकूं बी सा
 स ॥ जिनसुं औ डरतो फिरै । सोइ अचय पद तास ॥ २८ ॥ इंद्रिय वृत्ति निरोध
 करि । जो खिनु गलित विनाव ॥ देखै अंतर आतमा । सो परमातम जाव ॥ २९ ॥
 देहादिकतें निन्न में । मोथै न्यारे तेहु ॥ परमातम पथ दीपिका । शुद्ध जावना
 एहु ॥ ३० ॥ क्रिया कष्ट नी नहु लहै । जेद ज्ञान सुखवंत ॥ या बिन बहु विधि
 तप करै । तौ नी नहि नव अंत ॥ ३१ ॥ अतिनिवेश पुजल विषय । ज्ञानीकूं
 कहँ होत ॥ गुणको नी मद मिटगयो । प्रगटत सहज उद्योत ॥ ३२ ॥ धर्म कृमादिक
 नी मिटै । प्रगटत धर्म संन्यास ॥ तौ कल्पित नव जावमें । क्युं नहि होत उदास
 ॥ ३३ ॥ रज्जु अविद्या जनित अहि । मिटै रज्जुके ज्ञान ॥ आतमज्ञानै ल्युं मिटै । जाव
 अबोध निदान ॥ ३४ ॥ धर्म अरूपी इव्यके । नहि रूपी परहेत ॥ अपरम गुनराचै न
 ही । थूं ज्ञानी मति देत ॥ ३५ ॥ नैगम नयकी कल्पना । अपरम जाव विशेष ॥ परम
 जावमें मगनता । अति विशुद्ध नय रेख ॥ ३६ ॥ रागादिक जब परिहरी । करै सहज गु
 णखोज ॥ घटमें नी प्रगटै तदा । चिदानंदकी मोज ॥ ३७ ॥ रागादिक परिणामयुत । म
 नहि अनंत संसार ॥ तेहज रागादिक रहित । जानि परमपद सार ॥ ३८ ॥ नव प्रपंच म
 न जाजकी । बाजी फूठी मूल ॥ चार पांच दिन खुस लगै ॥ अंत धूलकी धूल ॥ ३९ ॥
 मोह बागुरी जाल मन । तामें मृग मत होउ ॥ यामें जे मुनि नहि परै । ताकूं
 असुख न कोउ ॥ ४० ॥ जब निज मन सनमुख हुए । चित्तै न पर गुणदोष ॥
 तब बहुराइ जगाइये । ज्ञान ध्यान रस पोष ॥ ४१ ॥ अहंकार परमें धरत । न

लहै निज गुण गंध ॥ अहं ज्ञान निज गुण जगै । बुटै परहि संबंध ॥ ४२ ॥ अर्थ
 त्रिलिगी पद लहै । सो नहि आतम रूप ॥ तौ पद करि क्युं पाइए । अनुभव
 गम्य स्वरूप ॥ ४३ ॥ आतम गुण अनुभवत जी । देहादिकतें निन्न ॥ जूलै विप्र
 म वासना । जो रहि फिरै न खिन्न ॥ ४४ ॥ देखै सो चेतन नही । चेतन ना
 हि दिखाय ॥ रोष तोष किनसूं करै । आपहि आप बुजाय ॥ ४५ ॥ त्याग अ
 हण बाहिर करै । मूढ कुशल अति रंग ॥ बाहिर अंतर सिद्धकूं । नही त्याग
 औ संग ॥ ४६ ॥ आतम ज्ञाने मन धरै । वचन काय रति मोडि ॥ तौ प्रगटै शु
 न वासना । गुण अनुभवकी जोडि ॥ ४७ ॥ योगारंजीकूं अमुख । अंतर बाहिर सु
 ख ॥ सिद्ध योगकूं सुख है । अंतर बाहिर सुख ॥ ४८ ॥ सो कहिये सो पूठिये । तामें
 धरिये रंग ॥ यातें मिटे अबोधता । बोधरूप व्है चंग ॥ ४९ ॥ नहि कहु इंडिय
 विषयमें । चेतनकूं हितकार ॥ लोजी जन तामें रमै । अंधो मोह अंधार ॥ ५० ॥ मूढा
 तमसूं तेप्रबल । मोहै मोमी शुद्धि ॥ जागत है ममता नरे । पुजलमें निज बुद्धि ॥
 ५१ ॥ ताकूं बोधन अम अफल । जाकूं नहि शुन योग ॥ आप आपकूं वूजवै । निश्चय
 अनुभव जोग ॥ ५२ ॥ परको किशो बुजावनी । तूं परग्रहण न जाग ॥ चाहै
 जे में वूजवो । सो नहि तुऊ गुण जाग ॥ ५३ ॥ जबलौं प्राणी निज मते । ग्रहै
 वचन मन काय ॥ तबलौं है संसार थिर । जेद ज्ञान मिटि जाय ॥ ५४ ॥
 सूखम घन जीरन नवै । ज्युं कपरे ल्युं देह ॥ तातें बुध मानै नही । अपनी परि
 षति तेह ॥ ५५ ॥ जैसे नाश न आपको । होत वस्त्रको नाश ॥ तैसे तनुके नाश
 तें । चेतन अचल अनाश ॥ ५६ ॥ जंगम जग थावर परें । जाकूं जातै निच ॥ सो
 चाखै समता सुधा । अचर नही जड चित्त ॥ ५७ ॥ सुगति दूरि ताकूं नही । जाकूं
 थिर संतोष ॥ दूर सुगति ताकूं सदा । जाकूं अविरति पोष ॥ ५८ ॥ होत व
 चन मन चपलता । जनके संग निमित्त ॥ जन संगी होवै नही । तातें मुनि जग
 मित्त ॥ ५९ ॥ वास नगर वनके विषे । मानै डुविध अद्युद्ध ॥ आतम दरशीकूं वश
 ति । केवल आतम शुद्ध ॥ ६० ॥ आप जावना देहमें । देहंतर गति हेत ॥ आप
 बुद्धि जो आपमें । सो विदेहपद वेत ॥ ६१ ॥ नवि शिव पद दे आपकूं । आपहि
 सनमुख होइ ॥ तातें गुरु है आतमा । अपनो और न कोइ ॥ ६२ ॥ सोवत है
 निज नावमें । जागै जे व्यवहार ॥ सूतो आतम नावमें । सदा स्वरूप अंधार
 ॥ ६३ ॥ अंतर चेतन देखिके । बाहिर देह स्वभाव ॥ ताको अंतर ज्ञानतें हो
 इ अचल दृढ नाव ॥ ६४ ॥ जासै आतम ज्ञान धुरि । जग उनमत्त समान ॥

आगे दृढ अच्युसतें । पढर तृण अनुमान ॥ ६५ ॥ जिन्न देहते जाविये । ल्यु
 आपहिमें आप ॥ ज्युं स्वपनहिमें नहि हुए । देहातम चम ताप ॥ ६६ ॥ पुण्य
 पाप व्रत अव्रते । मुगति दोउके त्याग ॥ अव्रतपरै व्रत नी तजै । ताते धरि शि
 वराग ॥ ६७ ॥ परम जाव प्रापति जगै । व्रत धरि अव्रत ठोडि ॥ परम जाव र
 ति पायके । व्रत नी इनमें जोडि ॥ ६८ ॥ दहन समै ज्युं तृण दही । ल्यु व्रत
 अव्रत ठेदि ॥ क्रियाशक्ति इनमें नही । जा गति निश्चय जेद ॥ ६९ ॥ व्रत गुण धारत
 अव्रती । व्रती ज्ञान गुण दोइ ॥ परमात्मके ज्ञानते । परम आतमा होइ
 ॥ ७० ॥ लिंगदेह आश्रित रहै । जवको कारण देह ॥ ताते जव ठेदै नही । लिंग
 पद्द रत जेह ॥ ७१ ॥ जाति देह आश्रित रहै । जवको कारण देह ॥ ताते जव ठे
 दै नही । जाति पद्द रति जेह ॥ ७२ ॥ जाति लिंगके पद्दमें । जिनकूं है दृढ राग ॥
 मोह जालमें सो परै । न लहै शिव सुख जाग ॥ ७३ ॥ लिंग इव्य गुण आदरै ।
 निश्चय सुख व्यवहार ॥ बाह्य लिंग हठ नय गती । करै मूढ अविचार ॥ ७४ ॥ जाव
 लिंग जाते जये । सिद्धा पनरस जेद ॥ ताते आत्मकूं नही । लिंग न जाति न वे
 द ॥ ७५ ॥ पंगु दृष्टि ज्युं अंधमें । दृष्टि जेद नहु देत ॥ आत्म दृष्टि शरीरमें । ल्यु
 न धरै गुण हेत ॥ ७६ ॥ स्वप्न विकलतादिक दशा । चम मानै व्यवहार ॥ निश्चय न
 यमें दोष ह्य । विना सदा चम चार ॥ ७७ ॥ ठूटै नहि बहिरातमा । जागत नी प
 ढि ग्रंथ ॥ ठूटै जवथे अनुजवी । सुपन विकल निग्रंथ ॥ ७८ ॥ पढी पार कहँ
 पावनो । मिटयो न मनको चार ॥ ज्युं कोलूके बैलकूं । घरही कोस हजार ॥ ७९ ॥
 जिहां बुद्धि थिर पुरुषकी । तहँ रुचि तहँ मन लीन ॥ आत्ममति आत्म रुची ।
 कहौ कोन आधीन ॥ ८० ॥ सेवत पर परमात्मा । लहै जविक तस रूप ॥ ब
 तियां सेवत ज्योतिकूं । होवत ज्योति सरूप ॥ ८१ ॥ आप आपमें स्थित हुए ।
 तरुथे अग्नि उद्योत ॥ सेवत आपहि आपकूं । ल्यु परमात्म होत ॥ ८२ ॥ ए
 हि परम पद जाविये । वचन अगोचर सार ॥ सहज ज्योति तो पाइये । फिरि न
 हि जव अवतार ॥ ८३ ॥ ज्ञानीकूं दुःख कबु नही । सहज सिद्ध निर्वाण ॥ सु
 ख प्रकाश अनुजव जये । सबही ठौर कल्याण ॥ ८४ ॥ सुपन दृष्टि सुख नाशते
 ज्युं दुःख न लहै लोक ॥ यागर दृष्ट विनष्टमें । ल्यु बुधकूं नहि शोक ॥ ८५ ॥ सुख
 जावित दुःख पायके । ह्य पावै जग ज्ञान ॥ न रहे सो बहु तापमें । कोमल फू
 ल समान ॥ ८६ ॥ दुःख परितार्पे न वि गलै । दुःख जावित मुनि ज्ञान ॥ वज्र
 गलै नवि दहनमें । कंचनके अनुमान ॥ ८७ ॥ ताते दुःख सूजाविये । आप श

कि. अनुसार ॥ तौ दृढतर दुः उल्लसे । ज्ञान चरण आचार ॥ ७७ ॥ रनमें ल
 रते सुनट ज्युं । गिनै न बान प्रहार ॥ प्रचु रंजनके हेत ल्युं । ज्ञानी असुख प्र
 चार ॥ ७८ ॥ व्यापारी व्यापारमें । सुख करि माने दुःख ॥ क्रिया कष्ट सुखमेंगि
 णे । ल्युं वंभित मुनि सुख ॥ ७९ ॥ क्रिया योग अज्ञास हे । फल हे ज्ञानअबंध ॥
 दोनूकूं ज्ञानी नजे । एक मतीतें अंध ॥ ८० ॥ इज्ञा शास्त्र समर्थना । त्रिविध यो
 ग है सार ॥ इज्ञा निज शक्ती करी । विकल योग व्यवहार ॥ ८१ ॥ शास्त्र योग
 गुण ठाणको । पूरन विधि आचार ॥ पद अतीत अनुनव कह्यो । योग तृतीय वि
 चार ॥ ८२ ॥ रहे यथा-बल योगमें ॥ गहे सकल नय सार ॥ जाव जैनता सो
 लहे । चहे न मिथ्या चार ॥ ८३ ॥ मारग अनुसारी क्रिया । ठेदै सो मतिहीन ॥
 कपट क्रिया बल जग ठगै । सो जी नवजल मीन ॥ ८४ ॥ निज निज मतमें ल
 रि परै । नयवादी बहु रंग ॥ उदासीनता परिणमै । ज्ञानीकूं सरवंग ॥ ८५ ॥ दो
 उ लरै तिहां इक परै । देखनमें दुःख नाहि ॥ उदासीनता सुख सदन । पर प्रवृ
 त्ति दुःख ठांदि ॥ ८६ ॥ उदासीनता सुरलता । समता रस फल चाखि ॥ पर पेख
 नमें मत परे । निजमें गुण निज राखि ॥ ८७ ॥ उदासीनता ज्ञान फल । पर
 प्रवृत्ति हे मोह ॥ शुन जानो सो आदरो । उदित विवेक प्ररोह ॥ ८८ ॥ दोधिक
 शतकें वंधखुं । तंत्र समाधि विचार ॥ धरो एह बुध कंठमें । जाव रतनको हा
 र ॥ १०० ॥ ज्ञान विमान चारित्र पवि । नंदन सहज समाधि ॥ मुनि सुरपति
 समता संचो । रंगे रमे अगाध ॥ १०१ ॥ कवि जश विजयें ए रच्यो । दोधिक शतक
 प्रमाण ॥ एह जाव जो मन धरै । सो पावै कव्याण ॥ १०२ ॥ इति समाधि तंत्र समाप्त-

॥ अग्रश्री यशोविजयजी उपाध्यायकृत समता शतक प्रारंभः ॥

दोहा ॥ समता गंगा मगनता । उदासीनता जात ॥ चिदानंद जयवंत हो । केवल
 जानु प्रजात ॥ १ ॥ सकल कलामें सार लय । रहो दूर थिति एह ॥ सकल योगमें
 नी सकल । लय दे ब्रह्म विदेह ॥ २ ॥ चिदानंद विधुकी कला । अमृत बीजअन
 पाय ॥ जानि केवल अनुनवी । किनही कही न जाय ॥ ३ ॥ तो जी आ
 श्रव तापके । उपशम करण निदान । बरपत हुं ताके बचन । अमृत बिंडु अनु
 मान ॥ ४ ॥ उदासीनता परिनयन । ज्ञान ध्यान रंग रोज ॥ अष्ट अंग मुनि यो
 गको । एही अमृत निचोल ॥ ५ ॥ अनासंग मति विषयमें । राग द्वेषको ठेद ॥

सहज जावमें लीनता । उदासीनता नेद ॥ ६ ॥ ताको कारन अममता । तामें म
 न विसराम ॥ करै साधु आनंद धन । होवत आतम राम ॥ ७ ॥ ममता थिर सुख
 शाकिनी । निर्ममता सुख मूल ॥ ममता शिव प्रतिकूल है । निरममता अनुकूल ॥ ८ ॥
 ममता विष मूर्छित नये । अंतरंग गुण वृंद ॥ जागै जाव निरागता । लगत अमृ
 तके बिंद ॥ ९ ॥ परिणति विषय विरागता । नव तरु मूल कुवार ॥ ता आगै
 क्युं करि रहै । ममता बेलि प्रचार ॥ १० ॥ हहा मोहकी वासना । बुधकूं नी प्र
 तिकूल ॥ याकेवलि श्रुत अंधता । अहंकारको मूल ॥ ११ ॥ मोह तिमिर मन
 में जगै । याके उदय अठेह ॥ अंधकार परिणाम है । श्रुतके नामें तेह ॥ १२ ॥
 करै मूढमति पुरुषकूं । श्रुत नी मद नय रोष ॥ ज्युं रोगीकूं खीर घृत । सन्निपा
 तको पोष ॥ १३ ॥ टालै दाह तृषा हरै । गालै ममता पंक ॥ लहरि जाव वैरा
 गकी । ताकूं नजो निशंक ॥ १४ ॥ राग जुजंगम विष हरन । धारो मंत्र विवेक ॥
 नव बन मूल उठेदकूं । विलसै याकी टेक ॥ १५ ॥ रवि दूजो तीजो नयन । अं
 तर जावि प्रकाश ॥ करौ धंध सब परिहरी । एक विवेक अन्यास ॥ १६ ॥ प्रथम
 पुष्करावर्तके । बरषत हरख विशाल ॥ क्षेप हुतास बुजाइये ॥ चिंता जाल ज टा
 ल ॥ १७ ॥ किनके बश नव वासना । होवै वैसा घृत ॥ मुनि नी जिनके बश
 नये । हाव जाव अवधूत ॥ १८ ॥ जबलूं नवकी वासना । जगै मोह निदान ॥ तबलूं
 रुचै न लोककूं । निर्मम जाव प्रधान ॥ १९ ॥ विषम ताप नव वासना । त्रिविध दोषको
 जोर ॥ प्रगटे याकी प्रबलता । काथ कषाए घोर ॥ २० ॥ तातें डुष्ट कषायके । ठेदै हित
 निज चित्त ॥ धरौ एह गुन जावना । सहज जावमें नित्त ॥ २१ ॥ सिद्ध औषधी इक कृमा ॥
 ताको करौ प्रयोग ॥ ज्युंमिटि जाए मोह घर । विषम क्रोध ज्वर रोग ॥ २२ ॥ चेतनकूं कोम
 ल ललित । चिदानंदमय देहा ॥ सूक नूक जुर जात हैं । क्रोध लूकतें तेह ॥ २३ ॥ कृमा
 सार चंदन रसै । सींचो चित्त पवित्त ॥ दया बेल मंडप तले । रहो लहौ सुख मित्त ॥ २४ ॥
 याकों जासै समवधू । कृमासहजमें जोर ॥ क्रोध योध क्युं करि करै । सो अप
 नो बल सोर ॥ २५ ॥ देत खेद वर्जित कृमा । खेद रहित सुख राज ॥ इनमें न
 हि संदेहकबु । कारन सरिखो काज ॥ २६ ॥ पर्वत गर्व शिखर चडयो । गुरुकूं
 नी लघु रूप ॥ कहै तिहां अचरज किस्यो । कथन ज्ञान अनुरूप ॥ २७ ॥ आ
 व शिखर गिरिराजके । तामें विमला लोक ॥ तौ प्रकाश सुख क्युं लहै । विषम
 मान बश लोक ॥ २८ ॥ मान महिधर ठेद तूं । कर मृड ताप विघात ॥ ज्युं
 सुख मारग शरजता । होवै चित्त विख्यात ॥ २९ ॥ मृडता कोमल कमलर्थे । व

ज सार अहंकार ॥ वेदत हैं इक पलकमें । अचिरज एह अपार ॥३०॥ विकशित
 माया बेलि घर । नव अटवीके बीच ॥ सोवत है नित मूढ नर । नयन ज्ञानके
 मीच ॥ ३१ ॥ कोमलता बाहिर धरत । करत वक्र गति चार ॥ माया सापिणि
 जग मंते । ग्रसे सकल गुण सार ॥ ३२ ॥ ताके नियहं करनकूं । करौ जुं चित
 विचार ॥ समरी कृच्छता जंगुली । पाठ सिद्ध निरधार ॥ ३३ ॥ लोन महा तरु शिर
 चढी । बढी जु तृषणा बेलि ॥ खेद कुसुम विकशित नइ । फलै डुःख रतु मेलि
 ॥ ३४ ॥ आगर सबही दोपको । गुन धनको वक्र चोर ॥ व्यसन बेलिको कंद है ।
 लोन पास चिहुं और ॥ ३५ ॥ लोन मेघ उन्नत नये ॥ पाप पंक बहु होत ॥ धर्म
 हंस रति नहु लहै । रहै न ज्ञान उद्योत ॥ ३६ ॥ कोउ सयंनू रमनको ॥ जे नर
 पावै पार ॥ सोनी लोन समुद्रको । लहै न मय्य प्रचार ॥ ३७ ॥ मन संतोष अग
 स्तिकूं । ताके शोष निमित्त ॥ नितु सेवौ जिनि सोकियो । निजजल अंजलि मित्त
 ॥३८॥ याकी जालच तूं फिरै । चितै तूं मममोल ॥ ता जालच मिटि जात घट ।
 प्रगटै सुख रंग रोल ॥ ३९ ॥ धनमानत गिरि मृत्तिका । फिरत मूढ डुरध्यान ॥
 अखय खजाणो ज्ञानको । लखै न सुख निदान ॥४०॥ होत न विजय कपायको ।
 विनु इंडिय वश कीन ॥ तातें इंडिय वश करै । साधु सहज गुण लोन ॥ ४१ ॥
 आप काज पर सुख हरै । धरै न कोसूं प्रीति ॥ इंडिय डुर्जन परिदहै । वहै न
 धर्म न नीति ॥ ४२ ॥ अथवा डुर्जनयें बुरे । इह परनव डुःखकार ॥ इंडिय डु
 र्जन देतु है । इह नव डुख इकवार ॥ ४३ ॥ नयन फरस जनु तनु लगे । दहै
 दृष्टि विप साप ॥ तिनसूं नी पापी विपे । सुमरै करै सँताप ॥४४॥ इहाचारी वि
 प्रयमें । फिरते इंडिय ग्राम ॥ वश कीजै पगमें धरी । यंत्र ज्ञान परिणाम ॥४५॥
 उन मारग गामी अवश । इंडिय चपल तुरंग ॥ खैची नरग अरण्यमें । लेइ जाय
 निज संग ॥ ४६ ॥ जे निजीक है श्रमरहित । आपहिमें सुख राज ॥ बाधत है
 ताकूं करन । आप अरथके काज ॥ ४७ ॥ अंतरंग रिपु कटक नट । सेनानी ब
 लवंत ॥ इंडिय कृष्णमें हरत है । श्रुत बल अतुल अनंत ॥ ४८ ॥ अनियत चं
 चल करण हय । पद प्रवाह रंज पूर ॥ आशा ठादक करतु है । तत्वदृष्टि बल
 दूर ॥ ४९ ॥ पंच वाण इंडिय करी । काम सुनट जग जीति ॥ सबके शिर पद
 देतु है । गणै न कोसू नीति ॥ ५० ॥ वीर पंच इंडिय लही । काम नृपति ब
 लवंत ॥ करै न संख्या पूरणी । सुनट सेणिकी तंत ॥ ५१ ॥ डुःख सबहिं सुख
 विपयको । करम व्याधि प्रतिकार ॥ ताकूं मन्मथ सुख कहै । धूर्त जगत डुख

कार ॥ ५१ ॥ उगै कामके सुख गिनै । पाइ विषयकी नीख ॥ सहज राज पाव
त नही । लगी न सदगुरु सीख ॥ ५२ ॥ अप्रमाद पवि दंभयै । करी मोह चक
चूर ॥ ज्ञानी आतम पद लहै । चिदानंद जरपूर ॥ ५४ ॥ जाके राज विचारमें
अबला एक प्रधान ॥ सो चाहत है ज्ञान जय । कैसे काम अयान ॥ ५५ ॥
और चांति मिटि जात है । प्रगटत ज्ञान उद्योत ॥ ज्ञानीकूं नी विषय चम ।
दिशा मोह सम होत ॥ ५६ ॥ दाखै आप विलास करि । फूठेकूं नी साच ॥ इ
इजाल परें कामिनी । तासूं तूं मत राच ॥ ५७ ॥ हसित फूल पधव अधर ।
कुच फल कठिन विशाल ॥ प्रिया देखि मत राच तूं । या विष वेलि रसाल
॥ ५८ ॥ चरम मढित है कामिनी । जाजन मूत पुरोख ॥ काम कीट आकुल स
दा । परिहर सुनि गुरु सीख ॥ ५९ ॥ विषय तजै सो सब तजै । पातक दोष
वितान ॥ जलधि तरत नवि क्यूं तरै । तटिनी गंग समान ॥ ६० ॥ चाटै निज
जाला मिलित । शुष्क हाड ज्यूं श्वान ॥ तैसे राचै विषयमें । जद निज रुचि अ
नुमान ॥ ६१ ॥ चूखन बहुत बनावतें । चंदन चरचत देह ॥ वंचत आपहि आ
पकूं । जड धरि पुदगल नेह ॥ ६२ ॥ दूर दमनके जय किये । इंडिय जन सुख हो
त ॥ तातें मनजय करनकूं । करौ विचार उद्योत ॥ ६३ ॥ विषय ग्रामकी सीममें ।
इहा चारि चरंत ॥ जिन आणा अंकुश करी । मन गज वश करो संत ॥ ६४ ॥ एक
जाव मन पौनको । फूठ कहै अँथकार ॥ यातें पवनहितें अधिक । होत चित्तको चा
र ॥ ६५ ॥ जामें राचै ताहिमें । विरचै करि चित्त चार ॥ इष्ट अनिष्ट न विषयको ।
शुं निश्चय निरधार ॥ ६६ ॥ केवल तामें करमको । राग द्वेषतें बंध ॥ परमें निज अ
निमान धरि ॥ कहा फिरत हौ अंध ॥ ६७ ॥ जैसें ललना ललितमें । जाव धरतु है
सार ॥ तैसे मैत्री प्रमुखमें । चित्त धरि करि सुविचार ॥ ६८ ॥ बाहिर बहुर कहा फिरै ।
आपहिमें हित देखि ॥ मृग तृष्णा सम विषयको । सुख सब जानि उवेखि ॥ ६९ ॥
प्रिय अप्रिय व्यवहार निज । रुचि रस साचौ नाहि ॥ अंगज वल्लन सुत नयो । यूका
दिक नहि काहि ॥ ७० ॥ होवत सुख नृप रंककूं । नोवत सुनत समान ॥ इक जो
गै इक नाहिसो । बढयो चित्त अनिमान ॥ ७१ ॥ नवको सुख संकल्प नव । कृत्रि
म जिसो कपूर ॥ रंजत है जन सुगंधकूं । वर्जित ज्ञान अँकूर ॥ ७२ ॥ गुन ममका
रन वस्तुको । सो वासना निमित्त ॥ मानै सुतमें सुत अधिक ॥ दौरत है हित चित्त
॥ ७३ ॥ मनकृत ममता फूठ है । नही वस्तु परजाय ॥ नहि तौ वस्तु विकाययै । क्यूं
ममता मिटि जाय ॥ ७४ ॥ जन जनकी रुचि निन्न है । नोजन कूर कपूर ॥

जोगवंतकूं जो रुचै । करज करै सो दूर ॥ ७५ ॥ करज हसै नृपजोगकूं । हसै कर
 जकूं चूप ॥ उदासीनता बिनु नही । दोनूंकूं रति रूप ॥ ७६ ॥ परमें राचै पर रुचि ।
 निज रुचि निज गुणमांहि ॥ खेलै प्रभु आनंदघन । धरि समता गलि बांहि ॥ ७७ ॥
 माया मय जगको कह्यो । जहां सबहि विस्तार ॥ ज्ञानीकूं होवत कहां । तहां शोक
 को चार ॥ ७८ ॥ शोचत नाहि अनित्य मति । होवत माल मजान ॥ चांडे नी शो
 चत जगै । धरत नित्य अनिमान ॥ ७९ ॥ कूट वासना मढितहै । आशा तंतु वितान ॥
 ठेदि ताकूं छुन मती । कर धरि बोध रूपान ॥ ८० ॥ जननी मोह अंधारकी । माया
 रजनी क्रूर ॥ ज्ञान जानु आलोकते । ताकों कीजै दूर ॥ ८१ ॥ उदासीनता मगनहुइ ।
 अथातम रस कूप ॥ देखै नहि कबु और जव । तव देखै निज रूप ॥ ८२ ॥ आगे
 करी निसंगता । समता सेवत जेहु ॥ रमै परम आनंद रस । सत्य योगमें तेहु ॥ ८३ ॥
 दंजहि जनित असंगता । इह जवके सुख देत ॥ दंज रहीत निसंगते । कौन दूर सुख
 देत ॥ ८४ ॥ मतहो संग निवृत्तकूं । प्रेम परम गतिपाइ ॥ ताको समता रंग पुनि
 कीनही कह्यो न जाइ ॥ ८५ ॥ तिसना विडुम वद्वि घन । विषय घुमर बहु जोर ॥
 नीम जयंकर खेद जल । जव सायर चिहुं और ॥ ८६ ॥ चाहै ताको पार तौ । सज
 कर समता नाउ ॥ शीज अंग दृढ पाटिए । सहस अढार बनाउ ॥ ८७ ॥ कूआ
 यंज छुन योग परि । बैठे मालिम ज्ञान ॥ अथातम सब बलें चलै । संयम पवन
 प्रमान ॥ ८८ ॥ योगी जवहुं तप करै । खाइ जुंरै तरु पात ॥ उदासीनता बिनु न
 सम । हुतिमें सोजी जात ॥ ८९ ॥ ठूटै जवके जालथें । जेनही तप करि लोक ॥ सो
 नी मोहै काहुकूं । देत जनमकोशोक ॥ ९० ॥ विषय उपडव सब भिटयो । होवत सु
 ख संतोप ॥ तातें विषयातीत है । देत शांत रस पोख ॥ ९१ ॥ बिनु लालच बश
 होत है । वसा बात यह साच ॥ यातें करै निरीहके । आगे सम रति नाच ॥ ९२ ॥
 दे परिमल समता लता । वचन अगोचर सार ॥ नित्य बहिरि नो जिहां बसै । लह
 तु प्रेम महकार ॥ ९३ ॥ सेना राखस मोहंकी । जीपै सुखै प्रबुद्ध ॥ ब्रह्म बानि
 कलेइके । समता अंतर छुद्ध ॥ ९४ ॥ कविमुख कल्पित अमृतके । रसमें मूजत
 कांहि ॥ नजो एक समता सुधा । रति धरि शिवपदमांहि ॥ ९५ ॥ योग ग्रंथ ज
 लनिधि मथो । मनकरि मेरु मयान ॥ समता अमृत पाइके । हो अजुनव रस
 जान ॥ ९६ ॥ उदासीन मति पुरुष जो । समता निधि छुन वेप ॥ ठोरत ताकूं
 कोय किधु । आपै कर्म असेप ॥ ९७ ॥ छुद्ध योग अज्ञान धरि । नित्य करम
 को त्याग ॥ प्रथम करै जो मूढसो । उजय चरै निरजाग ॥ ९८ ॥ क्रिया मूढ

जुर्वी क्रिया । करै नयापै ज्ञान । क्रिया त्रष्ट इक ज्ञान मति ॥ ठेवै क्रिया अपान
 ॥ एए ॥ ते दोनूथें दूरि शिव । जे निज बल अनुसार ॥ मारग रुचि मारग गदै ।
 सो शिव साधन हार ॥ १०० ॥ निवृत्ति ललनाकूं सहज । अचिरजकारी कोउ ॥
 जो नहि याकूं रुचत है । याकूं देखे सोउ ॥ १०१ ॥ मन पारद मूर्ठित नयो । सम
 ता औषधि आइ ॥ सहज वेध रस परम गुन । सो वन सिद्धि कमाइ ॥ १०२ ॥ बहु
 त ग्रंथ नय देखिके । महा पुरुषकृत सार ॥ विजय सिंह सूरी किउ । समता शतको
 हार ॥ १०३ ॥ जावत जाकूं तव मन । हो समतारसलीन ॥ ज्युं प्रगटे तुज सहज ॥
 सुख । अनुभवगम्य अहीन ॥ १०४ ॥ कवि यशविजय सुं सीखए । आप आपकूं देत
 साम्यशतक उदारकरि । हेमविजयमुनिहेत ॥ १०५ ॥ इति श्री समता शतक समाप्तः

॥ अथ श्री दिगपट चोराशी बोल प्रारंभः ॥

॥ ठप्पयबंद. सुगुण ज्ञान गुन ध्यान, दान विधि धर्म प्रकाशक; सुयटमान पर
 मान, आन जस सुगति अन्यासक; कुमत वृंद तमकंद, चंद परि दंद निकासक; रु
 चि अमंद मकरंद, संत आनंद विकासक; जस वचन रुचिर गंजीर नय, दिगपट क
 पट कुठार सम; जिन वर्द्धमान सो वंदिये, विमल ज्योति पूरन परम. ॥१॥ कवित्त ५
 कतीसा. सागरके आगे कहा गागरी धरैगी गर्व, खर्व कहा वेसरुंके आगे अर्ब
 इंदको; नाक वृठ आगे कहा आकको अंकूर ठाजै, सूर तेज आगे कहा राजै धा
 म चंदको; कामधेनु आगे कहा कूकरी करैगी मान, नूपतिके आगे कहा जोरहै
 पुलिंदको; ऐसे सरवंग गुं अंथ जो सितंबरको, ताके आगे कौन दर्प दुर्मतीके
 वृंदको २ दोहरा. पहिलुं दिगपटसुं सुनै, बोल चुरासी फेर, सर्व विसंवादे
 नयो, अबतो बहुत अंधेर. ३ निन्हव थै अधिको बुरो, कह्यो मिथ्याति सो
 ५; परिहरना अधिकार यह, आवश्यकमें जोइ. ४. खट शत नव वरखे नयो,
 तस मत जम मृग पास; सहस मल्ल दीक्षा लइ, आर्य कृष्ण गुरुपास. ५ राजमा
 न्य तिणे अन्यदा, विहस्यो कंबल रत्न; मूर्ठासेंती संग्रह्यो, कियो न संवर यत्न. ६
 गुरुने कीने पूठने, टले गुं मूर्ठा दोष; आइ देखि मनमें थस्यो, तिनि ताथें बहु रो
 प. ७ अविरेकल्प स्वमन कियो, बरन्यो जब जिन कल्प; नगन पंथ तिण आ
 दस्यो, त्यजि सदगुरुके जल्प. ८ तस जगनी देखी नगन, बेसै दीनो बेस; चरन
 निषेथै नारिकूं, तव सो सुरि निरदेश. ९. जैन कहावै नामथें, ताथें बढ्यो अंकू

र; तनु मल ज्युं फुनि संतनै, कियो दूरिथें दूर. १० नसमक ग्रह रज नसममय,
 ताथें बेसर रूप; उवें नाम अथ्यातमी, नरम जाल अंध रूप. ११ कवित्त इकतीसा.
 नोगके नीखारी अधिकारी नही ग्रंथनके, आपकी पथारीमें चलावै निंदा पारकी; खो
 जै नांति न्यारी न्यारी किरियाकूं दूरि नारी, कहै कोउ सीख सारी देवै गारी नारकी;
 जूठे मत नामधारी नांगकी खुमारीमें जो, लवै युक्ति नारी सोतो, कूटै नीति गा
 रकी; ऐसे हैं जुआरी अब मूढनके पट्टधारी, आरी आरी जानै बात जात जैसी टारकी
 १२ दोहरा पल्लवग्याही लोककूं, समुजावै कुन जान; कोमल करतुनधनघटा, ज्युं
 मुगसेल पखान. १३ दृष्टिराग मदमत्तकूं, जो देवै उव एस; सो कूकर मुखमें उवै;
 आप कपूर अज्ञोस. १४ गुष्क पयोधर नारि ज्युं, निंदै कंचुककार; गूढ हेतु
 बुद्ध गम्य ल्युं, निंदै ग्रंथगिमार. १५ ऐसे जडसू संतकूं, घटे न वाद विचार;
 तो नी परके बोधकूं, कहियें बोल डुचार. १६ साचेकूं फूवा कहै, फूठेकूं कहे
 साच; अनिनिवेश उनमत्तको, ऐसो बहु विधि नाच. १७ कवित्तइकतीसा
 तूटै अंतराय पंच रंचही न राग रोश, हास ठक्क काम कीनो अंचही न देखि
 ई; वंचना अज्ञानकी मिथ्यातको प्रपंच निद, आश्रवको संच सो तो, मूलथें
 विज्ञेखिई; एसैं जो अवार दोष घाति कर्म जाव पोप ताको परिशोप याके ज्ञानमें वि
 शेखिई सोई बुद्ध नाम कोप घोपतें अनंत तोप; मोप मग्न दाता ज्ञाता देव देव ले
 खिई १८ उष्यतंडा ॥ कृधा तृथा जय शोग, रोग जर मरण जनम मद; मोह खेद
 परसेद, निंद विपमय चिंता गद; रति विपाद ए दोष, कहे अष्टादश दिक पट; सो
 लीक तिनमांहि, नही गुण दूषण उदचट; जो जाव अघाती दोष दुइ, तो जिनकूं नर
 गति प्रमुख, दूखन अनंत विलगे रहै, शिव पद दूषक मुनि विमुख. १९ चौपइ ॥ सप्तधा
 तु वर्जित जिन काया, परमौ दारिक कहै सु माया; जिदा नही वैक्री परि ताकी; सं
 घषणादिक खंध विपाकी. २० परमौदारिक जो जिनवरकूं; तो मथ्योदारिक ग
 णधरकूं; कहै कहा नहि कल्पन कारी; क्युं औरनि सरखे गणधारी. २१ स
 महु धातु गलै जिनवरके; केते धातु गजै गनधरके; सप्त धातु जिण नाणें
 जावै; मन नाणें मुनि कहा कहा पावै. २२ जिन तनु थिति नो कर्माहा
 रें; कहै मूढ तेफूव विचारें; औदारिक थिति कवलाहारें; दृष्टि हानि होइअन्य प्र
 कारें. २३ दोहरा ॥ कहै केवली कर्मकूं, दग्ध रज्जु सम मूढ; आगममति जा
 नै नही, जोआउ नाम दृढ रुढ २४ तत्वारथ परिखह कहै, जिनको प्रगटइयार;
 ताको अरथ मरोरतें, क्युं पामें नव पार. २५ सूत्रनमें परिखह कहै, वृती

लिथो नकार; जो संसो उपजत नही, तो तुज ब्रमको नार. १६ जिनकूं इ
 डिय विरहयें, तनु गत नहि सुख दुःख; कहै जु जीव विपाक तसु, उदो फल
 कुण रुख. १७ खाइक सुख जिनकूं कहै, केवल ज्ञान सरूप; वेदनीयके स्वय ग
 ये, कुन गुन कहो पशु रूप. १८ उदय नाव खाइक गन्यो, जिनकूं प्रवचनसार; अ
 र्क तूल परें तो फिरे, क्रियारहित निरधार. १९ बठें उठें आसने, देव प्रेरित देव
 ऐसो है क्यूं कल्पना, ठोडि न मिथ्या देव. २० केवलनाणे जो स्वगति, मननाणे
 कबु होइ; करम विफल जो मोह बिनु, यश कीरति क्यूं जोइ. २१ अतिशय नूख
 अनावको, कहै सुगुरु कुज हीन; नाव अधाती क्यूं मिटै, धातीगए जो खीन. २२
 कवित्त इकतीसा. केवली आहार करे जागै अग्नि अंतरकी, वेदनी अहार शक्ति
 ताकी नाही हीनता; हेतुके समाजतें घटै जुं काज साज शुद्ध, लाजें तहां आज
 लुंका हानी कहा दीनता; अन्यथा न अप्र वर्ष, बाल केवली विशाल; पूर्व कोटि
 आव पाल ताकूं वृद्धि खीनता; वृद्धि पोखदाइ नाइ वर्गणा कहांसु पाइ, ज्ञानयें
 जु आइ तामें मुक्तिकी प्रवीणता. २३ दोहरा. दिक् पट जिन बोलें नही, शि
 रयै उठै नाद; किरिया बिनु घट ध्वनि परें, तामें कौन सवाद. २४ कहै शिला
 का पुरुषकूं, नही कबहुं नीहार; तपति लब्धि सबकूं नही, एहु अटप्ट प्रकार.
 २५ खल पुजल तिनकूं जलै, रस पुजल जलि जाइ; दोउ जलै तो उदरमें, नस्म
 क व्याधि उपाइ. २६ तेनरु कंक गहनि कहै, उर कपोत परिनाम; ए आगमके
 वचनमें, क्यूं न करो विसराम. २७ कहै साधु अप्रमत्तकूं, नही अहार विहार;
 खांफी सिद्ध शिला नइ, जिहां न साधु प्रचार. २८ बाहिर मानुष सेलके, गइहो
 ई व्रत जंग; यूं कहते चारण बिना, क्यूं जलमें शिव संग. २९ सोरठा. दो
 इ घटीके फेर, केवल मानै नरतकूं; बडो मोहको घेर, नाव प्रधान गनै नही.
 ३० हरिगीत ठंड. चारहुं निखेपे एक डव्यें, कहे श्रीजिन आगमें; ज्युं नाम घ
 ट संठाण थापन, डव्य मृदगुन नावमें; यूं जीव डव्यह केवलादिक, गुनह डव्यत
 नावतें; हुइ नियम पुजल डव्यको, तौ तंत नहि व्यञ्जितारतें. ३१ जो समय
 सारे अंत्य धारे, मुगति लिंग न वेदतें; निश्चय प्रमानै व्यवहरइ तें, वस्तु गुन
 गुनि जेदतें; अधिगम बिना सम्यक्त मानै, डव्य बिनु चारित नही; चारित बिना
 कहै समकितै, शिव हठें मति जो बही. ३२ सुर कोइ शिर परि वस्त्र डारै, जाय
 केवल तौ घटी; जो डव्य बिनु केवल नही, तौ केवला वरणं पटी; जो नाव लिंग
 प्रमान कीजै, जेद पनरहुं तौ घटै; सिद्धति जाखै सिद्धके नर, तासु निंदक जव

अष्टे. ४३ थी लिंग सिद्ध कहै न कुमतें; तास चरण निवारण; जो संघ प्रवचन
 सारि चोविह, पढयो सो न विचारण; चोनेअ जोलिं अङ्गिका करि, पंच होवै
 अङ्गकें; यूं संघ जोपै समय कोपै, डुर्मती न वधी सके. ४४ कवित्त इकतीसाः—
 पुण्यके कचोल रंग रोलके निचोल सोल, शीलथें अमोल याकी जातिमें महासती;
 यामें जग तातनकी मात अवदात गात, नमै जाकूं इंद जाति निचही महीपती;
 दानके स्वनाव साचे, तपके प्रनाव जाचै, नही जावकाचै नाचै माचै साधु संगती;
 धर्म अवलंबिनी जो दोषकी विलंबिनी नितंबिनी है ऐसी ताकूं क्यूं न पंचमी ग
 तीः—४५ दोहराः—मछी सो कुमरी कही, मछ सु कुमर कहाइ; पुरुष स्वरूपें देखिये,
 पुरुष स्वरूप न माइ. ४६ तित्थंकर थी वेदको, क्यूं एकनको बंध; गुन थानक आकर्य
 थी, एहु हमारी संघ. ४७ तित्थ प्रणाम प्रदक्षिणा, थानकी वरखि कहान; परहित
 करनी पुण्य फल, कपिल नृत्यको तान. ४८ दोहु कुमर जिनजी कहै, पंच कुम
 र कुन हेत; प्रिया पंचकी झौपदी, मानै नहि कुल केत. ४९ एकै घरि ऊजोजिमें,
 अगवीस गुनमूल; अंतराय कलपित कहै, ते सबही निरमूल. ५० कस्तुरी अ
 पवित्त कहै, वाय वजावै काहि; कहु कुंकुम कर्पूरकी, गति आवै मनमाहि. ५१
 प्रतिमा नगन न सोहियें, पट नूखन पहिराइ; स्नात्र विलेपन धूप मुख, जगति
 हि हेतु कराइ. ५२ शिष्य करै ज्यूं जिन करै, तौ क्यूं दिरकत शीश; क्यूं बोलें
 त केवल बिना, न विराधौ जगदीश. ५३ नगन दशा जिनवर धरै, नगन दिखा
 वै नाहि; अंबर हरि खंधे धरै, उचित जानि मनमाहि. ५४ अरिहृदंडः— गौत
 म स्वामीगए, खँदककूं; मानै नहि मुनि जाइ, सुसनमुख जैनकूं; धर्मके कारन क्यूं
 अपवाद न मानही; ऐसिहि जातिसुं होवत बीजाधानही. ५५ दोहरा. कोरै
 कहै जु थापना, प्रतिमा क्यूं न पखाम; सप्रावा सप्रावतें; ताको द्विविध बखान.
 ५६ जिन विरहै जिन बिंबकी, ज्यूं थापना प्रमान; गुरुविरहै गुरुथापना, तैसे क
 रै सुजान. ५७ तैसी जमति न विमल गिरि, जैसी गढ गिरनार; तीरथ क्रम जा
 नै नही, को तस बोधन हार. ५८ अच उपयोगी साधुकूं, शिष्य दिरक
 उवणश; ध्यान अइ उपयोगमें, नहि अपवाद अशेश. ५९ काय खेद जो
 धर्ममें, सो ग्रहि धर्म प्रकार; ताकूं करत यती नही, जाखै प्रवचनसार. ६० ता
 परि हम यूं कहतु हैं; कह अपवादी साध; पंचम गुन थानक नजै, कै अधिकार
 हि बाध. ६१ प्रथम पष्ठ अविरति नही, तौ व्रतको नहि जंग; इतिय पष्ठ जो
 पाप है, तौ गृहिकूं क्यूं रंग ६२ हिंसा दोष स्वरूप जो, तोलूपक मत रङ्ग;

आगे पीठे देखिके, क्यूं जापो नहि अज्ञ. ६३ वधू नइ वसुदेवकी, बहुतरि स
 हस उदार; अधिक नयो कह चक्रिये, यूं संसौ मत धार. ६४ बाहुबली ज्यूं अधि
 क बल, जरतहिये निरधार; सोजागी वसुदेव ल्यूं, सबहीमें शिरदार. ६५ राज ज
 माली वीरको, कहाँ जमाई सुत्ति; सो उत्थाप्यो कुमतरिये, वीर कुमर कहि धुत्ति.
 ६६ चंडरुद्रके शीशकूं, मानै केवल नाहि; जानै नहि ठामे नही, सो व्यवहार
 उठाहि. ६७ चोविहार पचखान विनु, माने नहि उपवास; जानै नहि तिविहा
 र नी, डुब्बलको अच्युत. ६८ परम क्रिया आगे करै, प्रथम क्रियाके त्याग; चप
 ल वित्रुते मूढ नर, नही बोधके लाग. ६९ कवित्त इकतीसाः—जापाज्यूं मजेठकी
 न जापै विप्र वेद दाखै, ताके बोधके निमित्त जापै सोउ पारसी; तेसे व्यवहारकूं न
 गुहरंगी अंगी करै, जेवै गुह साधवेकूं ठाया व्यवहारसी; ऐसे कहै कोउ ताकूं दुष्टताके
 हेतु जानि, दुष्ट पुण्यतामें देखै, कल्पनाकी आरसी; ज्याही परठाही ताकी लिंग सा
 धने विठाही, ज्ञानीकूंउठाही मानै क्यूं न जानै ठारसी. ७० जैसे कोउ मंद
 सत्व आपको ममत्व गहै, कहै में नखूं जो नख्य तत्व चक्रवर्तिको; खायो सो अ
 घायो पै न पायो चैन तीव्रताथे, जखो न जुरायो आयो दायो ब्रंद अर्तिको; तेसे
 गुहरंगी अंगी ताहीको प्रसंगी होत, मार्गको विचंगी होवै श्वान जन्म गर्तिको; ज
 रै ताकूं गुह जाव याकूं योगको स्वजाव, बाह्य हेतुको प्रजाव पूगै मार्ग वर्तिको.
 ७१ दोहराः— निश्चय नय पहिलूं कहै, पाठेले व्यवहार; जापाक्रम जानै न
 ही, जैन मार्गकोसार. ७२ नही निश्चयमें शिष्यगुरु, क्रियाक्रियाफल योग; कर्ता
 नहि जोक्ता नही; विफल सबै संयोग. ७३ ताते सो मिथ्यामती, जैनक्रिया प
 रिहार; व्यवहारी सो समकित्ती, कहै जाप्य व्यवहार. ७४ जो नय पहिलूं परि
 नमें, सोइ कहै हित दोइ; निश्चय क्यूं धुरि परिनमें, सूखम मति करि जोइ. ७५
 कवित्त इकतीसाः— उंची उंची बातकूं दिखावै नसिखावै मग्ग, अंतलूं तिखावै
 सो चरकावै न सुखासिका; घोरेथे आरंजै पै निवाहलूं जो थंजै न अचंजै दंजको
 विलंजै ताकी सिद्धि आसिका; फूलसो अमूल गुह निश्चयीको मूलपै सुगंधता
 को जानै व्यवहार वृत्ति नासिका; खोजन अगम्म सोहै किरिया अलग्ग जो है,
 पाग जैसे नम्रकूं विलङ्कता प्रकाशिका. ७६ अडिह्वतंड.— इव्यारथ नय संगत
 आपस्वजावमें; जे राचै सो माचै स्वसमय जावमें; पर्यायारथ नयमें जे रंगी रमै;
 ते परसमयी जाखै प्रवचन सारमें. ७७ पदुपात यूं एकहु नयमें जे करै; स्याद
 वाद सरवंगी ते नवि चितथरै; एक पद वेदको दूजो बुद्धको; खप्पर दोउमें

जेद न शुद्ध अशुद्धको. ७८ निज निज वचने सत्य, असत्य नयंतरें; सबही न
 यहै सरखे वर्जित अंतरें; एक जाव निरधारै सो नहि पंथमें; सिद्ध सैन थूं जाखै
 संमति ग्रंथमें. ७९ दोहराः—कहै स्वभाव विभावयै, गुनके दो परयाउ; लहै न
 परिनिति इव्यकी, जीव सिद्धके न्याउ. ८० गुन विनिन्न नहि इव्यथें, कुन ताके
 पर्याय; सह जावी परयायको, गुन अनिधान कहाय; ८१ जो गुन त्रीजो जाव है
 तौ त्रीजो नय होइ; सो तौ प्रवचनमें नही, संमत साथें जोइ. ८२ नवही नय
 नयचक्रमें, इव्यारथ मुखइछ; तत्वारथमें सात हैं, देवसेन कहा दिछ. ८३ तत्व
 सात नवजोकहे, लूं नहि नयकी बात; एहु विचक विचाग है, सो तौ कारन जात
 ८४ जो ह्वथें नव नय कहो, गहत इव्य परयाय; अप्पियणप्पिय जेदथें, एका
 दश दुइजाय. ८५ जो संग्रह व्यवहारमें, अप्पियणप्पिय इछ; आदि अंत नय थो
 कमें, अक्कव इव्य निविछ. ८६ उपनय नयको अंश है, कहै विनिन्न कुवंश; उ
 प प्रमाण मानै नही, क्यूं प्रमाणको अंश. ८७ सवैया तेइसाः— काल अणुकुं क
 है थूं असंख्य असंख्य प्रदेश अगाशहि लोके; मंदगती अणु संक्रम गम्य समै प
 रयायकु इव्य विलोके; वस्तुविना थिर जन्म विनाशि समै परयाय सधै नहि थोके
 सो तूं न जानत काल सितंबर, थूं हि पुकारत दिक्पट फोके. ८८ सूखम वर्त्तन रू
 प समै सु तु, जीव, अजीवहिके परयाया; ताहिकें इव्य तु जीव अजीवहि, का
 लकें इव्य अनंत कहाया; सूखम वर्त्तन हेतु छु चाहु तु, क्यूं गति हेतु न तैस सुहा
 या? जो गति हेतु है एक साधारण, एकहि खंथ समै तुह्य पाया. ८९ सोरवा
 गति थिति हैं छु विभाव, ताको हेतु विलोकिइ; वर्त्तन सर्व स्वभाव, बाह्य हेतु
 ताको नही. ९० ज्यौ पक्कव गुन इव्य, त्रिविध अर्थ व्यवहारथें; ल्यौ कहियें प
 ट इव्य, पक्कव काल प्रमानथें. ९१ काल इव्य कहूं एक, तहैं अनपेहित इ
 व्य नय; तत्वारथ सुविवेक; वृत्तिकार विगतें वदे. ९२ चौपाइः— जनम कल्यान
 क समय सुहाया; मेरु अचल जिनवीर चलाया; यातो वात न मनमें आवै; सु
 गधनकूं थूं कहि दिखलावै. ९३ देव बलें धरनी या कपै; ताकूं शाश्वतकोन
 नजपै; देवबलें जावें जो सांसो; देवदेवबल कहा विमासो? ९४ मुनिसुव्रतको गन
 धर थोरो; एसो कहे सु जानै थोरो; बूजै नहि असमंजस बोलै; सो संतनमें त
 एके तोलै; ९५ सदा सत्य सेतंबर बानी; तहां कहै मुनि सुव्रत ज्ञानी; प्रतिष्ठा
 न पुरमांही आए; देव मिली मठ तीन बनाए. ९६ पूरव नवको मित्र प्रमा
 न्यो; अश्वमेधसे वधकूं आन्यो; देख्यो अश्व तास उपकारी; रातिहिमें प्रभु चलै

विहारी. ए७ प्रात समय प्रचुजी नृगु कबुइं; समवसरन बैठे गुन अबुइं; पूरव
 नव कहि अश्व प्रबोध्यो; तहां ओरको चित्त न सोध्यो. ए८ प्रचुपात्रों अनशन
 ले वाजी; जयो देव सहसार समाजी; सुवरनकी प्रतिमा तिन कीनी; अश्वमूर्ति से
 वक करि दीनी. ए९ नाम अश्व अवबोध कहायो; तेहु तीर्थ जगमांहि गवायो;
 शत्रुंजय माहातममांही; जाव सुनो ए नव्य उठांही. १०० कुन गनधर इहां थोरो
 जाख्यो; फूठो आल मुगधने दाख्यो; आंखिकु ओखध काने बाहे; ताको कुन गहि
 बांह निवाहे? १०१ सवैया तेइसा:— जंगम तित्थ तुरंगम संगम, रंगम हानि धि
 कारन जानी; ताकेँ प्रयोजन योजन साठि निशाहिमें आय जु निर्मल ज्ञानी; अबुमही
 नृगु कबु सुलभन, पावन कीनि सुधाखरिवानी; ताके नमो मुनिसुव्रतके पद संपद
 कारन तारन प्राणी. १०२ दोहरा:— महामंत्र नव पद कहै, कहै पंच पद आन;
 गोसुवसारादिक धुरे, नव पद लिखै प्रमान. १०३ ज्यूं चूला बिनु श्रुत नही,
 ल्युं न मुंठ नवकार; जो संखेपहि आदरो, जपहु एक उँकार. १०४ श्रुत सबही
 में पंच पद, नव पद श्रुत महमंत; शुद्ध परंपर बुध लहै, ए जिन शासन तंत. १०५
 चूला वर्ण बतीशकी, कहै सु सबहि अजान; अडसठ अरकर कवचमें, कहै जु मंत्र प्र
 मान. १०६ नव अरकर पदर्थे नही, तहां ठंडको जंग; ऐसे बहु पद देखिइं, आग
 ममांहि सुवंग. १०७ देव देव उर देव सब, अर्ध मागधी बाणि; जाखे सत्यारथ
 वचन, पंचम अंगें जाणि. १०८ और कहै जिन जाखही, सर्व मागधी वाणि;
 तामें साखी कौन थो, कहा जान कह हाणि? १०९ दंत रहित जिन मानतें,
 याको नहि कबु जाज; सो मानै नहि दाढ तस, पूजै जे सुरराज; ११० कहै ज्यु
 तंत्र समाधितें, जाति लिंग नहि हेत; चंमालादिक जातिकों, क्यूं नहि मुकति सं
 केत; १११ गुणधानक प्रत्यय मिटै, नीच गोत्रकी जाज; दर्शन ज्ञान चरित्तको, स
 बहूं तुल्य समाज; ११२ कौन जाति अधिकारिणी, नहि तौ कहौ प्रमान; ब्रह्म
 जाति ब्रह्मणवदै, कृत्रिय कृत्रिय मान; ११३ त्राण नहा कुल जाति कबु, वि
 द्याचरण विहीन; सुगडांगको वचन यह, क्यूं न करौ मन लीन? ११४ करमजा
 व प्रचुको रह्यो, नीच गोत्र अवशेष; तार्थे द्विज घरि अवतरै, तहां करै जम के
 ष. ११५ दोष नही दो तातको, क्षेत्र बीजके त्याय; शील जंग नहि मातकूं,
 गर्ज न वीर्य कहाय. ११६ अन्न खात्र परिनाम है; पय तृणको परिनाम; इव्य
 जिनन पै जिनन गुन, गर्ज न वीर्य नाम. ११७ करम जाव प्रचुकूं कहौ, जो
 आवै तुम्ह जाज; सदा सिद्ध तौ मानिलो, कहा जनमको काज. ११८ कब्या

नक दो धरि किये, कल्याणक पट होत; सो दूषन हम्कूं नही; तहँ दिन गणित
 उद्योत: ११९ सुररुत कल्याणक नही; रूपन राज अनिपेक; वीर गर्न अपहार
 में, त्यूं न कल्याणक टेक: १२० नेगमेपिकी शकति है; रोम कूपमें गर्न; सं
 क्रम करतहि अपहरै; सो नहि मानत अर्न: १२१ कहें बाहुबल केवली, नम्यो
 रूपनके पाय; वैवो देइ प्रदक्षिणा, कही न फूठ बनाय: १२२ अप्रमत्ता है
 जहां, तहां न बंधन जाव; उचित प्रवृत्ति न ठारही, तौ जी जिन सदजाव:
 १२३ ठीक न मानै वीरकूं, कर्म वेद्यको जाव; फरसनकूं दरसन कहै, सो तौ कु
 टिल स्वजाव: १२४ हरि हरिनी हरि वर्षके, युगल हरै सुर कोइ; मथुरा नगरी
 राज्य दिइ; करै देह लघु सोइ: १२५ दिव्य शक्ति तबयें जयो, हरिको वंश वि
 शाल; ऐसो अचरय जाव ए; होत अनंतहि काल: १२६ काल अनंत अनंत
 थें, युगल युगल अपहारि; शून्य होत हरि खेत यूं, दूषन कहै विचारि: १२७
 तहां कहै सिद्धांत हम, जैसो युग अपहार; तैसो पूरन ताहिको, काल बहू निर
 धार: १२८ एक रूप अचरय नही, सदा कहै दश संख्य; काल अनंत अनंत
 थें, होत असंख्य असंख्य १२९ कहै चमरकी गति नही, शक्र लगैं निरधार;
 ताकूं कोप रुतांतको, जगवइ अंग विचार: १३० देशअनारयमें नही, वीर विहा
 र अशुद्ध; मनुषिणि देव न जोगवै, कहै सु वचन विरुद्ध: १३१ सुदि वैशाख
 दशमि दिने, वीर उपन्नो ज्ञान; श्रावन सुदि पडवा दिने; आपुन कियो बखा
 न: १३२ ठासठ दिन मौनी रहै, जावै एम अज्ञान; एकहु सजा अजापितां,
 हम हैं वचन प्रमान: १३३ मौन अजावित जानिके, मानहु अधिक दुमास; ए
 क सजा तैसी कहत: क्यूं जागत तुम पास: १३४ तवैं देव जिन विचरिते; पा
 न कमल पग हेवि; कहै जूमि परि गगनमें, ते देवनकी वेवि: १३५ पाठ धरै
 जहँ धरनि परि, तहां कमलको काज; कमल गगन ऊपरि चलै, कहा बच्यो ए
 साज: १३६ सोल सुपन जिनमातकूं, सोल कहैं सुर लोक; इइ मिलत सत
 मानही, ते सबही मत फोक: १३७ बदले अतिशय तीस चउ, कहै छु गुरु
 कुल रीति; तौ अदृश्य आहार विधि, दाखत पावै नीति: १३८ छुगति रहित
 जिनवर कहौ, बलि ठौंकत कुन हेत; चरम नीर धृत कुतपको, कौन दोष कहु ले
 त: १३९ मरुदेवी श्री नानिको; युगल धर्म नहि दोष; दशायु सनमुख धर्म
 की, करै धर्मको पोप: १४० सुर नर विहित विवाहको, जवखूं नहि व्यवहार
 प्रखूं नी तबखूं नही, युगम धर्म अधिकार: १४१ कवित्त इकतीसा:— साधुकूं

कुपात्र कोउ कहै पात्रधारी नाहि, ठात्रसो पढयो है कोपैं गात्रकूं न मानही;
 पात्रधारी नाहि लब्धि पात्र और पात्रधारी, एह रीति नीति ज्ञाता सूत्रयें प्रमान
 ही; ग्लानकूं आहार दान पात्र बिनु कैसे होत, गृही पात्र जुंजै तो ग्रहस्थ जाव
 वानही; पाहुनेकी नक्ति युक्ति पात्रहीयै करै साधु, पिंडकी संशक्ति पात्र विना कै
 से जानही. १४२ सवैया तेइसा:—शौचकै कारन राखै कर्मफल, पात्रकूं ठोरि कहा
 गुन पायो; वीठिसि पींठि धरी त्यजि उंवेकूं, औरसु मूढने वेप बनायो; तमलंब्धी
 लग जोहि कर्मफल, पात्रलंब्धी लगि पात्रसुहायो; जैनको नूपन जैनको वेप है,
 और धरे कह हाथमें आयो: १४३ दोहरा.—वाज अग्र पुजल धरै, मुखि जापत
 हो दोष; धरो कर्मफल पिठिका, कहा करौ कवसोष. १४४ उपधि सहित नहु
 शुद्ध हैं, ज्युं तंजुल तुषवंत; एकु पक्क मन शुद्धता, कहै जाव जगवंत, १४५ कहै
 कोउ पचखानको, उपकरनै व्है जंग; देहा ऽहारादिकविषे, तास न उचित प्रसंग.
 १४६ रौड्य्यान मूर्छा प्रमुख, सब सरिखे तहँ दोष; यतनासूं निर्दोषता, ए सुवचन
 सत कोष. १४७ इव्यादिक चोचंगसूं, धरै न मूर्छा साधु; ए चोविह पचखानको,
 एकहु अर्थ अगाधु. १४८ शुद्ध योग अपवादयै, कह उपकरन सु मंद; उपचरि
 ताऽनुपचरितमें, साधनतासममंद. १४९ मूर्छा वाह्य प्रवृत्तिमें, जो तुम कहो कुप
 रक; नोजन त्यजि अनसननजो, ऐसे होत जु दक. १५० ध्यानदीपको तैलजो,
 नोजन करौ प्रमान; तो निवात पद उपकरन, मानौ क्युं न अज्ञान. १५१ क
 वित्त इकतीसा:— पापके ओढैया महा मोहमें पोढैया ठैया, दैया दैया करै देखि
 साधुके वसनकूं; ठिडके कढैया निंदाचर्मके मढैया माया मानके दढैया लागै लोक
 से हसनकूं; अंगके पढैया गुण श्रेणिके चढैया शुद्ध शीलके दढैया कहै धर्म उ
 दसनकूं; फूतके लढैया सत्य थंनके गढैया जैया वस्त्र पात्र हेत साचे काया नी
 कसनकूं. १५२ दोहरा:— शीत त्राण कलके धरै, कंबल वर्षा त्राण; मुख वस्त्रें
 ते राखियें, जे संपातिम प्राण. १५३ सबसज्जनमें राखियें, चोल पट्टयें लाज
 उचित धर्म आचारमें, नीलजकूं नहि लाज १५४ आठ जेद जिनकल्पके, एक
 कहै सो मूढ; नगन दिखावै सो लज्जे, वस्त्र नाहि ए गूढ १५५ और सिद्धांत उ
 चित्त है, इतो कुमतको नाच; पै संवाद विनाकहा, पावौ प्रकरन साच १५६ अब
 सिद्धांत जु तुम कहै, पाठ दिखावो तास; जब प्रकरन तुम गुरु किये, तब जो हु
 ते प्रगाश. १५७ हेमराज पाने किये, बोल चुराशी फेर; या विधि हम जापा व
 घन, ताको मत किय जेर १५८ है दिकपटके वचनमें, और दोष शत साख; के

तेकाले मारिये, जुंजत दधि उर मारव. १५ए पंक्ति साचो सद्वहै, मूरख मिथ्या वंग; कहते सो आचार है, जन न ल्यजै निज ढंग. १६० सत्य वचन जो सद्वहै, ग है साधुको संग; वाचक जस कह सो जहै, मंगल रंग अचंग १६१ इति श्री यशो विजयजीउपाध्यायकृत दिक्पट चोराशी बोल समाप्तः

॥ श्रीचिंतामणिपार्श्वनाथ जिनस्तोत्रं लिख्यते ॥

किं कर्पूरमयं सुधारसमयं किं चंद्रोचिर्मयं किं जावलयमयं महामणिमयं कारुण्य केलीमयं ॥ विश्वानंदमयं महोदयमयं शोचामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनप तेर्नूयाद्भवालंबनं ॥ १ ॥ पातालं कलयन् धरां धवलयन्नाकाशमापूरयन् दिक्चक्रं क्र मयन् सुरासुरनयश्रेणीं च विस्मापयन् ॥ ब्रह्मांडं सुपुवन् जलानि जलधेः फेनजलाह्वो लयन् श्रीचिंतामणिपार्श्वसंनवयशोहंसशिरं राजते ॥ २ ॥ पुण्यानां विपणिस्तमोदिन मणिः कामेनकुंनसृणि मोक्षे निःसरणिःसुरेन्द्रकरणिर्ज्योतिःप्रजासारणिः ॥ दाने देवम णिनैतोत्तमजनश्रेणीरुपासारणिर्विश्वानंदसुधाधृष्टिर्नवनिदे श्रीपार्श्वचिंतामणिः ॥ ३ ॥ श्रीचिंतामणिपार्श्वविश्वजनतासंजीवनं त्वं मया दृष्टस्तात ततः श्रियः समनवन्नाशक माञ्चक्रिणः ॥ मुक्तिः क्रीमति हस्तयोर्वहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं ॥ इदं च इति च इति नयं कष्टं प्रणष्टं मम ॥ ४ ॥ यस्य प्रौढतमप्रतापतपनः प्रोढामधामा जगद्धंघालः कलि कालकेलिदलनो मोहंधविध्वंसकः ॥ नित्योद्योतपरं समस्तकमलाकेलीगृहं राजते स श्रीपार्श्वजिनो जने हितरुतौ चिंतामणिः पातु मां ॥ ५ ॥ विश्वव्यापि तमो हिनस्ति तर णिर्बालोपि कल्पांकुरो दारिद्र्याणि गजावलिं हरिशिशुः काष्ठानि वन्देः कणः ॥ पीयूषस्य लवोपि रोगनिवहं यद्वत्था ते विज्ञो मूर्तिः स्फूर्तिमती सती त्रिजगतीकष्टानि हर्तुं कृ मा ॥ ६ ॥ श्रीचिंतामणिमंत्रमोक्तियुतं ह्रींकारसाराश्रितं श्रीमहं नमिष्णुपासक लितं त्रैलोक्यवश्यावहं ॥ धेधानूतविपापहं विषहरश्रेयःप्रज्ञावास्पदं सोह्नासं वसु हां किंतं जिनफुलिंगानंदनं देहिं ॥ ७ ॥ ह्रींश्रीकारवरं नमोऽक्षरपरं ध्यायंति ये योगिनो हृ त्यग्ने विनिवेश्यपार्श्वमधिपं चिंतामणीसंज्ञकं ॥ जाले वामजुजे च नानिकरयोर्नूयो जुजे दक्षिणे पश्चाददृष्टदलेषु ते शिवपदं द्वित्रैर्नैवैर्ज्ञात्यहो ॥ ८ ॥ नो रोगा नैव शोका न कलहक लना नारिमारीप्रचाराः नैवाभ्यं नासमाधिर्नच ॥ डुरडुरिते डुष्टदारिद्र्या नो ॥ नो शाकि न्योग्रहा नोन हरिकरिगणव्यालवेतालजाला जायंते पार्श्वचिंतामणिनतिवशतः प्राणि नांनकिञ्चाजां ॥ ९ ॥ गीर्वाणेषु मधेनुकुंजमणयः स्वस्यांगणैरंगीणो ॥ देवादानवमानवाः स

विनयःतस्मैहितं ध्यायिनः ॥ लक्ष्मीस्तस्य वशा वशेव गुणिनां ब्रह्मांडसंस्थायिनीश्रीचिं
तामणिपार्श्वनाथमनिशं संस्तौति यो ध्यायति ॥ १ ॥ इतिजिनपतिपार्श्वःपार्श्वपार्श्वी
ख्ययद्गुः प्रदलितदुरितौघःप्रीणितः प्राणिसंघः ॥ त्रिभुवनजनवांठादानचिंतामणीकः
शिवपदतरुबीजं बोधबीजं ददातु ॥ ११ ॥ इतिश्रीचिंतामणिपार्श्वनाथजिनस्तोत्रं सं ०

॥ श्रीमत्सद्गुरुच्योनमः ॥ श्रियः संततेः कारकं श्रीजिनेशं महामोहनूढायनाशे दि
नेशं ॥ नतं नाकिर्निर्जक्तिर्जीवनाथं स्तुवे देवचिंतामणिं पार्श्वनाथं ॥ १ ॥ महा
नागपारिंश्वैश्वानराहि प्रवातांबुधीरोगसंदानदाहं ॥ जितानेकपद्मं त्रिविश्वैकनाथं
स्तुवे देव ॥ २ ॥ ह्रमापार्श्वसेनस्य वंशेऽवतंसं हतक्रोधशत्रुं च लक्ष्मीनिवासं ॥ जनांनो
जखंडस्फुटे यस्त्रनाथं स्तुवे देव ॥ ३ ॥ सतांमोक्षपद्माप्रदानैकहेतुं महाकृ
विह्वेदने धूमकेतुं ॥ क्रमेदीवराज्ञीननागांकनाथं स्तुवे देव ॥ ४ ॥ सनीरांबुदश्या
मशिष्टांगकांतिं सुविस्तारिताविष्टपाशेषांतिं ॥ गतान्यूनदोषं वरं मुक्तिनाथं स्तुवे
देव ॥ ५ ॥ नरेन्द्रादिवंद्यं सदा लब्धयोगं निशारत्नकघ्नाननं त्यक्तशोकं ॥ कृपाज्ञाज
नं विश्वदेवाधिनाथं स्तुवे देव ॥ ६ ॥ जगत्तारकं दायकं सङ्गनानां श्रियं वांठितार्थापा
कं निर्धनानां ॥ सुरम्यस्य रुद्धनिर्जिताजाधिनाथं स्तुवे देव ॥ ७ ॥ कषायाग्निसंतर्प
णे वारिदाजं जरानीरुमातंगपंचास्यशोचं ॥ विडुष्टाष्टकम्मोर्गो पत्रिनाथं स्तुवे देव
चिंतामणिं पार्श्वनाथं ॥ ८ ॥ इत्येवं श्रीमदीरचंशिशुनामलूकचंडेण ॥ जयतु चिरं नू
तः पार्श्वजिनवरो विजितमदरागः ॥ ९ ॥ इतिश्रीमत्पार्श्वनाथस्तवनाष्टकं लिखितं.

इतिश्री प्रकरण रत्नाकर पुस्तके प्रथम जागः समाप्तः

